

# भारत का राजपत्र The Gazette of India साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 5—नवम्बर 11, 2005 (कार्तिक 14, 1927)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 5—NOVEMBER 11, 2005 (KARTIKA 14, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक

सं. 2/1959/डीएल.आई./एक्जम/89/भाग-II.--जहाँ अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952) 1952 का 19 (की धारा 17 की उप धारा 2) (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूँकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है।

## अनुसूची-1

क्र. सं.	पृथक् आधारसूचना सं० एवं तिथि	स्थापना का नाम	छूट की अवधि
1	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पाट-11/399 दिनांक 8.6.2004	मै० जैन एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०, नई दिल्ली-1 डीएल/3757	1.8.04 से 31.7.07
2	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पाट-11/399 दिनांक 8.6.04	मै० रशी एक्सपोर्ट्स, नई दिल्ली-20 डीएल/12152	24.6.00 से 23.6.03 24.6.03 से 23.6.06
3	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पाट-11/1002 दिनांक 15.10.04	मै० डैक्स ट्रेवल प्रा० लि०, डीएल/10788	1.10.2004 से 30.9.2007
4	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पाट-11/1000 दिनांक 28.5.2002	मै० कोसा डायनामिक्स लि० नई दिल्ली डीएल/9014	1.12.2004 से 30.11.2007
5	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पाट-11/5292 दिनांक 16.2.01	मै० यूर्टलॉट फार्मस प्रा० लि०, नई दिल्ली, डएल/9409	24.6.00 से 23.6.03 24.6.03 से 23.6.06
6	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पाट-11/1000 दिनांक 28.5.2002	मै० वेस्टफालिया सेपरेटर इंडिया प्रा० लि०, नई दिल्ली डीएल/13526	1.9.2004 से 31.8.2007
7	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पाट-11/1002 दिनांक 15.10.2004	मै० सोनार इंटरनेशनल, नई दिल्ली डीएल/11124	1.6.2004 से 31.5.2007
8	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पाट-11/2659 दिनांक 15.11.2000	मै० ओरियन्ट क्राफ्ट लि०, नई दिल्ली डीएल/15629	24.6.00 से 23.6.03 24.6.03 से 23.6.06
9	2/1959/डीएलआई/1000/89 दिनांक 28.5.2002	मै० ऐबरो बैलेंसिंग मशीनस प्रा० लि० नई दिल्ली डीएल/4591	1.11.04 से 31.10.07
10	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पाट-11/984 दिनांक 12.10.2004	मै० हिलगार्ड सर्विस प्रा० लि० नई दिल्ली डीएल/9188	1.3.2004 से 28.2.2007
11	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पाट-11/1002 दिनांक 15.10.2004	मै० जे.वी. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि० नई दिल्ली डीएल/3832	6.4.2004 से 5.4.2007
12	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पाट-11/1002 दिनांक 15.10.2004	मै० बायो निश सर्विस प्रा० लि०, नई दिल्ली डीएल/13486	24.6.2003 से 23.6.2006
13	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पाट-11/1000 दिनांक 28.5.2002	मै० रेडीक्यूरा फार्मासिटिकल प्रा० लि०, नई दिल्ली डीएल/6705	24.6.2003 से 23.6.2006

### अनुसूची - 1

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के आधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण का प्रभारी का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।
5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त।
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के आधीन अनुज्ञेय हैं।
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।
9. यदि किसी कारण वश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के आधीन कर्मचारियों को प्राप्ति होने वाली राशि से कम हो जाये तो रद्द किया जा सकता है।
10. यदि किसी कारण वश उस नियम तारीख के भीतर नियम करें प्रीमियम का संदाय असफल रह जाता है और पॉलिसी को व्यगृत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जाती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए किए गये व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गयी हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के आधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इस हकदार नाम निर्दोश/विधिक वारिसों का बीमा कृत राशि संदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

डॉ. ए. के. चण्डोक  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I

जामिया मिल्लिया इस्लामिया  
नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 2005

सभी सम्बन्धित की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग) के पत्रांक एफ.एन.ओ. 6-10/2004-डेस्क 'यू', दिनांक 9 अगस्त, 2005 की अधिसूचना के अनुसार भारत के माननीय राष्ट्रपति ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलाध्यक्ष की हैसियत से 'वास्तुशास्त्र एवं एकिस्टिक्स' नामक नया संकाय खोलने हेतु मौजूदा अधिनियम 17 में संशोधन/परिवर्द्धन की अनुमति प्रदान की है ।

12.2.2004 के प्रस्ताव क्रमांक 5 तथा दिनांक 4.3.2005 के प्रस्ताव क्रमांक 21 के अनुसार यह संशोधन कार्य-परिषद द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका था ।

संकाय के नाम का उल्लेख वास्तुशास्त्र एवं एकिस्टिक्स के रूप में अनुक्रम संख्या 17 (vii) में किया जाएगा तथा पिछले अनुक्रम को (viii) के रूप में पूर्ववत: पदावली के अनुसार पुनः अंकित किया जाएगा।

एस. एम. अफज़ल  
कुलसचिव

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम 1966(1966 के 53वें) की धारा 20 की उप-धारा(2) के अनुसार वांछित वर्ष 2003-2004 के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रकाशित किया जा रहा है ।

रेवती बेदी  
वित्त अधिकारी

**2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा**  
भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

प्राप्तियाँ	(आंकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
राजस्व खाता		
अथ शेष —		
अग्रदाय	89,175	1,00,800
हाथ रोकड़	11,076	0
बैंक शेष —		
i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान	10,37,57,336	14,86,27,580
ii) विश्वविद्यालय प्राप्तियाँ	98,37,665	2,63,25,130
	<u>11,36,95,252</u>	<u>17,50,53,510</u>
<b>I. अनुदान —</b>		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		
i) अनुरक्षण "एकमुश्त" अनुदान	57,77,67,000	52,70,08,000
ii) भवनों की विशेष मरम्मत	1,00,00,000	3,73,42,000
iii) ओवरहेड टैंक के लिए विशेष अनुदान	0	50,00,000
	<u>58,77,67,000</u>	<u>56,93,50,000</u>
<b>II. छात्रों की फीस —</b>		
i) शैक्षणिक	1,14,01,332	1,05,77,949
ii) परीक्षा	69,370	71,115
iii) अन्य	66,711	51,108
	<u>1,15,37,413</u>	<u>1,07,00,172</u>
<b>III. छात्रावास की फीस</b>	6,89,485	6,80,377
<b>IV. भूमि, भवन तथा अन्य सम्पत्ति से आय —</b>		
i) कर्मचारी आवास—गृह से किराया	24,30,956	23,24,998
ii) अतिथि—गृह से किराया	25,30,630	23,46,659
iii) दुकानों से किराया	32,25,900	34,70,584
iv) स्टेट बैंक, आई.सी.एच.आर. एवं पोस्ट ऑफिस आदि से किराया	6,63,497	6,94,021
v) गोमती अतिथि—गृह	13,60,973	12,27,762
	<u>1,02,11,956</u>	<u>1,00,64,024</u>

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूपयों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
1. प्रशासन —		
i) कुलपति का कार्यालय	20,69,221	20,25,120
ii) कुलदेशिक का कार्यालय	20,12,085	27,25,837
iii) कुलसचिव का कार्यालय	2,32,80,736	2,35,48,456
iv) वित्त एवं लेखा विभाग (जिसमें आंतरिक लेखा-परीक्षा भी शामिल है)	1,54,60,991	1,64,90,636
v) डीन — प्रशासन कार्यालय	32,17,390	96,72,442
	<u>4,60,40,423</u>	<u>5,44,62,491</u>
2. सामान्य सेवाएं तथा सामान्य प्रभार —		
1. यात्रा भत्ता —		
i) ई.सी./ए.सी./एफ.सी./कोर्ट के सदस्य	1,46,464	3,87,441
ii) चयन समिति और अध्ययन बोर्ड आदि के सदस्य	3,03,164	15,01,669
iii) विश्वविद्यालय के स्टाफ सदस्य	5,48,632	2,98,924
iv) प्रथम नियुक्ति पर तथा साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों को प्रदत्त यात्रा भत्ता	2,26,859	1,58,505
	<u>12,25,119</u>	<u>23,46,539</u>
2. डाक व तार	21,44,387	24,24,692
3. लेखन सामग्री की खरीद	14,27,055	14,43,831
4. टेलीफोन	43,26,945	44,99,899
अनावर्ती	0	5,900
5. (क) टंकण यंत्रों, डुप्लीकेटर्स, जीरोक्स मशीन आदि की मरम्मत, ऑयलिंग व सफाई	2,27,086	1,62,704
(ख) कमरे/वाटरकूलर/हीटर/पंखे/ए.सी. आदि की मरम्मत करना	3,36,414	1,01,430
6. फर्नीचर की मरम्मत/पालिश करना	5,55,210	3,26,884
7. विद्युत प्रभार	6,45,58,450	5,74,95,433
8. जल प्रभार	72,79,589	73,69,219
9. स्टाफ कार का अनुरक्षण	10,17,281	7,66,461
10. वर्दी	17,99,755	11,72,468
11. रजिस्ट्रों और फार्मों की छपाई	9,99,044	11,13,259
12. आतिथ्य सत्कार	2,09,386	2,27,221
13. विज्ञापन	368,182	12,35,461
14. एन.ए.ए. परिसर का किराया	11,00,664	25,020
15. विधि (कानून) संबंधी खर्च	3,91,156	2,22,175
16. दरें और कर	740	740
17. प्रशासन भवन के कंप्यूटरों का अनुरक्षण	81,919	62,477
18. सफाई खर्च	12,00,966	15,87,580

**2003—2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा**

भाग—1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रूपयों में हैं)  
पिछले वर्ष चालू वर्ष

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-1. अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूपयों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
2. सामान्य सेवाएं तथा सामान्य प्रभार — जारी ...		
19. अन्य आकस्मिकताएं	26,88,390	19,53,039
अनावर्ती	37,464	85,705
अनावर्ती (पुस्तकें)	0	2,495
20. सफाई सामग्री की खरीद	3,99,790	3,79,831
	<u>9,23,74,992</u>	<u>8,50,10,463</u>
3. शैक्षिक कार्यक्रम —		
क. संस्थान —		
I. सामाजिक विज्ञान संस्थान —		
i) वेतन	4,21,04,121	4,26,70,714
ii) अन्य प्रभार	11,58,728	11,52,700
iii) अनावर्ती	3,750	60,000
iv) अनावर्ती (पुस्तकें)	23,514	0
v) अनावर्ती (अग्रिम)	3,38,786	0
II. अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान —		
i) वेतन	2,62,82,355	2,70,92,454
ii) अन्य प्रभार	9,13,279	13,48,717
iii) अनावर्ती	1,23,906	0
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	1,74,000	0
III. भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान —		
i) वेतन	4,09,24,962	3,95,47,587
ii) अन्य प्रभार	5,33,919	4,69,511
iii) अनावर्ती	69,618	1,12,326
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	79,660	0
IV. जीवन विज्ञान संस्थान —		
i) वेतन	1,25,69,595	1,12,51,887
ii) अन्य प्रभार	27,64,739	25,00,819
iii) अनावर्ती	6,92,394	1,17,644
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	7,600	8,04,582
V. पर्यावरण विज्ञान संस्थान —		
i) वेतन	1,04,34,731	95,38,412
ii) अन्य प्रभार	7,20,151	13,92,659
iii) अनावर्ती	2,44,912	4,18,601
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	3,66,918	5,28,763
VI. कंप्यूटर और पद्धति विज्ञान संस्थान —		
i) वेतन	70,10,764	71,99,866
ii) अन्य प्रभार	2,25,086	2,87,001



**2003—2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा****भाग—1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता****प्राप्तियाँ****(आंकड़े रूप्यों में हैं)  
पिछले वर्ष चालू वर्ष**

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
<b>VI. कंप्यूटर और पद्धति विज्ञान संस्थान - जारी ...</b>		
iii) अनावर्ती	1,96,813	1,80,782
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	2,35,420	5,39,560
<b>VII. भौतिक विज्ञान संस्थान -</b>		
i) वेतन	60,79,456	57,57,942
ii) अन्य प्रभार	4,58,325	6,28,021
iii) अनावर्ती	1,93,810	1,58,193
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	41,844	0
<b>VIII. कला और सौन्दर्य-शास्त्र संस्थान -</b>		
i) वेतन	15,85,559	18,11,624
ii) अन्य प्रभार	1,04,239	2,63,230
iv) अनावर्ती	1,94,250	27,898
<b>IX. कंप्यूटर केन्द्र -</b>		
अन्य प्रभार	3,450	0
<b>X. विधि और अभिशासन अध्ययन केन्द्र -</b>		
i) वेतन	10,63,695	23,94,600
ii) अन्य प्रभार	38,946	81,411
iii) अनावर्ती	5,44,156	1,83,925
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	1,74,000	0
<b>XI. आणविक चिकित्साशास्त्र विशेष केन्द्र -</b>		
i) वेतन	10,71,629	9,96,953
ii) अन्य प्रभार	11,96,179	8,42,630
iii) अनावर्ती	14,198	6,400
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	1,74,000	2,14,232
<b>XII. सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान -</b>		
i) वेतन	1,15,017	1,90,958
ii) अन्य प्रभार	6,55,011	3,20,309
iii) अनावर्ती	3,19,070	0
<b>XIII. संस्कृत अध्ययन केन्द्र -</b>		
i) वेतन	10,36,920	15,56,822
ii) अन्य प्रभार	81,887	1,80,540
iii) अनावर्ती	1,71,171	20,300
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	2,35,769	0
	<b>16,37,52,302</b>	<b>16,28,50,573</b>

**2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा****भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता**

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रुपयों में हैं)  
पिछले वर्ष चालू वर्ष

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
<b>ख. केन्द्रीकृत सुविधाएं —</b>		
<b>I. विश्वविद्यालय सेवाएं और यंत्रीकरण केन्द्र की स्थापना (यूसिक) —</b>		
i) वेतन	23,13,384	25,27,076
ii) अन्य प्रभार	51,863	83,470
iii) अनावर्ती (अग्रिम)	10,000	0
iv) अनावर्ती (पुस्तकें)	0	1,000
<b>II. प्राणी-गृह —</b>		
i) वेतन	10,44,542	11,12,409
ii) अन्य प्रभार	3,96,036	7,02,791
<b>III. वानस्पतिक उद्यान —</b>		
i) वेतन	4,57,494	4,82,551
ii) अन्य प्रभार	36,580	52,880
<b>IV. संचार और सूचना सेवाएं केन्द्र —</b>		
i) वेतन	16,32,747	14,20,247
ii) अन्य प्रभार	25,579	1,57,267
iii) अनावर्ती	0	6,40,514
<b>V. उच्च अध्ययन संस्थान —</b>		
अन्य प्रभार	0	4,44,656
	<b>59,68,225</b>	<b>76,24,861</b>
<b>ग. अन्य एकल योजनाएं —</b>		
<b>I. जैव प्रौद्योगिकी में बहुविषयक शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम —</b>		
i) वेतन	39,13,565	43,69,902
ii) अन्य प्रभार	3,37,049	3,53,793
iii) अनावर्ती	1,33,683	15,844
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	92,232	0
<b>II. जैव-सूचना विज्ञान केन्द्र</b>		
i) वेतन	10,13,547	11,02,858
<b>III. प्रौढ़, अनुवर्ती शिक्षा व विस्तार यूनिट —</b>		
i) वेतन	15,86,305	12,20,567

**2003—2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा**  
**भाग—1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता**

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रूप्यों में हैं)  
पिछले वर्ष चालू वर्ष

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
ग. अन्य एकल योजनाएं — जारी ...		
IV. विशेष सहायता कार्यक्रम —		
(क) सामाजिक विज्ञान संस्थान —		
i) सामाजिक पद्धति अध्ययन केन्द्र		
वेतन	7,27,879	7,89,342
ii) क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र		
वेतन	11,43,478	12,31,923
iii) जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केन्द्र		
वेतन	3,43,177	2,72,288
iv) ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र		
वेतन	2,32,396	2,41,976
(ख) जीवन विज्ञान संस्थान —		
वेतन	2,35,205	6,03,066
	<u>97,58,516</u>	<u>1,02,01,559</u>
घ. अन्य विविध शैक्षिक गतिविधियाँ		
आवर्ती	88,99,604	1,00,21,597
अनावर्ती	24,700	0
योग-3. शैक्षिक कार्यक्रम	<u>18,84,03,347</u>	<u>19,06,98,590</u>
4. परीक्षाएँ —	14,66,064	18,75,422
5. पुस्तकालय —		
i) वेतन	2,04,93,188	2,01,77,602
ii) पुस्तकें और पत्रिकाएं	1,44,22,360	1,43,62,513
iii) पत्रिकाएं और समाचार-पत्र	1,48,135	88,270
iv) अन्य प्रभार	3,28,630	4,04,292
v) अनावर्ती	3,62,680	2,48,361
	<u>3,57,54,993</u>	<u>3,52,81,038</u>
6. छात्र सुविधाएं —		
i) डीन (छात्र)		
(क) वेतन	17,81,947	20,84,558
(ख) अन्य प्रभार	46,569	30,298
ii) शारीरिक शिक्षण और खेलकूद		
गतिविधियां व खेल —		
(क) वेतन	11,59,932	12,41,934
(ख) अन्य प्रभार	4,85,770	5,66,692

**2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा**

भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रूप्यों में हैं)

पिछले वर्ष	चालू वर्ष
------------	-----------

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रुपये में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
6. छात्र सुविधाएं -		
ii) शारीरिक शिक्षण और खेलकूद गतिविधियां व खेल - जारी ...		
(ग) अनावर्ती (अग्रिम)	47,810	0
(घ) अनावर्ती	0	8944
iii) छात्र स्वास्थ्य केन्द्र -		
(क) वेतन	34,50,195	38,34,718
(ख) अन्य प्रभार	18,38,209	26,12,194
iv) अन्य सुविधाएं - विश्वविद्यालय बसें		
(क) वेतन	95,753	58,563
(ख) अन्य प्रभार	1,48,599	4,81,408
(ग) अनावर्ती	25,840	0
	<u>90,80,624</u>	<u>1,09,19,309</u>
7. छात्रवृत्तियां	30,31,830	29,93,176
8. छात्रावास -		
(क) वेतन	2,13,28,110	2,30,40,962
(ख) अन्य प्रभार	14,42,404	21,66,137
(ग) अनावर्ती	69,664	0
(घ) अनावर्ती (अग्रिम)	2,80,896	0
	<u>2,31,21,074</u>	<u>2,52,07,099</u>
9. प्रकाशन -		
(क) वेतन	5,71,008	6,05,940
(ख) अन्य प्रभार	8,19,633	3,85,388
	<u>13,90,641</u>	<u>9,91,328</u>
10. अन्य विभाग -		
क. इंजीनियरी विभाग -		
i) वेतन	2,33,39,813	2,18,40,560
ii) संपत्ति का रखरखाव	1,12,78,974	1,05,85,272
अनावर्ती (अग्रिम)	11,62,288	0
अनावर्ती	0	29,220
iii) छोटे-मोटे कार्य	1,92,788	2,55,065
iv) अनुरक्षण और जल पम्प का प्रचालन	12,500	0
v) गाड़ियों का रख-रखाव	1,12,857	1,31,657
vi) अन्य प्रभार	1,36,178	41,693
vii) भवनों आदि की विशेष मरम्मत	0	49,32,451
	<u>3,52,35,398</u>	<u>3,78,15,918</u>



2003—2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा  
भाग—1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रूप्यों में हैं)  
पिछले वर्ष चालू वर्ष

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

## भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
10. अन्य विभाग — जारी ...		
ख. सफाई अमला (वेतन)	1,70,82,416	1,72,40,588
ग. सुरक्षा अमला (वेतन)	1,09,06,716	1,05,96,703
घ. संपदा कार्यालय (वेतन)	55,34,396	55,57,436
च. गोमती अतिथि-गृह —		
i) वेतन	3,94,710	4,17,259
ii) अन्य प्रभार	1,82,638	54,986
iii) अनावर्ती	27,150	0
च. अरावली/अन्तर्राष्ट्रीय अतिथि-गृह और संकाय क्लब		
क) आवर्ती	8,22,009	7,13,433
ख) अनावर्ती	2,99,816	0
	<u>7,04,85,249</u>	<u>7,23,96,323</u>
11. विविध —		
क. विभिन्न शैक्षिक निकायों/संस्थाओं को प्रदत्त सदस्यता और अंशदान	1,60,696	1,78,668
ख. प्रयोगशाला बीमा—किस्त	758	1,080
ग. प्रशासन कार्यालयों तथा संकायों के लिए फर्नीचर	37,90,977	46,98,942
अग्रिम	5,84,100	0
घ. प्रयोगशालाओं के लिए फर्नीचर	0	0
ङ. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक तथा संकाय कार्यालयों के लिए अन्य उपस्कर तथा सुविधाएं —	15,74,520	16,38,948
अग्रिम	1,74,000	0
च. डेजर्ट/वाटर कूलरों और एयर कंडीशन	2,08,364	12,01,537
अग्रिम	9,16,072	0
छ. अन्य मदें —		
i) छुट्टी पर यात्रा में रियायतें	1,72,559	54,50,175
ii) कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा (सी.जी.एच.एस. का अंशदान)	87,39,319	95,91,121
iii) समयोपरि भत्ता	19,99,536	17,61,176
iv) शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति/बाल-शिक्षा भत्ते हेतु अंशदान	63,955	55,980
v) दीक्षांत समारोह पर व्यय और शैक्षिक रोब्स	0	0
vi) कुलपति की स्वनिर्णयगत निधि	1,00,000	1,00,000
vii) त्योहार अग्रिम	6,79,500	7,00,650

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

### भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

प्राप्तियाँ	(आंकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
V. प्रकाशन — (रॉयलटीज)	1,68,231	1,56,599
VI. विविध		
i) निविदा पत्रों तथा समाचार पत्रों की बिक्री आदि	1,06,288	1,40,429
ii) सी.जी.एच.एस. की वसूलियाँ	12,37,515	12,31,546
iii) अन्य प्राप्तियाँ	1,94,65,387	36,61,835
	<u>2,08,190</u>	<u>50,33,810</u>
VII. प्रवेश-पत्रों की बिक्री और प्रवेश परीक्षा शुल्क	1,98,63,341	1,91,54,934
VIII. अर्जित ब्याज —		
i) निवेश पर	8,16,806	10,72,260
ii) बचत बैंक खाता पर	17,05,762	18,03,934
	<u>25,22,568</u>	<u>28,76,194</u>
IX. वसूलियाँ/प्राप्तियाँ/वापसियाँ —		
त्योहारों पर अग्रिम	7,05,850	7,30,500
कार्पस निधि खाता	58,81,000	0

कुल योग

77,38,51,286

79,38,00,120

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

## भाग-1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
11. विविध —		
छ. अन्य मदें —जारी ...		
viii) दैनिक वेतन कर्मचारी	41,40,419	27,25,266
ix) कर्मचारियों को प्रदत्त मानदेय	3,83,689	3,22,831
x) स्टाफ के लिए विशेष व्याख्यान और प्रशिक्षण	13,981	85,227
xi) बोनस	28,42,358	29,59,270
xii) संकाय क्लब को अनुदान	10,000	10,000
xiii) उद्यान का अनुरक्षण	5,27,143	8,24,332
xiv) यौन उत्पीड़न के विरुद्ध जेंडर संवेदनशील समिति	21,374	41,095
अनावर्ती	0	10,000
xv) निजी सुरक्षा	88,50,534	98,16,218
	<u>3,59,53,854</u>	<u>4,21,72,516</u>
12. भविष्य निधि खाता और पेंशन —		
i) भविष्य-निधि अंशदान	26,93,547	28,41,630
ii) सामूहिक बीमा जमा	0	5,09,871
iii) पेंशन	3,19,63,249	3,64,10,715
iv) उपदान	1,50,67,083	1,32,50,102
v) पेंशन का कम्यूटिड मूल्य	1,39,78,329	1,03,65,911
vi) छुट्टियों का नकदीकरण	91,20,356	61,61,873
	<u>7,28,22,564</u>	<u>6,95,40,102</u>
13. ऐरियर का भुगतान (पांचवें वेतन आयोग के कारण वेतनमानों में संशोधन) योग	1,88,61,045 59,87,86,700	1,41,07,198 60,56,55,055
14. प्रेषणाएं —		
पिछले वर्ष की प्राप्तियों/वसूलियों की प्रेषणाएं अदायगी की अवितरित राशि	11,076	0
अंत शेष —		
i) अग्रदाय	1,00,800	1,05,775
ii) हाथ रोकड़	0	0
iii) बैंक शेष —		
क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान	14,86,27,580	13,75,17,642
ख) विश्वविद्यालय प्राप्तियाँ	2,63,25,130	5,05,21,648
	<u>17,50,53,510</u>	<u>18,81,45,065</u>
कुल योग	77,38,51,286	79,38,00,120

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

### भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

प्राप्तियाँ	(आंकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
अथ शेष —		
अग्रदाय	9,000	5,000
हाथ रोकड़	0	1
बैंक रोकड़	2,73,13,129	6,82,48,739
<b>I. अनुदान —</b>		
क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग —		
(1) आवर्ती अनुदान	38,50,807	2,28,63,155
(2) निम्नलिखित के लिए अनावर्ती अनुदान —		
क. विश्वविद्यालय परिसर का विकास	6,93,00,000	6,70,00,000
ख. अन्य पूँजीगत अनुदान	14,37,521	75,83,000
ख. अनुदान निवेश पर अर्जित ब्याज	78,28,382	57,69,440
ग. अन्य संस्थाएँ —		
1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (जैव प्रौद्योगिकी विभाग)		
क. आवर्ती	41,32,000	36,29,000
ख. अनावर्ती	7,46,000	14,32,000
2) दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)	1,36,111	0
जनजातीय मामलों का मंत्रालय (अ.ज.जा. के छात्रों और छात्राओं के छात्रावास के लिए केन्द्रीय सहायता)	0	1,50,00,000
<b>II. निम्नलिखित से संबंधित विविध प्राप्तियाँ/वसूलियाँ/वापसी/समायोजन —</b>		
i) आवर्ती —		
(1) डी.एस.ए./जेड.एच.सी.ई.एस	0	70,750
(2) वेतन की प्रतिपूर्ति (संकाय सदस्य)	0	12,21,729
ii) अनावर्ती		
उपकरण	2,42,585	0
जैव कंटेन्टमेंट सुविधाओं का निर्माण	31,657	0
<b>III. अर्जित ब्याज —</b>		
(बचत बैंक खाता)	10,04,847	14,52,826

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
आवर्ती -		
1. शैक्षणिक कार्यक्रम -		
क. संस्थान		
I. अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान -		
क. वेतन (शिक्षण स्टाफ)	0	40,597
ख. खाड़ी अध्ययन -		
i) अन्य प्रभार	60,822	5,91,669
ii) छात्रवृत्तियाँ/अध्येतावृत्तियाँ	1,10,335	3,16,806
ग. सोवियत अध्ययन		
i) वेतन (रिसर्च एसोसिएट)	3,59,041	4,77,978
ii) अन्य प्रभार -		
आवर्ती	87,252	1,60,430
अनावर्ती	34,575	0
iii) छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति	1,39,395	2,24,500
घ. केन्द्रीय एशियाई प्रभाग (अन्य प्रभार)	0	1,82,686
II. विधि और अभिशासन अध्ययन केंद्र -		
i) वेतन (शिक्षण स्टाफ)	3,14,482	0
III. महिला अध्ययन केन्द्र -		
अन्य प्रभार	2,60,728	4,04,896
IV. संस्कृत अध्ययन केन्द्र -		
वेतन	5,09,066	1,86,494
V. सामाजिक विज्ञान संस्थान -		
वेतन (शिक्षण स्टाफ)	3,18,839	0
VI. सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान -		
वेतन	0	1,24,192
	<u>21,95,135</u>	<u>27,10,248</u>
ख. विविध अन्य शैक्षिक गतिविधियाँ -		
I. एकेडमिक स्टाफ कालेज -		
i) वेतन	18,19,269	18,33,082
ii) अन्य प्रभार	59,00,342	42,62,095
iii) अनावर्ती	29,490	54,357
iv) अनावर्ती (फर्नीचर)	1,76,941	0

**2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा**  
**भाग-2, विकास (योजनागत) खाता**

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रूपयों में हैं)  
पिछले वर्ष      चालू वर्ष

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूपों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
ख. विविध अन्य शैक्षिक गतिविधियाँ — जारी ...		
आवर्ती —		
II. विशेष सहायता विभाग कार्यक्रम —		
(डी.एस.ए.) सा.वि.सं.		
क. सामाजिक पद्धति अध्ययन केन्द्र		
अन्य प्रभार	2,48,835	2,94,902
ख. ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र		
अन्य प्रभार	2,49,232	2,61,671
ग. जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केन्द्र		
i) वेतन	1,73,729	52,894
ii) अन्य प्रभार	3,69,320	2,93,543
घ. आर्थिक अध्ययन और नियोजन केन्द्र		
i) अन्य प्रभार	2,100	0
च. क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र		
i) अन्य प्रभार	1,99,691	28,032
छ. जीवन विज्ञान संस्थान		
i) अन्य प्रभार	3,00,245	3,00,593
III. डी.आर.एस. स्तर की वि.वि.अ.आ. की सहायता		
(विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत) —		
क. भौतिक विज्ञान संस्थान —		
i) अन्य प्रभार	1,66,656	2,01,993
अनावर्ती (फर्नीचर)	0	49,840
ii) लेजर लैब का अद्यतन/संवर्धन और		
नवीकरण —		
आवर्ती	48,056	33,054
अनावर्ती	2,36,034	4,20,367
अनावर्ती (अग्रिम)	31,845	0
ख. पर्यावरण विज्ञान संस्थान —		
i) वेतन	1,01,685	78,716
ii) अन्य प्रभार	1,49,532	1,59,922
अनावर्ती	0	2,24,638
ग. क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र	0	2,78,433
घ. भाषा विज्ञान और अंग्रेजी केन्द्र	0	1,50,000
	1,02,03,002	89,78,132



2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा  
भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रुपयों में हैं)  
पिछले वर्ष चालू वर्ष

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
ग. अन्य एकल योजनाएं -		
I. जैव प्रौद्योगिकी में बहुआयामी शिक्षण और प्रशिक्षण का विकास -		
i) वेतन	2,21,040	0
ii) अन्य प्रभार	4,52,071	6,58,729
iii) अनावर्ती	2,83,474	1,24,448
iv) अनावर्ती (अग्रिम)	1,43,500	65,250
v) छात्रवृत्ति/रिसर्च एसोसिएटशिप	2,31,490	2,51,028
II. बी.आई.सी. - बायोइनफार्मेटिक्स -		
i) अन्य प्रभार	7,08,933	8,16,653
ii) अनावृत्ति	4,55,516	35,491
मोलिक्युलर माडलिंग के लिए इंटरएक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स सिस्टम पर राष्ट्रीय सुविधा		
i) वेतन	1,18,486	1,82,000
ii) अन्य प्रभार	0	6,160
iii) अनावर्ती	6,81,946	1,41,829
गिरर साइट - जै.सू.वि.-IV		
i) अन्य प्रभार	54,992	4,000
ii) अनावर्ती	0	5,05,600
जैव सूचना विज्ञान में एक वर्षीय उच्च डिप्लोमा कार्यक्रम		
i) अन्य प्रभार	3,23,829	2,23,781
ii) अनावर्ती -	2,71,122	1,16,190
iii) अनावर्ती (फर्निचर)	0	1,54,079
III. अपसिस्ट कार्यक्रम -		
क. भौतिक विज्ञान संस्थान		
i) अन्य प्रभार	9,670	9,124
ii) अनावर्ती	8,10,917	2,81,126
ख. पर्यावरण विज्ञान संस्थान		
i) अन्य प्रभार	1,68,910	1,37,752
ii) अनावर्ती	22,27,055	0
IV. इन्फोबलनेट प्रोग्राम (पुस्तकालय)		
i) वेतन	4,000	0
ii) अन्य प्रभार	3,983	0
V. एचआईवी/एड्स के लिए परामर्श केन्द्र (स्वास्थ्य केंद्र)		
i) अन्य प्रभार	1,32,174	75,442

2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा  
भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रूप्यों में हैं)  
पिछले वर्ष चालू वर्ष

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूपयों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
ग. अन्य एकल योजनाएं - जारी ...		
VI. योगा केन्द्र की स्थापना -		
i) वेतन	1,80,000	1,65,000
ii) अन्य प्रभार	3,967	0
VII. जे.एन.यू. को टी.ई.पी.एस.ई./एच.ई.पी.एस.एन. योजना के तहत वि.अ.आ. की सहायता		
i) अन्य प्रभार	26,631	14,035
ii) अनावर्ती	26,000	0
VIII. अ.जा./अ.ज.जा. के लिए सपचारात्मक प्रशिक्षण कोर्स		
i) अन्य प्रभार	12,762	6,248
ii) अनावर्ती	2,52,010	0
IX. अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ का विस्तार	54,670	0
X. पोटेंशल फार एक्सिलेन्स (वि.अ.आ.)	38,96,953	98,60,373
XI. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	0	4,545
	1,17,56,101	1,38,38,883
3. जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा		
i) अन्य प्रभार	19,18,581	14,10,595
योग - क. राजस्व खाता	2,60,72,819	2,69,37,858
ख. पूंजीगत खाता -		
क. विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण -		
I. संस्थान भवन -		
i) ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र (वि.स.वि. कार्यक्रम)	32,475	0
ii) भौतिक विज्ञान संस्थान भवन (डी.आर.एस./एस.ए.पी.)	2,377	0
iii) कॉसिस्ट - भौतिक विज्ञान संस्थान	29,665	0
iv) विज्ञान केन्द्र का निर्माण	5,00,000	0
v) विधि और अभिशासन अध्ययन केन्द्र	31,00,000	0
vi) अकादमिक स्टाफ कालेज	35,00,000	1,00,22,252
अग्रिम	0	30,77,748
II. आवासीय भवन -		
i) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण	30,00,000	1,77,31,464
अग्रिम	0	53,06,536

2003—2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा  
भाग—2, विकास (योजनागत) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े, रूपयों में हैं)  
पिछले वर्ष      चालू वर्ष

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

अदायगियाँ		(आंकड़े रुपये में हैं)	
		पिछले वर्ष	चालू वर्ष
ख.	पूँजीगत खाता —		
	II. आवासीय भवन — जारी ...		
	ii) अ.ज.जा. के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण अग्रिम	70,00,000 0	33,75,082 27,29,768
	iii) अ.ज.जा. की छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण अग्रिम	4,97,170 0	90,73,471 15,26,529
	iv) पोस्ट डाक्टरल शोध छात्रों के लिए छात्रावास (फेज-2) का निर्माण	15,21,632	6,24,377
	v) ट्रांजिट हाउस का निर्माण	0	17,27,142
	III. विविध भवन —		
	i) खेल-कूद परिसर	21,680	0
	ii) स्वास्थ्य केन्द्र भवन का विस्तार	2,49,694	0
	iii) बायो-कनटेनमेंट सुविधा का निर्माण (प्रायोगिक संक्रमिक प्राणियों को रखने हेतु)	13,483	0
	IV. बाह्य सेवाएं —		
	i) वि.अ.आ. की एचईपीएसएन योजना के तहत विकलांग छात्रों के लिए ढलानदार रास्तों का निर्माण —	88,757	0
	ii) केन्द्रीय यन्त्रीकरण सुविधा कक्षों में एल्युमिनियम पार्टिशन और टाइल सहित आर.सी.सी. प्लेटफार्म (पर्यावरण विज्ञान संस्थान कॉसिस्ट)	84,920	0
	iii) वानस्पतिक उद्यान का संरक्षण	0	1,45,852
	योग-क-विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण	1,96,41,858	5,53,40,521
ख.	अन्य पूँजीगत व्यय —		
	I. उपस्कर —		
	क. संस्थान —		
	i) संस्कृत अध्ययन केन्द्र	29,675	99,500
	ii) भाषा, साहित्य और संस्कृति अध्ययन संस्थान (भाषा प्रयोगशाला)	5,66,191	0
	iii) जीवन विज्ञान संस्थान अग्रिम	2,676 0	94,479 1,26,100
	iv) आणविक चिकित्सा-शास्त्र विशेष केन्द्र	1,596	1,23,712

2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा  
भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

प्राप्तियाँ

(आंकड़े रूप्यों में हैं)  
पिछले वर्ष चालू वर्ष

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
ख. अन्य पूँजीगत व्यय — जारी		
v) सोवियत अध्ययन	32,230	21,280
vi) महिला अध्ययन योजना	9,348	1,95,770
vii) अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान	0	46,900
viii) जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (अग्रिम)	0	4,52,521
ix) भौतिक विज्ञान संस्थान	0	5,62,802
x) पर्यावरण विज्ञान संस्थान	0	1,39,988
अग्रिम	0	41,184
ख. प्रशासन	49,807	0
पुस्तकालय पठन कक्ष का वातानुकूलन	0	5,621
ग. स्वास्थ्य केन्द्र	4,533	0
घ. विशिष्टता के लिए योग्य	2,22,06,379	96,59,335
घ. कोसिस्ट कार्यक्रम —		
पर्यावरण विज्ञान संस्थान	29,99,169	3,85,000
छ. विशेष सहायता कार्यक्रम विभाग (डी.एस.ए.) —		
i) जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केन्द्र	32,870	56,730
ii) सामाजिक पद्धति अध्ययन केन्द्र	3,350	62,410
iii) क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र	31,100	0
iv) जीवन विज्ञान संस्थान	11,07,080	1,80,124
ज. डी.आर.एस./एस.ए.पी. स्तर की विश्वद्यालय		
अनुदान आयोग की सहायता —		
i) पर्यावरण विज्ञान संस्थान	5,71,308	1,72,587
अग्रिम	1,12,896	0
झ. कंप्यूटर केन्द्र का अद्यतन/संवर्धन	9,67,703	0
ञ. जैव सूचना विज्ञान केन्द्र (बी.आई.सी.) —	90,977	1,39,700
ट. वि.वि.अ.आ. की इन्फोनेट योजना	0	4,83,300
योग — 1 — उपस्कर	2,88,18,888	1,30,49,043
2. पुस्तकें और पत्रिकाएं —		
i) केन्द्रीय पुस्तकालय	18,91,734	27,08,081
ii) विशिष्टता के लिए योग्य (वि.अ.आ.)	75,61,215	64,61,172
iii) जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	1,34,102	1,49,443
iv) खाड़ी अध्ययन	97,737	28,593



## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

प्राप्तियाँ	(आंकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
IV. जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा — (प्रवेश फार्मों की बिक्री/परीक्षा शुल्क आदि)	84,69,555	80,53,606
V. विविध प्राप्तियाँ		
i) जैव सूचना विज्ञान केन्द्र — (जैव-सूचना विज्ञान में अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम)	5,000	41,000
ii) अकादमिक स्टाफ कालेज (प्रतिभागी पंजीकरण शुल्क)	3,15,500	2,88,500
VI. निवेश भुनाए	7,13,96,100	1,20,00,000

कुल योग

19,62,18,194

21,46,58,746

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

## भाग-2, विकास (योजनागत) खाता

अदायगियाँ	(आंकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
2. पुस्तकें और पत्रिकाएं — जारी ...		
v) सोवियत अध्ययन	1,25,234	841
vi) महिला अध्ययन योजना	49,093	50,000
vii) डी.एस.ए./डी.आर.एस./एस.ए.पी. कार्यक्रम —		
क. सामाजिक पद्धति अध्ययन केन्द्र	2,56,466	1,95,644
ख. ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र	2,00,774	1,80,584
ग. जाकिर हुसैन शैक्षणिक अध्ययन केन्द्र	99,141	1,09,806
घ. जीवन विज्ञान संस्थान	1,02,593	77,869
च. भौतिक विज्ञान संस्थान	31,949	26,994
छ. भाषा विज्ञान और अंग्रेजी केन्द्र	0	1,00,000
viii) कोसिस्ट —		
भौतिक विज्ञान संस्थान	2,04,445	83,654
ix) जैव-सूचना विज्ञान केन्द्र (बी.आई.सी.)	20,776	83,211
x) जै.सू.वि. केन्द्र — एक-वर्षीय डिप्लोमा कोर्स	65,364	1,07,003
xi) अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोर्स	70,681	15,524
	1,09,11,304	1,03,78,419
3. फर्नीचर —		
i) सामाजिक पद्धति अध्ययन केन्द्र	19,585	0
योग—ख— अन्य पूंजीगत व्यय	3,97,49,777	2,34,27,462
योग— खंड (क+ख)	8,54,64,454	10,57,05,841
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वापसी (अव्ययित शेष के कारण)	0	1,00,000
निधियों का निवेश	4,25,00,000	4,45,00,000
अंत शेष —		
i) अग्रदाय	5,000	5,000
ii) बैंक रोकड़	6,82,48,739	6,43,47,905
iii) हाथ रोकड़	1	0
कुल योग	19,62,18,194	21,46,58,746

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

## भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता

प्राप्तियाँ	(आँकड़े रूप्यों में हैं)	
अथ शेष —		
उद्दिष्ट निधि खाता —	11,24,78,278	
जैनेटिक इंजीनियरी यूनिट खाता	1,43,074	
एक्जिम बैंक लाइब्रेरी खाता	75,094	
कल्याणकारी राज्य पद्धति	1,98,372	
एस.बी.आई. शोध एवं विकास निधि खाता	31,436	
एप्लाइड ह्युमन जिनेटिक्स केन्द्र का खाता	21,01,826	11,50,28,080
I. विशिष्ट प्रयोजन —		
क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		71,37,689
ख. भारत सरकार —		
i) जैनेटिक इंजीनियरी यूनिट		4,687
ii) अन्य परियोजनाएं		3,47,51,318
ग. विदेशी संस्थाएं/सरकारें —		
i) स्विस् विकास और निगम एजेन्सी		3,56,864
ii) रोग नियंत्रण केंद्र		12,08,543
iii) विज्ञान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फाउंडेशन		4,83,243
iv) फोर्ड फाउंडेशन		54,05,348
v) यू.एन.डी.पी.—टी.आई.एफ.ए.सी.		7,800
vi) यूरोपीय आर्थिक आयोग		15,54,511
vii) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर गठित भारतीय अनुसंधान परिषद्		8,48,712
viii) वेल्कम ट्रस्ट		17,22,390
ix) यूनेस्को		6,44,334
x) इण्डो-फ्रेंच (आई.एफ.सी.पी.ए.आर.)		75,000
xi) पारिस्थितिकी और जल विज्ञान केन्द्र		3,57,182
xii) सी.आई.ए.टी./टी.बी.एस.ई.		29,42,845
xiii) कोरियाई फाउंडेशन		95,890
xiv) शास्त्री इण्डो-कनेडियन संस्थान		5,93,000
xv) अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान		4,60,000
xvi) इटली दूतावास		1,78,836
घ. अन्य निकाय —		
i) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्		72,08,553
ii) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्		21,52,712
iii) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्		50,63,978
iv) अन्तर विश्वविद्यालय संघ		1,24,000
v) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला		1,00,000

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता

अदायगियाँ	(आँकड़े रूप्यों में हैं)
1. विशिष्ट प्रयोजन -	
क. विश्वविद्याय अनुदान आयोग	57,81,596
ख. भारत सरकार -	
अन्य परियोजनाएं	3,72,77,374
अग्रिम	11,13,939
ग. विदेशी निकाय/सरकारें -	
फोर्ड फाउंडेशन	30,79,918
यूनेस्को	6,04,104
यूरोपीय आर्थिक आयोग	6,37,647
अग्रिम	8,900
शास्त्री-इण्डो कनाडियन संस्थान	1,17,711
ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग	4,500
इटली दूतावास	1,94,760
वेल्कम ट्रस्ट	15,78,842
फ्रांस दूतावास	3,94,608
वोक्स वेगन	2,59,772
रोग नियन्त्रण केन्द्र	1,84,271
बालश्रम सामाजिक समावेश	33,340
अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान	45,878
जापान फाउन्डेशन	1,25,318
विज्ञान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फाउन्डेशन	1,96,578
थाईलैण्ड दूतावास	1,14,970
इण्डो-श्रीलंका ट्रेड एग्रीमेंट	1,03,051
यूएसडीए	81,996
सीआईएटी/टीबीएसई	26,60,399
कोरियाई फाउन्डेशन	5,40,895
आर्थिक सम्बन्धों पर भारतीय अनुसंधान परिषद्	4,05,551
स्विस एजेन्सी फार डिवलपमेंट ऐंड कारपोरेशन	4,70,297
पारिस्थितिकी और जल विज्ञान केन्द्र	2,67,181
यू.एन.डी.पी.	13,416
कनाडा उच्चायोग	1,44,339
इन्सटीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स	6,000
घ. अन्य निकाय -	
i) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	49,62,926
अग्रिम	2,26,163
ii) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्	14,28,968
iii) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्	1,16,719

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

## भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता

## प्राप्तियाँ

(आँकड़े रूपयों में हैं)

## I. विशिष्ट प्रयोजन —

## घ. अन्य निकाय —जारी ...

vi)	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	1,48,250
vii)	केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	12,519
viii)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	8,78,465
ix)	प्रशासनिक अतिरिक्त शीर्ष प्रभार	27,85,064
x)	भारतीय पुनर्वास परिषद	90,000
xi)	डाबर रिसर्च फाउन्डेशन	10,64,880
xii)	बायोइंटरनेशनल लिमिटेड	1,84,000
xiii)	एच.पी. (प्रा.) लिमिटेड	5,66,000
xiv)	इण्डो बायो-एक्टिव प्राईवेट लिमिटेड	1,00,000
xv)	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद	2,99,551
xvi)	एनएएसी	2,70,000
xvii)	दिल्ली सरकार	1,35,720
xviii)	संगोष्ठी/कार्यशाला	3,87,720
xix)	विनरॉक नेटवर्क	3,78,626
xx)	टी.ए.आर.आई. (पन्द्रहवीं जैनेटिक कांग्रेस)	59,254
xxi)	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	9,23,120
xxii)	पावर वित्त निगम	1,17,150

## II. अध्येतावृत्तियाँ और छात्रवृत्तियाँ —

क.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	17,66,844
ख.	भारत सरकार	83,68,277
ग.	राज्य सरकार	8,54,142
घ.	अन्य निकाय —	

i)	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद	2,22,73,249
ii)	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	34,04,275
iii)	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	20,12,900
iv)	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद	17,26,196
v)	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद	1,91,700
vi)	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	7,750
vii)	ग्लोबल अध्ययन कार्यक्रम	10,50,132
viii)	के. महिन्दर सिंह ट्रस्ट	12,000
ix)	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	5,300
x)	विश्व स्वास्थ्य संगठन	58,008

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता

## अदायगियाँ

(आँकड़े रूप्यों में हैं)

## ग. विदेशी निकाय/सरकारें - जारी ...

iv)	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अग्रिम	51,61,276 3,68,535
v)	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	1,13,477
vi)	भारतीय पुनर्वास परिषद	82,160
vii)	ऊपरी शीर्ष प्रभार से भुगतान अग्रिम	24,15,571 14,950
viii)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	9,500
ix)	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	15,15,111
ix)	एन.ए.ए.सी.	2,00,000
x)	पैनासिया बायोटेक परामर्शी परियोजना	80,927
xi)	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	85,579
xii)	पॉवर वित्त निगम	1,00,000
xiii)	टाटा एज्युकेशनल ट्रस्ट	5,41,689
xiv)	एच.पी. (प्रा.) लिमिटेड अग्रिम	2,36,416 82,580
xv)	इण्डो बायो-टेक लिमिटेड	77,132
xvi)	अन्तर विश्वविद्यालय कंसोर्टियम	1,20,785
xvii)	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	11,07,399
xviii)	टी.ए.आर.आई. (पन्द्रहवीं जैनेटिक कांग्रेस)	30,000
xix)	दिल्ली सरकार	62,286
xx)	पाण्डिचेरी सरकार	1,02,791
xxi)	श्री वेंकटेश्वर कालेज	35,000
xxii)	सोसायटी फार इम्मवेशन ऐंड डिवलपमेंट सेंटर	63,514
xxiii)	विनरॉक नेटकॉम	3,51,477
xxiv)	कार्यशाला/संगोष्ठी	6,32,755
xxv)	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	25,681
xxvi)	डाबर रिसर्च फाउन्डेशन	4,46,076
xxvii)	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला अग्रिम	4,000 68,935

## II. अध्येतावृत्तियाँ और छात्रवृत्तियाँ -

क.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	22,17,575
ख.	भारत सरकार	83,83,824
ग.	राज्य सरकार	9,33,659
घ.	अन्य निकाय -	
i)	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	28,74,245
ii)	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद	1,85,49,863
iii)	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	17,45,508

**2003—2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा**  
**भाग—3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता**

प्राप्तियाँ

(आँकड़े रूपों में हैं)

**2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा**  
भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता

अदायगियाँ		(ऑकड़ें रुपये में हैं)
घ. अन्य निकाय — जारी ...		
II. अध्येतावृत्तियाँ और छात्रवृत्तियाँ —		
iv) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद		16,09,682
v) जवाहर भवन न्यास		43,771
vi) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद		1,86,000
vii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद		2,640
viii) ग्लोबल अध्ययन कार्यक्रम		2,39,794
ix) के. महिन्दर सिंह ट्रस्ट		12,000
x) राष्ट्रीय संस्कृत संगठन		5,300
xi) जी. पार्थासारथी (अ.जा./अ.ज.जा.)		87,500
xii) विश्व स्वास्थ्य संगठन		58,008
xiii) सुंचान नेशनल यूनिवर्सिटी कोरिया		5,94,924
xiv) बायो. पार्क कार्यक्रम		26,900
III. पुरस्कार और वृत्तिदान —		
i) जवाहरलाल नेहरू प्रोफेसरशिप (पर्यावरण विधि पर चेयर)		74,920
ii) फोर्ड फाउण्डेशन		2,55,000
iii) डा. अम्बेडकर चेयर		7,18,486
iv) आर.बी.आई. चेयर		1,40,699
v) अन्य वृत्तिदान		3,79,286
IV. निवेश —		
i) डी.एस. गर्दी (संस्कृत अध्ययन केन्द्र)		6,00,000
ii) तमिल चेयर		50,00,000
iii) फोर्ड फाउण्डेशन (सी.एल. एण्ड जी.आर.) — प्रो. कुलदीप माथुर		7,48,324
V. अन्य भुगतान		8,17,883
VI. एक्विजिशन बैंक पुस्तकालय खाता —		
अनावर्ती (पुस्तकें)		4,513
VII. एस.बी.आई. — शोध एवं विकास निधि खाता		10,000
निप्पन फाउण्डेशन (एफ.सी.आर.ए.) खाता (छात्रवृत्तियाँ)		1,07,000
VIII. अनुप्रयुक्त मानव अनुवांशिकी केंद्र खाता —		
क. आवर्ती	11,32,521	
ख. अनावर्ती		
i) पुस्तकें	10,936	
ii) उपस्कर	5,52,662	
iii) फर्नीचर	12,800	17,08,919
अंत शेष —		
उद्दिष्ट निधि खाता	12,59,36,719	
जैनेटिक इंजीनियरी यूनिट खाता	1,47,761	
एक्विजिशन बैंक पुस्तकालय खाता	15,73,150	
एस.बी.आई. — शोध एवं विकास निधि खाता	21,436	



## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

## भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता

## प्राप्तियाँ

(आँकड़े रूप्यों में हैं)

III. पुरस्कार और वृत्तिदान -	
1) अर्जित ब्याज	30,44,771
2) वृत्तिदान	63,48,324
IV. अन्य प्राप्तियाँ	7,05,219
V. बचत बैंक खाता पर अर्जित ब्याज (ई. एम.एफ. खाता)	32,79,607
VI. एक्विजम बैंक लाइब्रेरी खाता -	
i अनुदान	15,00,000
ii बचत बैंक खाता पर अर्जित ब्याज	2,569
VII. कल्याणकारी राज्य व्यवस्था डिवलपमेंट एंड चैलेंज खाता (बचत बैंक खाता पर अर्जित ब्याज)	6,499
VIII. निप्पन फाउण्डेशन (एफसीआरए) खाता पर अर्जित ब्याज सेंटर आफ एप्लाइड ह्युमन जिनेटिक्स खाता	4,41,841
1) अनुदान	11,84,000
2) अर्जित ब्याज	37,038
VIII. निवेश भुनाए	1,00,000

कुल योग

25,52,86,475

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

### भाग-3, उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता

अदायगियाँ

(आँकड़े रुपये में हैं)

वेलफेयर स्टेट सिस्टम -- डिवलपमेंट ऐंड चेलेंजिज खाता	2,04,871	
अनुप्रयुक्त मानव अनुवांशिकी केंद्र खाता	16,13,945	
निप्पन फाउन्डेशन (एण्.सी.आर.ए.) खाता	3,34,841	12,98,32,723

कुल योग

25,52,86,475

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

भाग-4, ऋण, जमा आदि का खाता

प्राप्तियाँ	(आँकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
अथ शेष —		
भविष्य निधि खाता	42,16,841	46,92,934
अन्य जमा	2,42,39,340	2,22,87,861
भवन निर्माण निधि	1,48,56,869	66,14,632
	4,33,13,050	3,35,95,427
I. ऋण		
II. जमा —		
भविष्य निधि —		
कर्मचारियों का अभिदान	8,87,29,438	9,47,41,311
विश्वविद्यालय का अंशदान	29,53,812	33,37,642
वर्ष के दौरान अंशदाता के खातों में		
समायोजित किया गया ब्याज	5,36,32,111	5,00,62,564
भुनाए गए निवेश	11,28,79,713	12,06,08,259
निवेश पर अर्जित ब्याज	4,36,18,342	4,76,80,253
	30,18,13,416	31,64,30,029
III. छात्र-निधि —		
छात्र सहायता-निधि	67,543	79,226
पाठ्येत्तर कार्य-कलाप के शुल्क	2,30,496	2,32,512
छात्रों की प्रतिभूति जमा	65,530	66,850
छात्रावास की प्रतिभूति जमा	9,860	7,750
अन्य जमा (पुस्तकालय जमा, विविध जमा आदि)	6,400	3,140
	3,79,829	3,89,478
IV. अन्य निधियां —		
कुलपति की स्वनिर्णयगत निधि	1,61,850	1,33,450
V. अन्य जमा —		
बयाना, प्रतिभूति जमा	15,88,915	30,29,139
VI. आरक्षित निधि —		
जमा आरक्षित निधि पर अर्जित ब्याज	39,891	30,662
VII. अन्य प्राप्तियाँ —		
गृह-निर्माण अग्रिम निधि की वापसी	66,03,607	93,08,596
गृह-निर्माण अग्रिम निधि पर अर्जित ब्याज	34,39,374	63,09,637
दाहन/कंप्यूटर अग्रिम की वापसी	53,97,947	57,55,090
बचत बैंक खाता पर अर्जित ब्याज	36,124	31,546
कंप्यूटर और लैब सुविधाओं (एस.ई.एल.) का अद्यतन	0	20,000
संगत छात्रावास का अनुसंधान	0	

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

भाग-4, ऋण, जमा आदि का खाता

अदायगियाँ	(आँकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
I. ऋण —		
II. जमा —		
भविष्य निधि —		
अग्रिम/आहरण/अन्तिम अदायगियाँ	8,43,19,805	8,05,08,652
विश्वविद्यालय के अंशदान की अन्तिम अदायगियाँ	31,95,280	25,17,341
अभिदाताओं के खातों में दिया गया ब्याज	5,36,32,111	5,00,62,564
निवेश	16,01,90,127	18,21,94,000
	30,13,37,323	31,52,82,557
III. छात्र निधि —		
छात्र सहायता निधि	2,01,232	2,04,141
पाठ्येत्तर कार्यकलाप शुल्क	1,12,805	1,54,516
छात्रों की प्रतिभूति जमा	40	40
छात्रावास की प्रतिभूति जमा	15,750	0
अन्य जमा (पुस्तकालय जमा, विविध जमा आदि)	2,000	1,500
	3,31,827	3,60,197
IV. अन्य निधियाँ —		
कुलपति की स्वनिर्णयगत निधि	91,590	81,500
V. अन्य जमा —		
बयाना/प्रतिभूति जमा	9,96,516	17,90,853
VI. अन्य अदायगियाँ —		
भवन निर्माण अग्रिम निधि	1,82,85,219	86,61,735
वाहन/कंप्यूटर अग्रिम	45,90,405	31,62,762
स्टाफ सदस्यों के सामूहिक बीमा के लिए एल.आई.सी. को प्रीमियम की अदायगी	47,64,895	50,35,579
एल.आई.सी. सामूहिक बीमे के दावों की अदायगी	33,24,323	16,61,194
शोध कार्यकलाप और विशेष व्याख्यान	10,000	0
खेल-कूद सुविधाओं पर किराया	12,113	24,670
अलुमिनी एसोसिएशन फंड (ए.एस.सी) —		
क. आवर्ती	5,92,790	0
ख. अनावर्ती (उपस्कर)	1,25,000	14,050
डी.एन.ए. सिक्वेंसिंग सुविधा (एस.सी.एम.एम.)	2,880	2,000

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा

भाग-4, ऋण, जमा आदि का खाता

प्राप्तियाँ	(आँकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
<b>VII. अन्य प्राप्तियाँ — जारी ...</b>		
राष्ट्रीय पादप जिनोम शोध केन्द्र	0	50,000
क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र	0	4,75,712
सामूहिक बीमा अभिदान	48,00,332	50,14,101
एल.आई.सी. सामूहिक बीमा दावे के लिए प्राप्त राशि	36,31,609	18,15,944
केन्द्रीय यन्त्रीकरण सुविधाएं (सी.आई.एफ.—एस.एल.एस.)	11,000	0
खेल-कूद सुविधाओं का किराया	40,072	25,693
अल्युमिनि एसोसिएशन फण्ड — ए.एस.सी.	3,83,253	2,37,560
डी.एन.ए. सिक्वेसिंग सुविधा (एस.सी.एम.एम. पर)	26,400	0
एम.टी.एन.एल. (रोड सुधार प्रभार खाता पर)	80,925	0
अर्जित ब्याज —		
i) निवेश	7,99,685	8,37,073
ii) बचत बैंक खाता	6,26,982	5,26,993
	2,58,77,306	3,06,27,761
<b>IX. कार्पस निधि खाता —</b>		
मान्यता शुल्क/संबंधन प्रभार (मान्यता प्राप्त संस्थान)	31,00,000	30,00,000
अन्य स्रोत	35,23,541	41,43,815
मैचिंग ग्रांट-रिसोर्समोबिलाइजेशन (यू.जी.सी.)	0	58,06,092
निवेश/बचत बैंक खाता पर अर्जित ब्याज	33,23,236	22,06,059
	99,46,777	1,51,55,966
<b>X. निवेश भुनाए —</b>		
i) जमा खाता	57,14,209	0
ii) कार्पस निधि खाता	2,63,00,837	1,75,000
<b>कुल योग</b>	<b>41,51,36,080</b>	<b>39,95,66,932</b>

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

भाग-4, ऋण, जमा आदि का खाता

अदायगियाँ	(आँकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
<b>VI. अन्य अदायगियाँ - जारी ...</b>		
रोड/पटरी सुधार (एम.टी.एन.एल.)	1,19,325	0
अल्पकालीन पाठ्यक्रम (कंप्यूटर केन्द्र)	25,804	0
कंप्यूटर और लैब सुविधाओं का अद्यतन (एस.ई.एस.)		
क. आवर्ती	0	1,900
ख. अनावर्ती	0	17,950
यमुना छात्रावास का अनुरक्षण	0	26,284
जेएनयू - रिज एनवायरनमेंट रिजनरेशन स्कीम	0	9,517
	<b>3,18,52,754</b>	<b>1,86,17,641</b>
<b>VII. भविष्य निधि अंशदान का उपयोग</b>		
(विश्वविद्यालय अंश) -		
अव्ययित शेष की वापसी	21,92,370	0
<b>VIII. कार्पस निधि खाता -</b>		
क. आवर्ती	5,19,563	11,63,572
ख. अनावर्ती	3,91,452	0
ग. अनावर्ती (अग्रिम)	46,258	0
घ. अनुरक्षण खाते में वापसी	58,81,000	0
	<b>68,38,273</b>	<b>11,63,572</b>
<b>IX. निधियों का निवेश -</b>		
i) जमा खाता	59,00,000	0
ii) कार्पस निधि खाता	3,20,00,000	66,43,757
<b>अंत शेष -</b>		
बैंक रोकड़	3,35,95,427	5,56,26,855
<b>कुल योग</b>	<b>41,51,36,080</b>	<b>39,95,66,932</b>

**2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी—लेखा**  
भाग-5, अध्येतावृत्ति खाता

प्राप्तियाँ	(ऑकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
अथ शेष —		
बैंक रोकड़	45,88,799	1,78,50,343
I. अनुदान —		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		
i) 'किसी एक समय पर दी गई योजना' के तहत जे.आर.एफ.	4,00,00,000	3,00,00,000
II. अर्जित ब्याज —		
i) बचत बैंक खाता पर	1,74,230	2,58,959
ii) निवेश पर	13,92,592	11,56,795
III. निवेश भुनाए	3,03,53,063	4,10,00,000

कुल योग

7,65,08,684

9,02,66,097

## 2003-2004 का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

### भाग-5, अध्येतावृत्ति खाता

अदायगियाँ	(आँकड़े रूपों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
I. किसी एक समय पर दी गई योजना के तहत जे.आर.एफ.		
i) अध्येतावृत्ति	2,68,98,079	3,40,10,984
ii) आकस्मिक व्यय	13,20,316	30,41,453
iii) मकान किराया भत्ता	4,39,946	8,88,874
	2,86,58,341	3,79,41,311
II. निधि का निवेश	3,00,00,000	4,60,00,000
अंत शेष —		
बैंक रोकड़	1,78,50,343	63,24,786
कुल योग	7,65,08,684	9,02,66,097



## 2003—2004 आय—व्यय लेखा

## भाग—1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

लेखा—शीर्ष	व्यय (आँकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
1. प्रशासन	4,60,40,423	5,44,62,491
2. सामान्य सेवाएं और सामान्य प्रभार	9,23,37,528	8,49,16,363
3. शैक्षिक कार्यक्रम	18,35,23,173	18,66,68,026
4. परीक्षाएं	14,66,064	18,75,422
5. पुस्तकालय	2,09,69,953	2,06,70,164
6. छात्र सुविधाएं	90,06,974	1,09,10,365
7. छात्रवृत्तियां	30,31,830	29,93,176
8. छात्रावास	2,27,70,514	2,52,07,099
9. प्रकाशन	13,90,641	9,91,328
10. अन्य विभाग	6,89,95,995	7,23,67,103
11. विविध	2,80,26,321	3,39,22,439
12. भविष्य निधि और पेंशन	7,28,22,564	6,95,40,102
13. एरियर का भुगतान (पांचवे वेतन आयोग के कारण वेतनमानों में संशोधन)	1,88,61,045	1,41,07,198
14. परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के विवरण में स्थानांतरित — राजस्व खाते पर (आय से अधिक व्यय)	5,54,61,984	1,30,61,705

कुल योग

62 47,05,009

59,16,92,981

**2003—2004 आय—व्यय लेखा**  
भाग—1, अनुरक्षण (योजनेतर) खाता

लेखा—शीर्ष	आय (आँकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (राजस्व खाते पर)	55,89,02,825	54,30,26,871
2. छात्रों से शुल्क	1,15,37,413	1,07,00,172
3. छात्रावास	6,89,485	6,80,377
4. भूमि और भवनों से आय	1,02,11,956	1,00,64,024
5. प्रकाशन (रायल्टी)	1,68,231	1,56,599
6. प्रवेश फार्मों की बिक्री और प्रवेश परीक्षा शुल्क	1,98,63,341	1,91,54,934
7. अर्जित ब्याज	25,22,568	28,76,194
8. विविध प्राप्तियाँ/राजस्व	2,08,09,190	50,33,810

कुल योग

62,47,05,009

59,16,92,981

## 2003—2004 आय—व्यय लेखा

### भाग—2, विकास (योजनागत) खाता

लेखा शीर्ष	व्यय (आँकड़े रुपयों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
1. शैक्षणिक कार्यक्रम—		
क. संस्थान	21,60,560	27,10,248
ख. अन्य विविध शैक्षणिक गतिविधियां	97,28,692	82,28,930
ग. अन्य एकल योजनाएं	66,04,561	1,24,14,870
2. जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा	19,18,581	14,10,595
3. परिसम्पत्तियों और देयताओं के विवरण में स्थानांतरण —		
राजस्व खाते पर (व्यय से अधिक आय)	0	1,28,55,923

कुल योग

2,04,12,394

**2003—2004 आय—व्यय लेखा**  
भाग—2, विकास (योजनागत) खाता

लेखा शीर्ष	आय (आँकड़े रूप्यों में हैं)	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
1. अनुदान—		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग —		
(राजस्व खाते पर)	38,50,807	2,28,63,155
2. अन्य संगठन —		
(राजस्व खाते पर)	42,68,111	36,29,000
3. जैव—प्रौद्योगिकी/जैव—सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश		
फार्मों की बिक्री/प्रवेश परीक्षा शुल्क	84,69,555	80,53,606
4. अर्जित ब्याज —		
(बचत बैंक खाता)	10,04,847	14,52,826
5. विविध प्राप्तियाँ/वसूलियाँ	3,20,500	16,21,979
6. परिसंपत्तियों और देयताओं के विवरण में स्थानांतरण —		
राजस्व खाते पर (आय से अधिक व्यय)	24,98,574	0
 कुल योग	 2,04,12,394	 3,76,20,566

## 31.3.2004 को परिसंपत्तियों और देयताओं की स्थिति का विवरण

31.3.2003 की स्थिति रुपये	देयताएं	31.3.2004 की स्थिति रुपये
1,31,69,39,935*	अनुदानों का पूंजीकृत मूल्य	1,44,12,95,209
4,15,61,586	अग्रिमों के भुगतान हेतु उपयोग किए गए अनुदान	2,53,85,918
	उपयोगाधीन अनुदान —	
16,91,53,414	i) राजस्व खाता पर	19,49,71,042
16,70,91,311	ii) पूंजीगत खाता पर	18,29,34,553
	उपहार और दान —	
24,86,377	i) उपहार और दान	24,86,377
1,22,38,162	ii) विश्वविद्यालय को दान में प्राप्त पुस्तकों का मूल्य	1,26,77,284
5,78,53,037	वृत्तिदान और पुरस्कार (कार्पस)	6,57,12,984
14,58,42,662	उद्दिष्ट (विशेष) निधि—खाते के शेष	15,90,70,925
4,28,50,343	अध्येतावृत्ति खाते के शेष	3,63,24,786
2,74,53,012	जमा खाते के शेष (भविष्य निधि—खाते एवं मूल्यहास निधि खाते के अलावा)	3,09,37,973
11,45,099	जमा आरक्षित निधि पर प्राप्त ब्याज	11,75,781
8,07,26,179 **	गृह निर्माण निधि	8,71,15,866 ⑥
1,55,09,097	वाहन अग्रिम निधि	1,55,90,746
3,76,13,749	कार्पस निधि	5,16,06,143
	भविष्य निधि खाता —	
40,70,85,918	i) सामान्य भविष्य निधि	45,92,93,803

\* इसमें केन्द्रीय विद्यालय भवन बनाने के लिए आईआईटी से 33.33 लाख रुपये एन.सी.ई.आर.टी. से प्राप्त 28.33 लाख रुपये तथा के.वि.सं. के लिए दो क्वाटरों के निर्माण हेतु तथा फर्नीचर आदि के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन से प्राप्त 9.66 लाख रुपये की राशि शामिल है।

\*\* गृह—निर्माण निधि पर प्राप्त ब्याज की राशि रु. 4,17,73,179/— इसमें शामिल है।

⑥ गृह—निर्माण निधि पर प्राप्त ब्याज की राशि रु. 4,81,62,866/— इसमें शामिल हैं।

## 31.3.2004 को परिसंपत्तियों और देयताओं की स्थिति का विवरण

31.3.2003 की स्थिति	परिसम्पत्तियाँ	31.3.2004 की स्थिति
रुपये		रुपये
	विश्वविद्यालय परिसर का विकास —	
	भूमि —	
2,44,26,996	i) नये परिसर पर	2,44,26,996
26,676	ii) फीरोजशाह रोड़ पर	26,676
	भवन —	
	i) नये परिसर पर	
28,88,83,465	क. पूरा हो चुका कार्य	28,88,83,465
21,03,53,789	ख. चल रहा कार्य	25,88,36,891
21,07,201	ii) फीरोजशाह रोड़ पर	21,07,201
8,42,28,846	बाह्य सेवाएं	9,16,07,133
1,04,351	उपस्कर एवं संयंत्र	1,04,351
3,07,71,086	फर्नीचर और साज-सज्जा (पुस्तकालय के अतिरिक्त)	3,63,53,778
41,44,40,858	उपस्कर	45,12,45,696
10,50,980	भाषा प्रयोगशाला की साज-सज्जा (सी.आर.एस./जापानी प्रयोगशाला की स्थापना)	10,50,980
	पुस्तकालय —	
25,32,48,273	i) पुस्तकें और पत्रिकाएं	27,84,18,903
87,73,414	ii) फर्नीचर	1,03,19,525
4,37,667	iii) माइक्रोफिल्म एवं रिप्रोग्राफी उपकरण	4,37,667
81,76,587	टेलीफोन	81,82,487
46,34,287	विश्वविद्यालय के वाहन	44,57,123
	निम्नलिखित खातों में से पूंजी के रूप में दिए गए अग्रिम —	
93,40,835	i) अनुरक्षण (योजनेतर) खाता	21,48,137
2,43,22,757	ii) विकास (योजनागत) खाता	2,04,37,005
78,51,736	iii) उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता	28,00,776
46,258	iv) जमा खाता	0
8,86,64,331	वृत्तिदान का निवेश/ई.एम.एफ. खाता शेष	9,49,47,898
51,58,99,464	भविष्य निधि खाता निवेश	57,74,85,205
9,25,00,000	योजनागत खाता में से निवेश	12,50,00,000
4,64,921	त्योहार अग्रिम	4,35,071
0	सामूहिक जीवन योजना (अंशदान)	21,478

31.3.2004 को परिसंपत्तियों और देयताओं की स्थिति का विवरण

<u>31.3.2003 की स्थिति</u>	<u>देयताएं</u>	<u>31.3.2004 की स्थिति</u>
<u>रुपये</u>		<u>रुपये</u>
9,09,59,912	ii) अंशदायी भविष्य निधि	10,38,67,552
2,25,46,568	iii) ब्याज	2,01,64,256
21,003	प्रतीक्षित प्राप्तियों/वसूलियों का समायोजन	21,003
0	सामूहिक बीमा योजना (दावे)	1,54,750

2,63,90,77,364    योग

2,89,07,86,951

31.3.2004 को परिसंपत्तियों और देयताओं की स्थिति का विवरण

<u>31.3.2003 की स्थिति</u>	<u>परिसम्पत्तियाँ</u>	<u>31.3.2004 की स्थिति</u>
रुपये		रुपये
1,34,31,360	जमा में से निवेश	1,34,31,360
1,85,00,000	गृह निर्माण निधि खाते में से निवेश	1,85,00,000
2,50,00,000	अध्येतावृत्ति खाता में से निवेश	3,00,00,000
3,21,75,000	कार्पस निधि	3,86,43,757
	अग्रिम —	
5,56,11,547	i) गृह-निर्माण अग्रिम	5,49,64,716
1,38,23,579	ii) वाहन अग्रिम	1,12,30,342
	अंत शेष —	
1,05,800	अग्रदाय	1,10,775
	हाथ रोकड़/ बैंक में —	
	अनुरक्षण (योजनेतर) खाता —	
2,63,25,130	i) विश्वविद्यालय प्राप्तियाँ	5,05,21,648
4,86,27,580	ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान	13,75,17,642
6,82,48,740	विकास (योजनागत) खाता	6,43,47,905
11,50,28,080	उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता	12,98,32,723
3,35,95,427	जमा खाता (भविष्य निधि खाता, छात्र खाता, गृह निर्माण अग्रिम खाता वाहन अग्रिम निधि खाता तथा कार्पस निधि खाता सहित)	5,56,26,855
1,78,50,343	अध्येतावृत्ति खाता	63,24,786
2,63,90,77,364	योग	2,89,07,86,951

(जी.सी. ढोंडियाल)  
सहायक वित्त अधिकारी (डी)

(ए.के. मलिक)  
उप वित्त अधिकारी

(एस. नंदक्योलयार)  
वित्त अधिकारी



## विश्वविद्यालय की विशिष्ट लेखांकन नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां

### I. विशिष्ट लेखांकन नीतियां -

1. विश्वविद्यालय के लेखे प्रोद्भूत आधार की बजाय ऐतिहासिक लागत परिपाटी और नकद आधार पर तैयार किए जाते हैं।
2. अचल परिसंपत्तियों की लागत बिना किसी मूल्य ह्रास के दर्शाई जाती हैं।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी प्रकार की मूल्य ह्रास आरक्षित निधि के सृजन का अनुमोदन नहीं करता है, अतः किसी भी प्रकार की आरक्षित निधि का सृजन नहीं किया जाता है।
4. निवेशों की गणना लागत पर की जाती है।
5. बट्टे खाते में डाले गए गैर-उपभोज्य भंडारों के मूल्य को संगत परिसंपत्तियों से घटाया जाता है।
6. सेवा-निवृत्ति लाभों जैसे - उपदान, छुट्टियों का नकदीकरण और पेंशन के लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है, उनकी गणना तभी की जाती है जब उनका भुगतान किया जाता है।
7. उपहार और दान में प्राप्त अचल परिसंपत्तियों की गणना बही खातों में परिसंपत्तियों और देयताओं के विवरण में सीधे प्रविष्टि करके की जाती है।
8. भारत सरकार द्वारा जारी निवेश पैटर्न के अनुसार विश्वविद्यालय भविष्य निधि का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि द्वारा जारी बांड, प्रमाण-पत्रों में करता है।

### II. लेखाओं पर टिप्पणियां


1. विश्वविद्यालय, अनुरक्षण अनुदान में उपलब्ध ऐसी राशि जिसका तुरन्त उपयोग अपेक्षित न हो, का भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में अल्पावधि जमा के रूप में निवेश करता है।
2. चालू वर्ष के आंकड़ों को अनुकूल दिखाने के लिए आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़े दर्शाए गए हैं।
3. कार्य परिषद् के प्रस्ताव के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्तियां, कार्पस निधि में शामिल की जाती हैं।
4. अचल परिसंपत्तियों के सकल मूल्य को उनके अवाप्ति लागत के रूप में दर्शा दिया गया है जिसमें वहन शुल्क, ड्यूटी, कर और स्थापना प्रभार (यदि कोई है) शामिल होता है।
5. उद्दिष्ट निधि खाते में परियोजना और अध्येतावृत्ति खातों से संबंधित आंकड़े शामिल होते हैं।
6. विश्वविद्यालय के अधिशेषों को जिनमें उपहार और दान शामिल है, आयकर अधिनियम के तहत छूट प्राप्त है।

### लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के 31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा और 31 मार्च 2004 के परिसम्पत्ति और देयताओं के विवरण की जाँच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं कि संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों जिनमें अन्य बातों साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जिसमें से अधिकांश कई वर्षों से निरंतर बनी हुई हैं, निहित है।

- 1992-93 से दिन.नि को निवल सम्पत्ति कर की 12.95 करोड़ रुपए की आकस्मिक देयताओं को लेखाओं के नोट वाले भाग में नहीं दर्शाया गया। (पैरा 2.1.1)
- 189 परियोजनाओं के अंतर्गत परियोजना प्रायोजक अभिकरणों से वसूली योग्य राशि को दर्शाने वाले ऋणात्मक शेषों के कारण परिसम्पत्तियों और देयताओं को 1.03 करोड़ रुपए से कम बताया गया।
- भूमि व भवन पंजी तथा सम्पत्ति पंजी जैसे मूल अभिलेखों का अनुक्षण नहीं किया गया। तुलन पत्र और मूल अभिलेखों में 5.42 करोड़ रुपए का अंतर पाया गया।
- बंद परियोजनाओं के अंतर्गत 16.80 लाख रुपए के अप्रयोज्य/ अव्ययित अनुदानों का 4 से 13 वर्षों से मिलान नहीं किया गया।
- प्रायोजक अभिकरण कर परियोजना लेखाओं प्रत्येक परियोजना के उपशीर्षवार परिव्यय को नहीं दर्शाने।

लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में, मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा विश्वविद्यालय की बाहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखे और परिसम्पत्तियां तथा देयताओं का विवरण उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं तथा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों का सही एवं उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।



(डा.अं.कु. बनर्जी)

महानिदेशक लेखापरीक्षा  
केन्द्रीय राजस्व

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27.4.2005


# भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

## नई दिल्ली-110058, 10 अक्टूबर, 2005

सं. २०-१/२००५-एस.आर. (असम) जबकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव किया है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं जो असम राज्य रजिस्टर में नामावलिग्न हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं।

अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली एतद् निदेश देता है कि भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का प्रकाशन आम लोगों के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में होगा।

टिप्पणी:- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन दिसम्बर १९६६ से अगस्त २००४ तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (असम) का संकलन करने में प्रत्येक सावधानी बरती गई है, और उसमें यदि कोई छूट/सुधार अपेक्षित हो तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचित किया जाए।



(प्रेमराज शर्मा)  
रजिस्ट्रार

भारतीय विधिकता की केन्द्रीय पंजिका  
असम (16.12.1999-14.08.2004)

भाग I आयुर्वेद

के.पं.संख्या	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं पंजीयन तिथि	पता
85480	अब्दुल बोरक अब्दुस सलाम	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९१	298 12.1.04	नोर्थ बरपेटा रोड, पो.आ. एवं जिला बरपेटा ।
85481	अब्दुल बसित अब्दुल गनी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९७	320 1.3.04	ग्राम हाट खोला पो.आ. कनल बाजार, धाना पथर कन्डी, जिला करीमगंज ।
85482	अब्दुल बतेन शफी उद्दीन अहमद	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	269 9.6.03	जी.ए.सी. गालूकुबारी, कामरूप ।
85483	अब्दुर रउफ अहसान उद्दीन	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९६	75 20.7.2000	ग्राम अदितपुर, पो.आ. गनियाहपुरी, धाना बाघवार, जिला बरपेटा ।
85484	अभिजीत भगवती रतनावर भगवती	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	305 3.2.04	फाटसिल अम्बारी पो.आ. एवं धाना. फाटसिल अम्बारी, जिला कामरूप ।
85485	अभिजीत ठाकुर कामख्या प्रसाद ठाकुर	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९६	26 28.3.2000	नरकासुर काहिलीपारा पो.आ. नरकासुर, धाना दिसपुर जिला, कामरूप ।
85486	अबू बक्कर सिद्दीकी मोह. नूर हुसैन	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	254 27.11.02	ग्राम धरदंगा, पो.आ. एवं धाना. गौरीपुर, जिला धुबरी ।

85487	अबुल बशर आजाद मोह. रबिउल्लाह साहब	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	185 6.12.01	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जालुक्बारी, गुवाहाटी
85488	अबुल फजल नाजिर मोल्लाह अलिम उद्दीन मोल्लाह	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	302 3.2.04	के.जे.एन. आयुर्वेदिक फार्मसी, कालेज रोड, धाना लखीपुर, जिला गोलपारा ।
85489	अबुल फजल सत्कार मो. समसेर अली सत्कार	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	202 5.2.02	ग्राम एवं पो.आ. नोर्थ रायपुर, धाना गोपकांज, जिला धुबरी ।
85490	अबुल कलाम आजाद अब्दुल कदुस अहमद	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९२	47 30.3.2000	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जालुक्बारी, जिला कामरूप ।
85491	अधीर राय स्व. तिलक चन्द राय	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९६	321 1.3.94	ग्राम एवं पो.आ. पोक्लांगी धाना गोपालकांज, जिला धुबरी ।
85492	अजीत चन्द्र डेका स्व. कर्मा राम डेका	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९४	158 26.7.01	ग्राम एवं पो.आ. कराग, आई.धाना. बैहाटा चारली, जिला कामरूप ।
85493	अजीत कुमार सर्मा रमेश चन्द्र सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९५	45 30.3.2000	गोपीनाथ बोर्डोलोई नगर, ए.टी. क्वार्टर नं. १७, धाना. जालुक्बारी, जिला कामरूप ।
85494	अजय बस्त्रा अनिमेश बस्त्रा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९७	315 3.2.04	कोकराझार कालेज रोड, डब्ल्यू/नं.७, पो.आ. एवं धाना. कोकराझार ।
85495	अजय मुखर्जी स्व. नानी गोपाल मुखर्जी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९६	266 5.6.03	हस्ताना स्टेट डिस्पेंसरी, बरपेटा ।

85496	अक्षय कलिता सुनन्दा कलिता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	303 3.2.04	ग्राम एवं पो.आ.बासुनीमदान थाना चन्दमारी, कामरूप ।
85497	अलदेश मजूमदार सतीश च. मजूमदार	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	308 3.2.04	ग्राम नामदोंगा पो.आ. बलिलोचा, जिला नलबारी ।
85498	अत्योना राय निरेस्वर राय	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९४	243 26.11.02	अभयपुरी पो.आ. एवं थाना.अभयपुरी, जिला बोनगाँव ।
85499	अमरेन्द्र गोस्वामी स्व.रामा कान्त गोस्वामी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९८५	228 25.9.02	ग्राम फाटशिल पो.आ. एवं थाना.भरालुमुख जिला कामरूप ।
85500	अमिताभ मजूमदार सुदीप आर. मजूमदार	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९७	28 1.3.2000	ग्राम कामछ्यागेट पो.आ.भरालुमुख थाना. जालुक्बारी, जिला कामरूप ।
85501	अमिथ कुमार कलिता नरेन्द्र नाथ कलिता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९८	19 16.12.99	जी.ए.सी. गुवाहाटी ।
85502	अमृत्य वैश्य प्रफिन वैश्य	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	244 26.11.02	मिर्जा पो.आ. मिर्जा थाना.पलशबारी, जिला कामरूप ।
85503	अमजद खान अब्दुल गफुर खान	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९६	171 24.9.01	ग्राम एवं पो.आ.भोगदिया थाना. एवं जिला बरपेटा ।
85504	अनामूल हक अबु बक्कर सिद्दीकी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९६	99 10.10.2000	ददन्दा सिक्समिल, पांजबारी रोड, गुवाहाटी, जिला कामरूप ।

85505	अनन्त कुमार भट्टाचार्य स्व. सिव. नाथ भट्टाचार्य	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९८७	226 25.7.02	सिबसागर सिविल अस्पताल, जयसागर, पो. आ. एवं जिला सिबसागर ।
85506	अनिल किशु बर्नबास किशु	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी २००२	275 20.6.03	ग्राम दखिनगॉव, पो. आ. एवं थाना दिसपुर, जिला कामरूप ।
85507	अनिल कुमार सिंह श्रीराम रतन सिंह	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९६२	145 23.01	नलियापूल रेलवे कालोनी, पो. आ. एवं थाना. डिब्रूगढ़, जिला डिब्रूगढ़ ।
85508	अनिल कुमार सर्मा उत्तम च. सर्मा	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९८४	127 24.1.01	ग्राम बामुन्दी, पो. आ. बामुन्दी, थाना सुअलकुची, जिला कामरूप ।
85509	अनिमेश कुमार सर्मा नारायण चन्द्र सर्मा	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९६६	116 29.12.2000	ग्राम मलिकुची पो. आ. एवं थाना. नलबारी, जिला नलबारी ।
85510	अनीस इराकी मो. अब्दुल खालिक	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी २००१	237 26.11.02	मिनुटोंग मोलापति, थाना. इम्फल ईस्ट, जिला इम्फल, मणिपुर ।
85511	अमिता मुरा स्व. देवेन्द्र मुरा	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी २०००	188 6.12.01	अम्बिकागिरी नगर, त्रिवेणी पथ, जोनाली (जू रोड) गुवाहाटी ।
85512	अनीजुर रहमान मो. अब्दुल हकीम	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी २००१	253 27.11.02	ग्राम एवं पो. आ. गोईमारी, जिला नॉर्व ।
85513	अंजलि प्रसाद राम जनम प्रसाद	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी २००३	342 19.6.04	ए. जी. क्वार्टर, नं. ११७/११, मोतीनगर, शिलोंग थाना. नोनथुमई, जिला ईस्ट खासी हिल्स मेघालय ।

85514	अनूप कैश्य खगेन कैश्य	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	79 20.7.2000	ग्राम एवं पो.आ. एवं थाना गोश्वर, जिला कामरूप ।
85515	अनुराधा राय	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	252 27.11.02	अदाबरी टेलिकाम कम्यूनिक्स स्क्वाटर नं. टी-४/५-६ गुवाहाटी -१२, कामरूप ।
85516	अर्चना भुयान तिलेसवर भुयान	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	89 11.9.2000	ग्राम एवं पो.आ. एवं थाना खेलमति, जिला लखीमपुर ।
85517	अरुण चन्द्र दास बिरेन्द्र चन्द्र दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	138 9.2.01	दीहिगमुख एस.एच.सी. पो.आ. दीहिगमुख, जिला सिबसागर ।
85518	अशोक तालूकदार स्व. कामध्या चरण तालूकदार	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	271 9.6.03	कृष्णा नगर, ज़ापरीमोग, गुवाहाटी ।
85519	अश्विनी कुमार गुप्ता रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६२	182 6.12.01	३०, बैडेड सरल होस्पिटल, ब्रकेलिया, जिला करबी अंगलोग ।
85520	अताउर रहमान स्व. राकम अली	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६७	80 20.7.2000	ग्राम तेंगारी, पो.आ. चण्ड चौक, थाना मंगेलदेई, जिला दरंग ।
85521	अतोवर रहमान स्व. सादेक अली	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६१	54 24.4.2000	गजकिन्दी पी.एच.सी., पो.आ. राधा, माधभट, थाना मनकावर, जिला धुबरी ।
85522	अतुल चन्द्र सर्मा स्व. श्यामदेव सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	62 12.7.2000	ग्राम पुब-वेसमश पो.आ. पवरिया, थाना हाजो, जिला कामरूप ।



85523	अयुब खान मो. सबेर खान	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६०	173 2.11.01	साउथ सलमार पी.एच.सी. पो.आ. तुमनी, जिला धुबरी ।
85524	बाबुल कलिता सुनन्दा राम कलिता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६२	51 6.4.2000	रामगोवि एस.एच.सी. पो.आ. एवं थाना पानीगोवि, जिला नोर्थ लखीमपुर ।
85525	बहार इस्लाम स्व. सफी अली	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६४	326 29.3.04	ग्राम बरगोवि, पो.आ. पुब बोरोक, थाना कमलपुर, जिला कामरूप ।
85526	बलेन्द्र नाथ वेजवरूआ सुरेन्द्र नाथ वेजवरूआ	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६१	74 20.7.2000	ग्राम अभयपुर, पो.आ. गौरुहा, थाना हाजो, जिला कामरूप ।
85527	बन्दना शर्मा सतल कुमार शर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	239 26.11.02	ग्राम बिद्यापुर, पो.आ. एवं थाना एवं जिला नलबारी ।
85528	बन्दिता शर्मा नरेन्द्र नाथ शर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६५	36 30.3.2000	न्यू मार्किट, पो.आ. रंगिया थाना रंगिया, जिला कामरूप ।
85529	बकिम चन्द्र नाथ सतीश चन्द्र नाथ	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६२	4 16.12.99	चरक होस्टल, जी.ए.सी. जालुबारी ।
85530	बसीरुल इस्लाम इम उद्दीन	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	251 26.11.02	ग्राम एवं पो.आ. जोरुआरचर थाना साउथ सलमार, जिला धुबरी ।
85531	शाब कान्त शर्मा स्व. हरि कान्त शर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६२४	139 9.2.01	अभयपुरी सी.एच.सी. पो.आ. अभयपुरी, जिला भगईगढ़ ।

85532	भगवान चौधरी नारायण चौधरी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६२	57 17.5.2000	ग्राम हताकुरा पी.एच.सी. पो.आ. महामयाहाट धाना गोलोकगंज, जिला धुबरी ।
85533	भास्कर ज्योति भराती	बी.ए.एम.एस.	140	सौरपुर पो.आ. एवं धाना सौरपुर, जिला कामरूप ।
	स्व. कृष्ण कान्त भराती	गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	9.2.01	
85534	भास्करजीत सलोई फनीधर सलोई	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	310 3.2.04	डा. जे.सी.बी. होस्टल, राजकीय आधुनिक महाविद्यालय
85535	विभू संकर दास कोशब च. दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	295 12.1.04	ग्राम माधवपुर पो.आ. एवं धाना नीनमति, कामरूप ।
85536	बिजुली दास स्व. रति राम कुमार	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६०	70 11.9.2000	एम.एम.सी. अस्पताल, पो.आ. एवं धाना पानबाजार, जिला कामरूप ।
85537	बिमल चन्द्र बोरो भात चन्द्र बोरो	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६८	20 16.12.99	जी.ए.सी.; गुवाहाटी ।
85538	विमान चौधरी भूपेन्द्र एन. चौधरी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	309 3.2.04	अम्बिकागिरी नगर, धाना गीतानगर, जिला कामरूप ।
85539	बिनय सेन धीरेन्द्र नाथ सेन	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	215 6.6.02	ग्राम शेमागर पो.आ. असोमणि, धाना गोलकांग्र, जिला धुबरी ।
85540	बिनोद भराती नागेन्द्र भराती	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६२	345 19.6.04	ग्राम एवं पो.आ. सलपेटा धाना सलपेटा, जिला बरपेटा ।

85541	बिनोद कलिता दांडी राम कलिता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६८	15 16.12.99	छात्रावास स.१, जी.ए.सी., गुवाहाटी ।
85542	बिपुल चन्द्र दास स्व. तन्बु राम दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६९	121 10.1.01	ग्राम एवं पो.आ. जर्नीमोय, थाना एवं जिला नलबारी ।
85543	बिपुल चन्द्र कलिता अमृत्यु रतन कलिता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६९	88 18.8.2000	ग्राम एवं पो.आ. थाना चान्दमारी, जिला कामरूप ।
85544	बिपुल कुमार नाथ स्व. रमेश चन्द्र नाथ	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६८	65 14.6.2000	कामख्या रोड पो.आ. भरालुमुख थाना जलुकुबारी, जिला कामरूप ।
85545	बिपुल कुमार सर्मा कालीप्रसाद देव सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	37 30.3.2000	ग्राम बमफोर, पो.आ. टोपहली, थाना क्षेत्र जिला कामरूप ।
85546	बिरेन्द्र नाथ चौधरी बिभूति प्रसाद चौधरी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६९	33 30.3.2000	जी.ए.सी., गुवाहाटी, पो.आ. जलुकुबारी, थाना जलुकुबारी, जिला कामरूप ।
85547	बिष्णु प्रसाद सर्मा स्व. काली प्रसाद सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६९	230 21.11.02	ग्राम एवं पो.आ. चेनीकुटी थाना चान्दमारी, जिला कामरूप ।
85548	बिश्वजीत दास घनश्याम दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	114 29.12.2000	ग्राम रेसुहा पो.आ. एवं थाना हजो, जिला कामरूप ।
85549	बिश्वजीत दास घनश्याम दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	209 4.4.02	ग्राम एवं पो.आ. कदापणि थाना गभरु पथर, जिला डिब्रुगढ़ ।

85550	बुरहान उद्दीन चौधरी मो. खलीलुर रहमान चौधरी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	245 26.11.02	ग्राम दखिन नौअबिल पो.आ. अद्वरी थाना मुझार, जिला नगोंव ।
85551	चक्रेश्वर हलौई फारुकि हलौई	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६५	166 12.9.01	ग्राम नलबारी टाउन वार्ड नं.२, पो.आ. एवं जिला नलबारी ।
85552	चक्रेश्वर सर्मा स्व. लंकेस्वर सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९८७	131 6.2.01	डिब्रुगढ़ स्टेट डिस्पेंसरी, पो.आ. एवं थाना डिब्रुगढ़ जिला डिब्रुगढ़ ।
85553	चम्पक मोधी दाधी राम मोधी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६६	113 8.12.2000	ग्राम सौरागुरी, पो.आ. कवबरी, थाना तमुलपुर, जिला नलबारी ।
85554	चम्पक कुमार दत्ता स्व. एच.एन. दत्ता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६४	132 9.2.01	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, अस्पताल, जालुकुबारी, जिला कामरूप ।
85555	चन्दना मोधी सर्वनन्द मोधी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६४	135 9.2.01	आर.जी. वरुआ रोड, नू रोड, तिनाली, गुवाहाटी, कामरूप ।
85556	चन्द्रमा चौधरी स्व. धरणी धर चौधरी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	290 12.1.04	ग्राम एवं पो.आ. बागुनीगोंव, थाना बोक्को, जिला कामरूप ।
85557	चन्दरानी दास गुप्ता आर. दास गुप्ता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	190 6.12.01	कामख्या मनसिया कामख्या नगर अद्वारी तिनियाली, जिला कामरूप ।
85558	देवजीत भट्टाचार्य परीश च. भट्टाचार्य	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६४	42 30.3.2000	ग्राम सुन्दरबोरी, पो.आ. एवं थाना जालुकुबारी, जिला कामरूप ।

85559	देवज्योति गोस्वामी जगन्नाथ गोस्वामी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६९	48 30.3.2000	बोकाखटी पी.एच.सी. पो.आ. एवं थाना बोकाखट, जिला गोलाघाट ।
85560	दीपक कुमार हरेन्द्र कुमार	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	156 24.5.01	ग्राम सन्दरबारी, पो.आ. एवं थाना जालुकुबारी, जिला कामरूप ।
85561	धर्मानन्द शर्मा प्रोमानन्द शर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६८	13 16.12.99	होस्टल नं.१, जी.ए.सी., गुवाहाटी ।
85562	धीरा दास गोपाल च. दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६४	317 18.2.04	ग्राम कामाबल पो.आ. सिलपुखुरी थाना चान्दमारी ।
85563	धीरज दास देविशा च. दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००३	332 19.6.04	ग्राम बोनगरा पो.आ. बोनगरा, थाना पलासबारी, कामरूप ।
85564	धीरेन डेका पहारीधर डेका	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	39 30.3.2000	द्वारा रतुल डेका सुमित्रा शोपिंग कॉम्प्लेक्स, पो.आ. एवं पी.एस. मंगलदेवी, जिला दरंग ।
85565	धीरेन्द्र नाथ डेका देवेन्द्र नाथ डेका	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६८७	129 24.1.01	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जालुकुबारी, गुवाहाटी ।
85566	दिवज्योति बोरदेबोई लक्ष्मी प्रसाद बोरदेबोई	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६७	63 12.7.2000	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जालुकुबारी, जिला कामरूप ।
85567	दिलीप जोगोई अदि राम जोगोई	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६४	211 4.4.02	तैराईमुख पीएचसी मजुली, जिला जोरहाट ।

85568	दिलीप कुमार डेका धनीराम डेका	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६३	218 20.7.02	ग्राम दिपलांग पो.आ. लहकरपारा, अन्ता - थाना कायन, जिला कामरूप ।
85569	दिलीप कुमार गोस्वामी स्व. यजना नाथ गोस्वामी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	323 1.3.04	ग्राम राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, थाना जालुक्बारी, कामरूप ।
85570	दिलीप कुमार नाथ जोगेन्द्र चन्द्र नाथ	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६२	31 30.3.2000	ग्राम एवं पो.आ. खानापारा, थाना दिसपुर, जिला कामरूप ।
85571	दिलीप कुमार.सर्मा स्व. हरी कान्त.सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	137 9.2.01	सरभोग सीएचसी पो.ओ. एवं थाना सरभोग, जिला बरपेटा ।
85572	दिम्बेस्वर पटोवारी कनक पटोवारी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	289 12.1.04	ग्राम एवं पो.आ. एवं पी.एसी. बेलसोर, जिला नलबारी ।
85573	दीपक व.दास हरेन दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	117 29.12.2000	ग्राम कलबारी, पो.आ. भवानीपुर, पो.आ. एवं जिला बरपेटा ।
85574	दीपक चन्द्र कलिता भाबा कान्त कलिता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६९	43 10.10.2000	धोलाल पीएचसी सिल्वर, कछार स्टार
85575	दीपक कुमार दास रवि राम दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६२	143 19.9.01	हरिनगर पीएचसी पो.आ. एवं थाना जोगपुर, जिला कछार
85576	दीपक कुमार दास गणेश च. दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६५	285 10.12.03	पो.आ. एवं ग्राम कुल्हाटी, थाना हाजो, कामरूप ।

85577	दीपक कुमार गोस्वामी कुमुद चन्द्र गोस्वामी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६५	207 15.2.02	ग्राम एवं पो.आ. मशलपुर थाना बरबारी, जिला नलबारी ।
85578	दीपक रमा बोमशी रमा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६३	142 9.2.01	बुगमोहैन थाना पाएचसी पो.आ. दीशगोव, जिला नगाँव ।
85579	दीपाली दास श्री उमेश च. दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६३	148	ग्राम उदयपुर पो.आ. मिलनपुर, थाना नलबारी, जिला नलबारी ।
85580	दीपाली कलिता बिजय राम कलिता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६३	100 10.10.2000	अनिल नगर, राजगढ़ लिंक रोड, पो.आ. उडुबारी, थाना गोटानगर, जिला कामरूप ।
85581	दीपाली नाथ स. मुनिन्द्र कुमार. नाथ	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६५	149 22.5.01	मरिगोव सी.एच. पो.आ. एवं थाना मरिगोव, जिला मरिगोव ।
85582	दीपांकर ठाकुरिया मणिराम ठाकुरिया	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६५	341 19.6.04	ग्राम बाटाबारी, थाना लातौरगोव, जिला दरंग ।
85583	द्वितीमेनी बोरठाकुर एम.सी. बोरठाकुर	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	248 26.11.02	ग्राम लताकटा सान्तीनगर, पो.आ. एवं थाना बसिस्ता, जिला कामरूप ।
85584	इलासर रहमान सैयद सैफुद्दीन अहमद	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६५	50 6.4.2000	लार्डफ लार्डन मेडिकोस, एएसटीसी बस स्टैंड, पो.आ. एवं थाना रंगिया कामरूप ।
85585	इलीना तालुकदार नाकित्य रंजन तालुकदार	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	272 9.6.03	ग्राम कम्लानगर, पो.आ. एवं थाना चावंगेदे, जिला लंगतिलहई, मिजोरम ।

85586	इलिजा एसमिन मो. मस्बुर रहमान	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६८	18 16.12.99	गल्स होस्टल, जीएसी, गुवाहाटी।
85587	फिरोज उद्दीन अहमद मो. अबु बक्कर शैक	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६८	7 16.12.99	ग्राम पुब कनारी, पो.आ. गोलकांज, जिला धुबरी।
85588	फिरोज उद्दीन अहमद मो. अबु बक्कर शैक	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६८	220 20.7.02	ग्राम पुब कनारी, पो.आ. एवं थाना गोलकांज, जिला धुबरी।
85589	गौरी संकर रामचिपारी बिष्णु प्रसाद. रामचिपारी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	247 26.11.02	ग्राम एवं पो.आ. सुनखटा थाना बोकारिम जिला नलबारी।
85590	गौतम हलोई चक्रधर हलोई	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	98 10.10.2000	ग्राम एवं पो.आ. काकया थाना बेलसोर, जिला नलबारी।
85591	गौतम कुमार. दास स्व. बिपिन चन्द्र दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	161 26.7.01	पो.आ. एवं ग्राम कुल्हाटी, थाना हाजो, जिला कामरूप।
85592	गौतम कुमार. सर्मा स्व. सुरेन्द्र नाथ सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	134 9.2.01	रामपुर पीएचसी, पो.आ. रामपुर, थाना पलशबारी, जिला कामरूप।
85593	गौतम प्रतिम दत्ता भोरसवर दत्ता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	283 15.10.03	द्वारा भद्रेसवर दत्ता, डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय कैम्पस, डिब्रुगढ़।
85594	गौतम सैकिया अच्युत च. सैकिया	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६७	40 30.3.2000	डिम्बोई सी.एच.पो.आ. डिम्बोई पो.आ. जिला तिनसुकिया।



85595	गौतम शर्मा श्री रजनी कान्त शर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	151 22.5.01	ग्राम हेमनगर, पो.आ. तेजपुर, थाना तेजपुर, जिला सोनितपुर ।
85596	गिरिश च. दत्ता स. केशव च. दत्ता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९६	174 2.11.01	ग्राम मगुरी, पो.आ. सोनेस्वर, थाना कमलपुर, जिला कामरूप ।
85597	गीता रानी ठाकुरिया रमनी कान्त ठाकुरिया	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९६	111 8.12.2000	ग्राम रामदिया पो.आ. मजोक्कुरी, थाना हाजो, जिला कामरूप ।
85598	गोलेप हुसैन स. नबिबर रहमान	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९९	55 17.5.2000	अलगपुर पीएचसी पो.आ. एवं थाना अलगपुर, हैलाकंडी ।
85599	गोरिन्द्र वरूआ चन्दी राम वरूआ	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९९	136 9.2.01	ग्राम अठगोंव पो.आ. हिन उली, थाना कमलपुर, जिला कामरूप ।
85600	हिमन्या सैकिया उमा कान्त सैकिया	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९६	284 10.12.03	ग्राम, नीलाचलपुर, पो.आ. मालिगोंव, थाना जलुक्बारी, जिला कामरूप ।
85601	हफिजुर रहमान रश्मि अली	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००३	338 19.6.04	ग्राम रामपुर, थाना मुकलमुआ, जिला नलबारी ।
85602	होरे प्रसाद सर्मा लखमी नारायण सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९७	322 1.3.04	ग्राम एवं पो.आ. भरलमुख, जिला कामरूप ।
85603	हेम चन्द्र क्वारी सुकुं क्वारी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९६	92 16.9.2000	रुपनगर, भंगागढ़, दिसपुर, गुवाहाटी ।

85604	हेमन्त दास देवेन्द्र नाथ दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६७	32 4.2.2000	ग्राम एवं पो.आ. अक्या धाना पटाचकुची, जिला बरपेटा ।
85605	हेमन्त कुमार चौधरी नागेन्द्र नाथ चौधरी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६९	72 29.6.2000	ग्राम भोमदाबती, पो.आ. बेजरा धाना बैहाटा चारली, जिला कामरूप ।
85606	हेमेन कलिता स्व. धना कान्त दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	103 7.11.2000	ग्राम बिल्बरी, पो.आ. गोपीनाथ नगर, धाना फल्तन बाजार, जिला कामरूप ।
85607	हेमेन कुमार. सर्मा चन्द्र कान्त सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	214 6.6.02	ग्राम देहाकुची, पो.आ. सनेकुची, धाना घोगराफर, जिला नलबारी ।
85608	हैगली मेधी प्रताप चन्द्र मेधी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	257 29.11.02	ग्राम एवं पो.आ. नाथकुची धाना टिहु, जिला नलबारी ।
85609	हिरेंद्र नाथ सर्मा स्व. सोनापति सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६०	152 22.5.01	बदरपुर एस.एच.सी. पो.आ. बदरपुर, जिला करीमगंज ।
85610	होमेन कुमार दास अश्विनी कुमार दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६४	170 24.9.01	ग्राम एवं पो.आ. एवं धाना अजरा, जिला कामरूप ।
85611	हेन्द्र कुमार नाथ स्व. मुनिन्द्र कुमार नाथ	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६७	76 20.7.2000	ग्राम दक्षिण चुबुरी, पो.आ. एवं धाना सिपजहर, जिला दरंग ।
85612	हृदय पाठक चन्द्र कान्त पाठक	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	157 -4.6.01	ग्राम महारानी पो.आ. बागमारा धाना पटाचाकुची, जिला बरपेटा ।

85613	हरियजुई बुहरील वनलालमोय बुहरील	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००३	343 19.6.04	प्रियधशिनी गर्ल्स होस्टल, जालुकबारी, गुवाहाटी ।
85614	हरिशी बन्दना कौबर ललित च. कौबर	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	294 12.1.04	द्वारा ललित च. कौबर, बीवीएफओएल, नामरूप पर्सनल विभाग, धाना नामरूप ।
85615	इन्द्रजीत गोस्वामी उमेश च. गोस्वामी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६८	58 17.5.2000	पो.आ. परतपुर, डिब्रूगढ़ राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पो.आ. एवं धाना जालुकबारी, जिला कामरूप ।
85616	इन्दू भूषण सर्मा कुरुणा कान्त सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	314 3.2.04	ग्राम बरगौव, पो.आ. बिहड़िया, धाना बिहड़िया चारली, जिला कामरूप ।
85617	इन्या लिंगु ताई लिंगु	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	216 6.6.02	ग्राम कुन्दोर पो.आ. एवं धाना लिकाबली, जिला वेस्ट सिंगम असुगावल प्रदेश ।
85618	इकबाल हुसैन अब्दुल अवल	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६५	90 11.9.2000	ग्राम एवं पो.आ. खलिसविता धाना लखीपुर, जिला गोलपारा ।
85619	जगदीश सर्मा कृष्ण मोहन सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६०	328 10.5.04	ग्राम एवं पो.आ. एवं धाना नरकटिया जिला डिब्रूगढ़ ।
85620	जहानारा खाकम अजीजुर रहमान	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६८	12 16.12.99	पो.आ. बदरपुर, जिला करीमगंज ।
85621	जहिरुल इस्लाम अबुल हुसैन	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९८६	204 5.2.02	लाला पीएचसी, पो.आ. लाला जिला हैलाकन्डी ।

85622	जकारिया महिउद्दीन पीर हुसैन	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९४	219 20.7.02	ग्राम एवं पो.आ. एवं थाना रौंगिया, जिला कामरूप ।
85623	जमाल अहमद चौधरी रिफाजुद्दीन अहमद	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९१	84 18.8.2000	ग्राम हाटीगाँव पो.आ. एवं थाना दिसपुर, जिला कामरूप ।
85624	जय प्रकाश सर्मा महेन्द्र नाथ सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९७	327 29.3.04	ग्राम महरिया पो.आ. कनिहा थाना कमलपुर, जिला कामरूप ।
85625	जयन्त कुमार कलिता सुरेन्द्र कलिता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९८	81 20.7.2000	ग्राम दक्षिण चुबुरी, पो.आ. एवं थाना सिपजहर, जिला-दर्रांग ।
85626	जयन्त कुमार खटानियर कुमार खटानियर	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९५	78 20.7.2000	ग्राम एवं पो.आ. गोबिन्दपुर थाना पटावरकुची, जिला बरपेटा ।
85627	जयन्त कुमार सर्मा महेन्द्र नाथ सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९६	35 30.3.2000	ग्राम नाजबरिगो, पो.आ. कनिहा, थाना रौंगिया, जिला कामरूप ।
85628	जयन्त सर्मा जादव सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	241 26.11.02	ग्राम एवं पो.आ. दुलियापट्टर थाना बिहपुरिया, जिला लखीमपुर ।
85629	जयश्री सरकार उपेन्द्र नाथ सरकार	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	238 26.11.02	फूलड कन्दूल एवं इरिगेसन विवेक विहार, पो.आ. इटानगर, जिला पदुमपारा ।
85630	जेनीफेर डी. फाउडे स्व.सुरेन्द्र नाथ डेका	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९६	107 8.12.2000	ग्राम लखरुपारा, पो.आ. एवं थाना सिपाझर, जिला-दर्रांग

85631	जिबो दत्ता नवीन चन्द्र दत्ता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	91 11.9.2000	ग्राम धेनुधरिया पो.आ. पानीगँव, थाना नोर्थ लखीमपुर, जिला लखीमपुर ।
85632	वितेन्द्र मालाकर स्व. मुख्य मालाकर	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६०	97 10.10.2000	बिहपुरिया पीएचसी, लखीमपुर ।
85633	जीवती बारो मणिराम बारो	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	106 8.12.2000	ग्राम टोटोलापारा पो.आ. भैरोंग, थाना पनोरी, जिला दरंग ।
85634	जोगेश वरूआ सौभाग्य वरूआ	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६५	177 6.12.01	ग्राम भोटपारा पो.आ. पलाश फ्लोर, थाना धेकियाजुली, जिला सोनीतपुर ।
85635	जुरी सर्मा तूतनी सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००३	330 19.6.04	ग्राम मैदान, पो.आ. बेस्टोला, थाना दिसपुर, जिला कामरूप ।
85636	ज्योत्सना दास भुवनेश्वर दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६०	101 10.10.2000	ग्राम एवं पो.आ. लंकेस्वर थाना जालुक्बारी जिला कामरूप ।
85637	कल्पना वरूआ स्व. गुनाधर वरूआ	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	124 24.1.01	ग्राम निजरापुर पो.आ. एवं थाना जालुक्बारी जिला कामरूप ।
85638	कल्पना सर्मा मनोहर सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	208 15.2.02	ग्राम एवं पो.आ. पाठसला थाना पाठसला, जिला बरपेटा ।
85639	कमल चन्द्र बोराह जगोपानाथ बोराह	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६७	60 12.7.2000	वीआईपी पो.आ. एवं थाना आजरा, जिला कामरूप ।

85640	कमल चन्द्र गयिया स्व. सैतोकि कुमार. गयिया	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६०	144 19.3.01	ग्राम सौरागुरी, पो.आ.एवं धाना तमुलपुर, जिला नलबारी ।
85641	कमल कलिता हरमोहन कलिता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६०	163 7.8.01	ग्राम कैरापो पो.आ. सैधा, धाना नलबारी, जिला नलबारी ।
85642	कमल कृष्णा नाथ प्रसन्न कुमार. नाथ	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	312 3.2.04	ग्राम एवं पो.आ. रंगिया, जिला कामरूप ।
85643	कमल कुमार बर्मन गजेन्द्र बर्मन	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	27 30.3.2000	ग्राम बेलसोर, पो.आ. बेलसोर, धाना.बेलसोर, जिला नलबारी ।
85644	कमलेश्वर दास चान राम सलोई	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	109 8.12.2000	ग्राम चौचामुख पो.आ. कुल्हाटी, धाना हाजे, जिला कामरूप ।
85645	कनक कलिता धीरेस्वर कलिता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००३	340 19.6.04	ग्राम चैचामुख पो.आ.हाजे, जिला कामरूप ।
85646	कनिका गोस्वामी धरनीधर गोस्वामी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६२	125 24.1.01	ग्राम सरीहाचकला पो.आ. एवं धाना पताचकुची, जिला बरपेटा ।
85647	काब अली मो. काथीम अली	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	115 29.12.2000	ग्राम सान्तिपुर पो.आ. एवं धाना नलबारी, जिला नलबारी ।
85648	कौशल्या खडगारी मोनोरंजन खडगारी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	82 20.7.2000	ग्राम एवं पो.आ. एवं धाना मुकुलमुआ, जिला नलबारी ।

85649	खुशेन बासुमत्री मणिराम बासुमत्री	एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६७	196 5.2.02	ग्राम एवं पो.आ. देउलुची धाना रीगिया जिला कामरूप ।
85650	खन्दाकर गोलप हुसैन मो. शर्मसिल हक	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६२	147 30.3.01	गिरीफगंज पीएचसी पो.आ. नयागँव, जिला करीमगंज ।
85651	खोनुओ मारी विलासली बेलहो	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	273 20.6.03	मिशन कम्पाउण्ड टी. खेल, पो.आ. एवं धाना कोहिमा, जिला कोहिमा ।
85652	कुमारेश सर्मा नलिनी.कान्त सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	279 20.6.03	ग्राम खुदा भालुकी पो.आ. भालुकी, धाना प्रताचकुची, जिला बरपेटा ।
85653	कुमुद सर्मा स्व. कलि प्रसाद सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६४	162 26.7.01	ग्राम एवं पो.आ. मेरुआ पो.आ. हाजो, जिला कामरूप ।
85654	लाबा देव गोस्वामी दीना नाथ गोस्वामी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६७	155 24.5.01	नजिरा एस.एच.सी. पो.आ. एवं धाना नजिरा, जिला सिबसागर ।
85655	लख्य ज्योति सर्मा स्व. होश्वर सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६७	87 18.8.2000	ग्राम एवं पो.आ. भोकेटी कन्डा धाना कलैलगँव, दर्रांग
85656	लख्य कुमार हाण्डिक कान्थी राम हाण्डिक	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	96 16.9.2000	धेमाजी सिविल अस्पताल पो.आ. एवं धाना धेमाजी, जिला धेमाजी ।
85657	ललितपुर जमन मो. अमजद अली	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	128 24.1.01	बरमा रोड, पो.आ. एवं धाना नलबारी, जिला नलबारी ।

85658	लोलाधर ब्रह्मा स्व. अर्जुन च. ब्रह्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६८४	267 5.6.03	भक्तपारा स्टेट डिस्पेंसरी पो.आ. भक्तपारा, दरंग
85659	लुकुमोनी दत्ता कुशोत्तर दत्ता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	256 29.11.02	ग्राम अमलापथी पो.आ. एवं धाना धकुआखाना, जिला लखीमपुर ।
85660	लुतफ़ोर रहमान इबादुल्लाह सारफ़र	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	236 26.11.02	बी.एन. कलेज रोड, पो.आ. विद्यापारा, धाना एवं जिला धुबरी ।
85661	मिताली ब्रह्मा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	227 25.7.02	ईस्ट गोसाला मालीगाँव रेलवे क्वार्टर नं. ८२/बी, गुवाहाटी ।
85662	मधु प्रसाद एस.जी. प्रसाद	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	126 24.1.01	फ़ोरेस्ट गेट, नोनजी पो.आ. एवं धाना नूनमति, जिला कामरूप ।
85663	मधुसूदन कलिता महेन्द्र कलिता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	199 5.2.02	ग्राम एवं पो.आ. झारकुची, धाना रंगिया, जिला कामरूप ।
85664	महेश च. दास रामेश्वर दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६८७	64 14.6.2000	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जालुकुबारी, *धाना जालुकुबारी, जिला कामरूप ।
85665	मालाबिका ताईद पी.एन. ताईद	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	108 8.12.2000	ग्राम एवं पो.आ. नोर्थ लखीमपुर धाना नोर्थ लखीमपुर, जिला लखीमपुर ।
85666	मलय कुमार राय स्व. जगधर राय प्रधानी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	231 21.11.02	ग्राम नलिया पो.आ. दिमाकुरी, धाना मोलकांज, जिला धुबरी ।



85667	मलय रंजन देव मुकुल रंजन देव	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६१	104 25.01.01	ग्राम बिस्वरी बाजार पो.आ. गोपीनाथ नगर धाना पल्टन बाजार, जिला कामरूप ।
85668	ममता मिश्रा पुरोहित भंवर लाल पुरोहित	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६७	21 20.12.99	तत्पुर्ण नगर, पो.आ. दिसपुर, धाना दिसपुर, जिला कामरूप ।
85669	मानसीव्योति सर्मा स्व. मदन सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	192 6.12.01	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जालुकुबारी ।
85670	मणिराम कलिता करकतु कलिता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६८६	25 28.3.2000	झांजी, पो.आ. झांजी, धाना गौरीसागर, जिला सिबसागर ।
85671	मनिन्द्र धर सर्मा महि धर सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६८८	346 27.8.04	ग्राम बोनगईगैव धाना बोनगईगैव, जिला जिला बोनगईगैव ।
85672	मनीर उद्दीन देवान अब्दुल अजीज देवान	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	201 5.2.02	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, गुवाहाटी ।
85673	मनोज कठर जयनाथ कठर	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	278 20.6.03	ग्राम बागीबारी, पो.आ. हहारा, पो.आ. खेन्नी जिला कामरूप ।
85674	मन्तु बोराह स्व. किरण च. बोराह	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	168 24.9.01	ग्राम सान्तीपुर पो.आ. सान्तीपुर, धाना बरमा, जिला नलबारी ।
85675	मन्तु दास महेस्वर दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	119 29.12.2000	ग्राम काजीपारा पो.आ. एवं धाना नलबारी, जिला नलबारी ।

85676	मयंगलम्बम विजयलक्ष्मी देवी एम. बिरेन सिंह	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	223 20.7.02	कक्राचिंग खुलेन पो.आ. एवं थाना कक्राचिंग, जिला मेउबल, मणिपुर ।
85677	मो. अब्दुल सत्तार मो. अताउर रहमान	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६४	41 30.3.2000	करीमगंज रोड, पो.आ. एवं थाना बरपुर, जिला करीमगंज ।
85678	मो. अबुल हुसैन मो. अब्दुल कबीर खान	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६२	242 26.11.02	चापर ३० वेडेड रुतल अस्पताल, पो.आ. चापर, जिला धुबरी ।
85679	मो. अशद उल्लाह स्व. हसमत अली	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	197 5.2.02	गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कालेज, गुवाहाटी ।
85680	मो. हबीबुर रहमान खान मो. अब्दुल अहद खान	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	206 5.2.02	ग्राम एवं पो.आ. सहरियागोव थाना मोइराबती, जिला मोरीगोव ।
85681	मो. मोसलेम उद्दीन अब्दुस सोमान	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६२	146 2.3.01	कलिंगंज पी एच सी पो.आ. कलिंगंज बाजार जिला करीमगंज
85682	मो. नूरुल इस्लाम मो. तफजुल अली	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	246 26.11.02	ग्राम मर्काज रोड, पो.आ. एवं थाना होबल, जिला नाँव ।
85683	मीनाक्षी ककोती डी.एन ककोती	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	110 8.12.2000	ग्राम एवं पो.आ. बोंगशार थाना सुआलकुची, जिला कामरूप ।
85684	मेहदी हसन सलेह उद्दीन अहमद	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	260 27.1.03	कालेज रोड पो.आ. बिद्यापारा, थाना एवं जिला धुबरी ।

85685	मीर मो. जिन्ना तालुकदार मो. मोअज्जम हुसैन तालुकदार	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६६	280 4.9.03	ग्राम मतिबाग पो.आ. एवं थाना गौरपुर, जिला धुबरी ।
85686	मोकीबुल अलेम जोहन अब्दुल वहाब	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	233 21.11.02	ग्राम देवरगोव, पो.आ. ककरीपारा थाना मनकावर, जिला धुबरी ।
85687	मोनिस्ल इस्ताम सरकार मो. मोहोसलुन अली सरकार	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६८	8 16.12.99	होस्टल नं.१, जी.ए.सी., गुवाहाटी ।
85688	मोतीउर रहमान मोईन उद्दीन	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६५	318 26.2.04	ग्राम पबिजुरी पो.आ. बुरुनगोट बाजार, थाना मुरावर, जिला नाँव ।
85689	मौशुमी शर्मा भवेश चन्द्र शर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	258 29.11.02	ग्राम अमलापथी चार अली पो.आ. एवं थाना डिबरूगढ, जिला डिबरूगढ ।
85690	मृदुल बोरा नारायण च. बोरा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	316 18.2.04	ग्राम एवं पो.आ. बोलचुक थाना एन सखीमपुर, जिला नोर्थ लखीमपुर ।
85691	मृदुल बोरठाकुर जादव बोरठाकुर	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९८५	169 24.9.01	ग्राम एवं पो.आ. बरूआ बामुनगोँव, थाना देरगोँव, जिला गोलाघाट ।
85692	मृदुल देवरी स्व. बुदा राम देवरी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६६	93 16.9.2000	धेनाजी आयुर्वेदिक क्लीनिक पो.आ. एवं थाना धेमाज, जिला धेमाज ।
85693	मृदुल रंजन देव मृदुल रंजन देव	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६६	102 10.10.2000	ग्राम बिल्बरी, पो.आ. गोपीनाथ नगर, थाना पल्लन बाजार, जिला कामरूप ।

85694	भृगुस्मिता सुत देव राम सुत	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	313 3.2.04	प्रियदर्शिनी प्रिन्स होस्टल, जीएसी जीएचवाई ।
85695	मृणाल वैश्य नरेन्द्र नाथ वैश्य	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	240 26.11.02	ग्राम सुब्रह्मरिया पारा पो.आ. बराला खाट धाना खोईपारी, जिला दरंग ।
85696	मृणाल कान्त अधिकारी शिवेन्द्र नाथ अधिकारी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	232 21.11.02	ग्राम साउथ टोकोरोचारा पो.आ. एवं धाना गोलकगंज, जिला धुबरी ।
85697	मुक्ता धर सर्मा महिधर सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९८५	263 10.4.03	भालुकी सब सेंटर, पो.आ. भालुकी, धाना पताचकुची, जिला बरपेटा ।
85698	मुकुल चन्द्र सर्मा उमा सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९८२	30 30.3.2000	गोरेखर पीएचसी पो.आ. गोरेखर, धाना गोरेखर, जिला कामरूप ।
85699	मुकुल चक्रवर्ती समीर चक्रवर्ती	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००३	339 19.6.04	ग्राम लंका पो.आ. एवं धाना लंका, जिला नौगाँव ।
85700	मुकुल सर्मा गिरिन्द्र नाथ सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	234 21.11.02	ग्राम एवं पो.आ. पताचकुची, धाना पताचकुची, जिला बरपेटा ।
85701	मुस्ताज अली अब्दुल मलिक	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९८६	118 29.12.2000	ग्राम ज्योति सिनेमा हाल रोड, लुमडिय पो.आ. एवं धाना लुमडिय जिला नगाँव ।
85702	मुनमी दास कमला दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	292 12.1.04	ग्राम एवं पो.आ. अजारा धाना अजारा गुवाहाटी, जिला कामरूप ।

85703	नबा कुमार हजारीका स्व. लोकनाथ हजारीक	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९६३	221 20.7.02	ग्राम गभारा पो. आ. हुनी, थाना सिपाइर, जिला-दर्रांग
85704	नबा कुमार नाथ जुदुराय नाथ	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९६७	2 16.12.99	निज सराबरी, पो. आ. दूथानी घाट, थाना खैराबरी, जिला दर्रांग ।
85705	नवज्योति तालुकदार कन्दरपारा कैआर. तालुकदार	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९६७	77 20.7.2000	ग्राम एवं पो. आ. धीरेनपारा पो. आ. फासिल अम्बारी, जिला कामरूप ।
85706	नवीन चन्द्र मालाकर स्व. महेंद्र मालाकर	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९६७	154 24.5.01	ग्राम सतवाला पो. आ. एवं थाना हाजो, जिला कामरूप ।
85707	नांग रूमी चौलु देव प्रसन्ना चौलु	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी २००३	334 19.6.04	चरक औषधालय मिथेन गेट, पो. आ. इटानगर, थाना इटानगर, जिला पापुमपारा ।
85708	नारायण मोधी प्रवीन मोधी	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी २०००	153 22.5.01	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय पो. आ. एवं थाना जालुक्बारी, जिला कामरूप ।
85709	नसेर अली अकन्द सेराजुल हक अकन्द	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९६०	325 26.3.04	ग्राम नयापारा पो. आ. एवं पी एस बोनाईगॉव, जिला बोनाईगॉव ।
85710	नजिया महजबीन हबीबुर रहमान	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी २००१	235 26.11.02	जी. एस. रोड, पो. आ. एवं थाना दिसपुर जिला कामरूप ।
85711	नजीर हुसैन खान मो. अहमद हुसैन खान	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी २००१	265 24.4.03	ग्राम हरिपुर, पो. आ. बहरिहट, थाना ताराबारी, जिला बोरपेटा ।

85712	नजमा अहमद मो. एजाजुद्दीन अहमद	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६७	53 6.4.2000	ग्राम एवं पो.आ. जापरीगोम, थाना दिसपुर, जिला कामरूप ।
85713	नजमुल हक मोन्दल अब्दुल हामिद मोन्दल	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	307 3.2.04	प्रगति नगर वार्ड नं.१४, पो.आ. खातिलपुर, जिला धुबरी ।
85714	नीलाक्षी देव चौधरी मोहिनाथ देव चौधरी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	29 30.3.2000	सुबी प्राक्कशी लक्ष्मीनगर, पो.आ. उलुबारी, थाना उलुबारी, जिला कामरूप ।
85715	निबुल कुमार. गोगोई स्व. तेजेश्वर गोगोई	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६०	85 18.8.2000	ग्राम हटीगोव पो.आ. एवं थाना दिसपुर, जिला कामरूप ।
85716	नितंजना उजौर द्विपेन्द्र नाथ उजौर	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	176 6.12.01	ग्राम बामुनपारा दामोदर नगर, पो.आ. लखरा, थाना बसिस्टा, जिला कामरूप ।
85717	निल कुमार दास कान्ती राम दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	311 3.2.04	ग्राम एवं पो.आ. बैग्रहा थाना शलकुची, जिला कामरूप ।
85718	निर्मली दास अश्विनी प्रसाद दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	222 20.7.02	बीरकुची चैरी, गुवाहाटी, कामरूप ।
85719	नितेन बर्मन महेश्वर बर्मन	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६८	22 23.12.99	ग्राम पोनारकोमिया पो.आ. बोराजल, थाना धोगरापार, जिला नलबारी ।
85720	निवेदिता देवी स्व. निवानन्द नाथ	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	175 6.12.01	मर्त्स होस्टल, जीएसी, जलुबारी ।

85721	नृपोन दास देबोन दास	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी २०००	194 6.12.01	ई. जी. नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड, नरेंगी तिनाली, गुवाहाटी ।
85722	मुस्ल इस्लाम ख. हाजी बहर उद्दीन	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी २०००	183 6.12.01	ग्राम बोईनपारा पो. आ. फुलेर चर थाना साउथ सलभारा, जिला धुबरी ।
85723	मुस्ल इस्लाम मो. मोनसेन अली	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी २००३	337 19.6.04	डा. जेसीबी लइक्के का छात्रावास नं. १, थाना जालुक्बारी, जिला कामरूप ।
85724	ओम गैतम मेधी खगेन मेधी	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९९९	213 4.4.02	ग्राम एवं पो. आ. एवं थाना. बरामा, जिला नलबारी ।
85725	ओरीवेल करमसा जोहनसिंग करमसा	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी २००१	224 20.7.02	ग्राम उप. रोगकुरोई पो. आ. सतागँव, थाना बैठलांगसो, जिला कारबी अंगलौंग ।
85726	ओसमान गौरी अब्दुर रहमान	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९९०	264 10.4.03	सिविल अस्पताल, धुबरी ।
85727	पबित्र राम दास बन्ती राम दास	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९९४	165 12.9.01	ग्राम नहरबारी, पो. आ. मजरौमारी, थाना धेकियाबुली, जिला सोनितपुर ।
85728	पाक्रीजा परवीन मो. जमीर उद्दीन अहमद	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९९८	1 16.12.99	गर्ल्स होस्टल, जीएसी, गुवाहाटी, जिला कामरूप ।
85729	पल्लवी बोराह द्विजेन्द्र एन. बोराह	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९९८	300 12.1.04	द्वारा डी. एन. बोराह जीएसआई, टीसीडी (ए)

85730	पामशांग पाल टी. मंगछप	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	277 20.6.03	ग्राम खांगबुई खुल्लेन, पो.आ. एवं थाना उखल्ल, जिला उखल्ल, मणिपुर ।
85731	पंकज चन्द्र बैश्य भाबिन चन्द्र बैश्य	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९०	210 4.4.02	ग्राम एवं पो.आ. एवं थाना खोईराबारी, जिला दरंग ।
85732	पंकज कुमार. बर्मन बापू राम बर्मन	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९६	83 20.7.2000	ग्राम एवं पो.आ. एवं थाना मुक्लमुआ, जिला नलबारी ।
85733	पंकज कुमार कलिता स्व. हरपति कलिता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९५	205 5.2.02	रंगिया वार्ड नं. ५, पो.आ. एवं थाना रंगिया जिला कामरूप ।
85734	पिंकी चौधरी कृष्णा प्रसाद चौधरी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९८	9 16.12.99	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जीएचवाई, जिला कामरूप ।
85735	प्रवीर चौधरी नेनेन चौधरी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९४	212 4.4.02	ग्राम कोकराझार कालेज रोड, पो.आ. एवं थाना कोकराझार, जिला कोकराझार ।
85736	प्रदीप चन्द्र कोंवर कुमुद च. कोंवर	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९२	86 18.8.2000	ग्राम अहुचन्द्रगोंव, पो.आ. एवं थाना नोर्थ लखीमपुर, जिला लखीमपुर ।
85737	प्रदीप ज्योति सर्मा देबेन्द्र नाथ सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९४	329 10.5.04	ग्राम बरागोंव, पो.आ. देवकोटा नगर, जिला कामरूप ।
85738	प्रदीप कुमार गोस्वामी स्व. पूर्ण चन्द गोस्वामी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९८	52 6.4.2000	लेखर, डिपार्टमेन्ट आफ संस्कृत संहिता एवं सिद्धान्त, जीएसी, जातुकुबारी ।



85739	प्रदीप कुमार. सर्मा महेन्द्र सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६८३	34 30.3.2000	गरोनगर (शंकर देव नगर) पो.आ. रोमिया, धाना रोमिया, जिला कामरूप ।
85740	प्रणब वरुआ मिताधर वरुआ	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६४	324 26.3.04	ग्राम ज्योति नगर पो.आ. एवं धाना रोमिया, जिला कामरूप ।
85741	प्रणब सर्मा नरनाथ सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६३	159 26.7.01	ग्राम एवं पो.आ. बतसोर, धाना बेलसोर, जिला नलबारी ।
85742	प्रणबज्योति दास बिरेन्द्र चन्द्र दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६८	16 16.12.99	ग्राम एवं पो.आ. गोटानगर गुवाहाटी, जिला कामरूप ।
85743	प्रेमलता देवी दक्केश्वर सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००३	335 19.6.04	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, धाना जालुक्बारी, कामरूप ।
85744	पुष्पा रानी खोरिया अरुण कुमार. खोरिया	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	333 19.6.04	ग्राम बोनारखोवा पो.आ. एवं धाना गोलाघाट, जिला गोलाघाट ।
85745	रबती कुमार बासुमातरी मृगेन्द्र बासुमातरी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	167 12.9.01	ग्राम एवं पो.आ. दरंगिरी धाना रंजुली, जिला गोयलपारा ।
85746	रबेन काकती स्व. विपिन काकती	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६२	203 5.2.02	खोवंग पीएचसी पो.आ. एवं धाना खोवंग, जिला डिब्रुगढ़ ।
85747	राधा जाखरिया एन.सी. जाखरिया	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी	296 22.1.04	डा. डी.जाखरिया, पो.आ. एवं धाना अजारा ग्राम देवरीपारा, जिला कामरूप ।

85748	राहुल दबनाथ रतन चन्द्र देवनाथ	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	123 24.1.01	स्टेशन रोड, पो.आ. बाटादबा, पो.आ. धीम, जिला नगोंव ।
85749	राईनी देवी सोमेश्वर नाथ	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	293 12.1.04	द्वारा कल्याण नाथ प्लैट नं.३०२, मेममाल्लर अपार्टमेंट, लतासिल, उजनबाजार ।
85750	राजीव कुमार शर्मा जिवेश्वर शर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	193 6.12.01	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जालुक्बारी
85751	राजू कुमार दास तुलसी राम दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	6 16.12.99	होस्टल नं.१, जी.ए.सी., गुवाहाटी ।
85752	रमनी मालाकर स्व. लाबा कुमार. मालाकर	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६२	73 12.7.2000	सनेकुची स्ट्रीट डिप. पो.आ. सनेकुची, जिला नलबारी ।
85753	रमेन डेका केशव चन्द्र डेका	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	250 26.11.02	क्षुद्रसंकर पो.आ. गोपालथन, थाना एवं जिला नलबारी ।
85754	रमेन सैकिया मीना राम सैकिया	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	49 30.3.2000	ग्राम एवं पो.आ. बैहाटा थाना कमलपुर, जिला कामरूप ।
85755	रमेज उद्दीन स्व. मुस्लिम उद्दीन	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	120 22.12.2000	ग्राम आनन्दपुर पो.आ. मजगोंव, थाना एवं जिला बरपेटा ।
85756	रणजीत कुमार दास महेन्द्र नाथ दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	186 6.12.01	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जालुक्बारी, गुवाहाटी ।

85757	रंजू वरूआ हरिवरण वरूआ	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६५	225 25.7.02	ग्राम एवं पो.आ. कदुबारी, थाना तामुलपुर, जिला नलबारी ।
85758	रेनू चेदरी मोतीलाल चेदरी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	249 26.11.02	ग्राम तैतेलिया पो.आ. गंधीनगर, थाना छेत्री, कामरूप ।
85759	रतन कुमार दास कमलेश्वर दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६५	217 20.7.02	ग्राम पतियरपारा पो.आ. दरंगिरी, थाना रंजूली, जिला गोलपारा ।
85760	रत्ना बोराह तारक बोराह	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६८	38 28.3.2000	जी.ए.सी. गुवाहाटी, जलकुबारी, जिला कामरूप ।
85761	रतुल स्लोई स्व. लंकेश्वर स्लोई	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६३	229 25.9.02	बलिपारा पीएचसी पो.आ. बलिपारा, जिला सोनीतपुर ।
85762	रोशनारा अहमद रहजुद्दीन अहमद	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	187 6.12.01	गंधी नगर, पो.आ. एवं थाना एवं जिला बारपेटा ।
85763	रघुपति भराती टंकेश्वर भराती	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	291 12.1.04	टी. भराती जियोलेजिकल सर्वे आफ इंडिया गणेशपुरी, जिला कामरूप ।
85764	रुक्मिणी खानम स्व. मोजोतिर अली	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६८	11 16.12.99	ग्राम एवं पो.आ. लामाजोर जिला करीमगंज ।
85765	रुमी दास महेश चन्द्र दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६८	14 16.12.99	ग्राम एवं पो.आ. बारमबोई, जिला कामरूप ।

85766	रुनुमी बोरा अरुण चन्द्र बोरा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	276 19.6.03	ग्राम खानामुख पो.आ. धारापुर थाना अजारा, जिला कामरूप ।
85767	रुपम कुमार. पाठक दक्षिण चन्द्र पाठक	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६६	71 17.6.2000	ग्राम एवं पो.आ. एवं थाना डेरगोव, जिला मोतापट ।
85768	रुपरेखा दत्ता करोसवर दत्ता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	180 6.12.01	ग्राम एवं पो.आ. मोइदोमिया थाना नोर्थ लखीमपुर, जिला लखीमपुर ।
85769	सबिन कलिता भूबन कलिता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६२	24 28.3.2000	मारा बाजार पी एच सी पो.आ. माराबाजार, जिला सिबसागर ।
85770	सदिकुर रहमान मो. हबीबुर रहमान	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	189 6.12.01	ग्राम अधखुद्रा पो.आ. एवं थाना जुरिया, जिला नगाँव ।
85771	सफीकुद्दीन अहमद मो. क़ुतुबुद्दीन अहमद	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	274 20.6.03	ग्राम एवं पो.आ. बलिकुची, थाना मुकलमुआ जिला नतबारी ।
85772	सहाबुद्दीन अहमद नजिबु अहमद	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६४	23 28.1.2000	ग्राम बिहडिया पो.आ. सोनियादी, थाना हजो, जिला कामरूप ।
85773	सैदुल इस्लाम मो. अमीर अली	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६७	68 12.7.2000	ग्राम एवं पो.आ. लोहारकथा थाना मुकलमुआ, जिला नतबारी ।
85774	सैफुल हक हफेज उद्दीन अहमद	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९६८	17 16.12.99	ग्राम शेरनगर, पो.आ. अगोमणि, जिला धुबरी ।

85775	सलिम खानम अहमद गियासुद्दीन अहमद	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	288 12.1.04	ग्राम अमगुरी कलेज, तिनाली पो.आ. एवं धाना अमगुरी, जिला सिबसगर ।
85776	समसुल हक अब्दुल बरेक	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	178 6.12.01	ग्राम बतारतरी, पो.आ. चेनीमारी, धाना तारतरी, जिला बारपेटा ।
85777	सन्दीप नाथ स्व. दुलाल चन्द. नाथ	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९६	61 12.7.2000	ग्राम एवं पो.आ. मोहनदेवपुर, धाना कटोपोगाह, जिला कछार ।
85778	संगीता गिरी राम भगवन्त गिरी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९९	281 26.9.03	फ्लैट नं. १०२, मा दुर्गा अपार्टमेन्ट जगन्दा चौक, नन्दनवन, नागपुर ।
85779	संजय कुमार पत्तगिरी स्व. भोगीराम पत्तगिरी	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९९	172 2.11.01	ग्राम एवं पो.आ. बामाखटा धाना पाठशाला, जिला बारपेटा ।
85780	संजीव कुमार दास गुपेन्द्र चन्द्र दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	261 27.1.03	ग्राम सतखापारी पो.आ. बारपक, धाना मयंग, जिला मेरीगोंव ।
85781	संजीव कुमार सर्मा राम चन्द्र सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९८	10 16.12.99	होटल नं. १, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, गुवाहाटी ।
85782	संकर ज्योति दास पदेश दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९६	198 5.2.02	ग्राम एवं पो.आ. बोगशहर, धाना सोअलकुची, जिला कामरूप ।
85783	सतीश तालुकदार स्व. कलिकारा तालुकदार	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९८७	69 11.9.2000	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जालुम्बारी, धाना जालुम्बारी, कामरूप ।

85784	शालिनी बंसल हरस्वरूप बंसल	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६७	59 12.7.2000	एम आर डी रोड, पो.आ. एवं धाना चान्दमारी, जिला कामरूप ।
85785	शमसुल आलम अहमद अब्दुल गोफुर	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	112 8.12.2000	ग्राम चानपुर, पो.आ. बलिकुरी, धाना बाबबार, जिला बरपेटा ।
85786	शान्तनु कुमार सन्याल तुषार कान्ती सन्याल	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६७	160 26.7.01	ग्राम बोर्दुबा तुप, पो.आ. भुरागांव, धाना लहरीघाट, जिला मरिगांव ।
85787	शराफोत आलम मो. नुजामुद्दीन	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	270 9.6.03	ग्राम सुन्दरबारी, पो.आ. एवं धाना जालुकुबारी, जिला कामरूप ।
85788	शशि सोनोवाल स्व. तिलोत्तम सोनोवाल	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६९	105 8.12.2000	ग्राम नौबोईचा पी.एच.सी. पो.आ. नौबोईचा, धाना नैथं लखीमपुर, जिला लखीमपुर ।
85789	शेख वन्द मोहम्मद असर अली अहमद	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	200 5.2.02	ग्राम दम्भमा पथर पो.आ. रामपुर धाना मुकलमुआ, जिला नलबारी ।
85790	शैवली परबीन अब्दुस सत्तार	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	184 6.12.01	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जालुकुबारी ।
85791	शिरिन नैशा मो. अब्दुल खासिक	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००३	336 19.6.04	प्रियदर्शिनी गर्ल्स होस्टल नं.२, जी ए सी, गुवाहाटी ।
85792	श्यामन्ता कुमार कलिता श्री परतुल कलिता	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६४	३४ 16.9.2000	ग्राम बाटकुची पो.आ. जामदोला, धाना रसिया, जिला कामरूप ।

85793	सिद्धार्थ तालुकदार बैकुण्ठ राम तालुकदार	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९६६	122 24.1.01	ग्राम मलिकुची पो. आ. बिदयापुर, थाना एवं जिला नलबारी ।
85794	सोफिर रहमान अब्दुल क़ुदुस सिकदार	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९६५	44 30.3.2000	ग्राम चालासेरसो पो. आ. चालासेरसा, थाना साउथ सलमारा, जिला धुबरी ।
85795	सोलिम सुल्तान पो. सुल्तान हुमायूँ	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी २००३	347 14.8.04	सान्तीपुर नलबारी टाउन वाई नं. ७, ग्राम एवं पो. आ. एवं थाना नलबारी ।
85796	सोन्ताशिमा नाथ स्व. विनेश चन्द्र नाथ	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी २००३	181 6.12.01	ग्राम उदलबाकरा पो. आ. लालगणेश, थाना दिसपुर, जिला कामरूप ।
85797	सुधीर कुमार भट्टाचार्य सुशील चन्द्र भट्टाचार्य	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९८५	130 6.2.01	डिब्रुगढ़ स्टेट डिस्पेंसरी, पो. आ. एवं थाना डिब्रुगढ़ जिला डिब्रुगढ़ ।
85798	सुजीत ज्योति साहिल्य दिम्बेस्वर बरठाकुर	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी २००३	344 19.6.04	ग्राम एवं पो. आ. बारागाबारी थाना गोहरपुर, जिला सोनितपुर ।
85799	सुकुमार दास श्री गिरिन दास	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी २०००	150 22.5.01	ग्राम एवं पो. आ. नहिरा थाना पालसबारी, जिला कामरूप ।
85800	सुमन विश्वास सुनील चन्द्र विश्वास	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९६७	67 12.7.2000	श्रीदुर्गा सारणी पो. आ. मेहरपुर, थाना सिल्वर, जिला ककर ।
85801	सुरेश स्वर्गियारी गजेन स्वर्गियारी	बी. ए. एम. एस. गुवाहाटी वि. वि., गुवाहाटी १९६८	304 3-2-04	ग्राम एवं पो. आ. नाथकुची थाना टिड्डु, जिला नलबारी ।

85802	स्वप्नानी दास गणपति दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	191 6.12.01	ग्राम बिष्णुपुर पो.आ.भेल्ता, धाना एवं जिला बरोपेटा ।
85803	स्वप्नानी सर्मा नारायण सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००३	331 19.6.04	ग्राम लखीमी नगर पो.आ. गोपाल बाजार, धाना एवं जिला नलबारी ।
85804	सैयदा सबिना सुल्ताना सैयद ताहेरुद्दीन अहमद	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	259 29.11.02	ग्राम सान्तीपुर, पो.आ. एवं धाना नलबारी, जिला नलबारी ।
85805	सैयदा सेमिन इस्लाम सैयदा फाखमी इस्लाम	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९५	56 17.5.2000	एम.बी. रोड, तांगला पो.आ. एवं धाना तंगिया, जिला दरंग ।
85806	ताफिजुद्दीन अहमद सैयद जमालुद्दीन अहमद	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९४	133 9.2.01	ग्राम सिलभाल पो.आ. शंखसारी धाना कमलपुर, जिला कामरूप ।
85807	तारिफ हुसैन वाज उद्दीन अहमद	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९७	66 12.7.2000	ग्राम पांडमाथारा, पो.आ. जटरडिया, धाना ताराबरी, जिला बरोपेटा ।
85808	तिकाबा जैमै तलि आओ	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	195 6.12.01	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जालुइबारी
85809	तिकेन्द्रजीत सर्मा ललित वन्दर सर्मा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९४	46 30.3.2000	खरसुली धाना लतासिल, जिला कामरूप ।
85810	तुषार कान्ती मंडल राम नारायण मंडल	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १९९५	282 26.9.03	द्वारा अशोक कुमार मंडल रेलवे क्वार्टर नं. ५८/०३, बीबीसी कालोनी, पो.आ. पांडु, पी एस जालुकारी, गुवाहाटी ।



85811	तुतुमणि सैकिया के.एन. सैकिया	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २०००	179 6.12.01	ग्राम एवं पो.आ. एवं थाना धालीगौव, जिला बोनगइगौव।
85812	उमेश कुमार सिंघा स्व. माया कुमार. सिंघा	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६३	164 7.8.01	सप्तग्राम एस एव सी जिला धुवरी।
85813	उपेन राजबोशशी जोगेन दास	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००१	255 29.11.02	ग्राम कृष्णानगर, पो.आ. जगरीगोव, थाना दिसपुर, कामरूप।
85814	उत्पल ज्योति मजुमदार धीरेन्द्र कुमार. मजुमदार	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६५	319 1.3.04	ग्राम हेगराबारी, पो.आ. एवं थाना दिसपुर, जिला कामरूप।
85815	वटिका दूबे हर्षिकेश दूबे	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी २००२	306 3.2.04	आर. एवं डी. डिपार्टमेंट आयल इंडिया डुलियाजन, जिला डिब्रुगढ़।
85816	वशिष्ठ मुरली मनोहर केसरी सूज नारायण सिंह	बी.ए.एम.एस. गुवाहाटी वि.वि., गुवाहाटी १६६६	95 16.9.2000	ग्राम उदयगिरी पो.आ. नारंग थाना नूनमति, जिला कामरूप।

11

No:

MINISTRY OF LABOUR  
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION  
(HEAD OFFICE)

New Delhi-110066, the 2005  
No. 2/1959/DLI/Exemption/89/Pt. I—

S.O. \_\_\_\_\_ whereas

the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (herein after referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers offered by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed here to, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi from the operation of said scheme for a period of 3 (three) years.

Contd...2

**SCHEDULE-I**

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of the establishment	Period of Exemption	
			From	To
1	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.II/399 Dt. 08-06-04	M/s. Jain exports Pvt. Ltd. (DL/3757)	01-08-04	31-07-07
2	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.II/399 Dt. 08-06-04	M/s. Rashi Exports (DL/12152)	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
3	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.II/1002 Dt. 15-10-04	M/s. Dex Travel Pvt. Ltd. (DL/10788)	01-10-04	30-09-07
4	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/1000 Dt. 28-05-02	M/s. Kosha Dynamics Ltd. (DL/9014)	01-12-04	30-11-07
5	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/5292 Dt. 16-02-01	M/s. Utility Forms Pvt. Ltd. (DL/9409)	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
6	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/1000 Dt. 28-05-02	M/s. Westfalia Sperator (I) Pvt. Ltd. (DL/13526)	01-09-04	31-08-07
7	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/1002 Dt. 15-10-04	M/s. Sonar International (DL/11124)	01-06-04	31-05-07
8	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/2659 Dt. 15-11-00	M/s. Orient Graft Ltd. (DL/15629)	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
9	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/1000 Dt. 28-05-02	M/s. Abro Balancing Machines (P) Ltd. (DL/4591)	01-11-04	31-10-07
10	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/984 Dt. 12-10-04	M/s. Hill Guard Services (P) Ltd. (DL/9188)	01-03-04	28-02-07
11	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.II/1002 Dt. 15-10-04	M/s. J. V. Electronics (P) Ltd. (DL/3832)	06-04-04	05-04-07
12	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.II/1002 Dt. 15-10-04	M/s. Bao Nishi Services (P) Ltd. (DL/13486)	24-06-03	23-06-06
13	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/1000 Dt. 28-05-02	M/s. Radicura Pharmaceuticals (P) Ltd. (DL/6705)	24-06-03	23-06-06

**SCHEDULE-II**

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of Insurance premium, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the notice board of the establishment, copy of the Rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Govt./ Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.
5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of an establishment Exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable at the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain his point of view.

9. Therefore, any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for the payment of Insurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s), legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

Dr. A. K. CHANDOK  
Regional P.F. Commissioner (Co-ord.)

F.5/Notification

JAMIA MILLIA ISLAMIA

ugust, 2005

New Delhi-110025, the 24th August 2005

(Office of the Registrar)

No. F. 5/Notification/L&amp;O/JMI—

This is to notify for information of all concerned that the President of India, in his capacity as the Visitor of Jamia Millia Islamia has been pleased to accord his assent for amendments/addition to the existing Statutes 17 for creating and adding a new Faculty namely "The Faculty of Architecture and Ekistics", as conveyed by the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary and Higher Education), vide their letter F. No. 6-10/2004-Desk(U) dated 9<sup>th</sup> August, 2005.

This amendment was approved by the Executive Council vide its Resolution No. 5 dated 12.2.2004 and Resolution No. 21 dated 4.3.2005.

The name of the Faculty will be mentioned at Serial No. 17(vii) as "The Faculty of Architecture and Ekistics" and the last serial will be re-numbered as (viii) retaining the same phraseology.

S. M. AFZAL  
Registrar

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

(S.M. Afzal)

The Annual Accounts of the Jawaharlal Nehru University for the year 2003- 2004 and the Audit Certificate thereon are hereby published as required under sub-section (2) of the Section 20 of the Jawaharlal Nehru University Act, 1966 (53 of 1966).

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - I MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT**

RECEIPTS	(Figures in rupees)	
	Previous Year	Current Year
<b>REVENUE ACCOUNT</b>		
<b>Opening Balance -</b>		
Imprest	89,175	1,00,800
Cash in Hand	11,076	0
Cash in Bank -		
i) Grants from UGC	10,37,57,336	14,86,27,580
ii) University Receipts	98,37,665	2,63,25,130
	<b><u>11,36,95,252</u></b>	<b><u>17,50,53,510</u></b>
<b>I GRANTS -</b>		
<b>University Grants Commission</b>		
i) Maintenance (Block) Grant	57,77,67,000	52,70,08,000
ii) Special Repair of Buildings	1,00,00,000	3,73,42,000
iii) Special grant for overhead tank	0	50,00,000
	<b><u>58,77,67,000</u></b>	<b><u>56,93,50,000</u></b>
<b>II FEES FROM STUDENTS</b>		
Academic	1,14,01,332	1,05,77,949
Examinations	69,370	71,115
Others	66,711	51,108
	<b><u>1,15,37,413</u></b>	<b><u>1,07,00,172</u></b>
<b>III HOSTEL FEES</b>	6,89,485	6,80,377
<b>IV INCOME FROM LAND,BUILDING AND OTHER PROPERTY -</b>		
i) Rent from Staff Quarters	24,30,956	23,24,998
ii) Rent from Guest Houses	25,30,630	23,46,659
iii) Rent from Shops	32,25,900	34,70,584
iv) Rent from accommodation leased to State Bank of India.		
ICHR and Post Office etc.	6,63,497	6,94,021
v) Gomati Guest House	13,60,973	12,27,762
	<b><u>1,02,11,956</u></b>	<b><u>1,00,64,024</u></b>
<b>V PUBLICATION (Royalties)</b>	1,68,231	1,56,599
<b>VI MISCELLANEOUS -</b>		
i) Sale of tender forms and Newspapers etc.	1,06,288	1,40,429
ii) CGHS Recoveries	12,37,515	12,31,546
iii) Other Receipts	1,94,65,387	36,61,835
	<b><u>2,08,09,190</u></b>	<b><u>50,33,810</u></b>
<b>VII SALE OF ADMISSION FORMS AND ENTRANCE EXAMINATION FEES</b>	1,98,63,341	1,91,54,934

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - I MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT**

		(Figures in rupees)	
		Previous year	Current Year
<b>PAYMENTS</b>			
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION -</b>		
i)	Vice-Chancellor's Office	20,69,221	20,25,120
ii)	Rector's Office	20,12,085	27,25,837
iii)	Registrar's Office	2,32,80,736	2,35,48,456
iv)	Finance and Accounts Deptt. (Including Internal Audit)	1,54,60,991	1,64,90,636
v)	Dean's Administration	32,17,390	96,72,442
		<b><u>4,60,40,423</u></b>	<b><u>5,44,62,491</u></b>
<b>2</b>	<b>COMMON SERVICES AND GENERAL CHARGES -</b>		
<b>1</b>	<b>Travelling Allowance -</b>		
i)	Members of EC/AC/FC/Court	1,46,464	3,87,441
ii)	Members of Selection Committee/Board of Studies etc.	3,03,164	15,01,669
iii)	Members of University Staff	5,48,632	2,98,924
iv)	Travel Grant paid on first appointment and candidates called for interview	2,26,859	1,58,505
		<b><u>12,25,119</u></b>	<b><u>23,46,539</u></b>
<b>2</b>	Postage and Telegrams	21,44,387	24,24,692
<b>3</b>	Purchase of Stationery	14,27,055	14,43,831
<b>4</b>	Telephones	43,26,945	44,99,899
	Non-recurring	0	5,900
<b>5</b>	(a) Repairing, oiling, cleaning of typewriters, duplicators and Xerox machine etc.	2,27,086	1,62,704
	(b) Repair of Room/Water Cooler/Heaters/Fans etc.	3,36,414	1,01,430
<b>6</b>	Repair/Polishing of furniture	5,55,210	3,26,884
<b>7</b>	Electricity Charges	6,45,58,450	5,74,95,433
<b>8</b>	Water Charges	72,79,589	73,69,219
<b>9</b>	Maintenance of Staff Car	10,17,281	7,66,461
<b>10</b>	Liveries and Uniforms	17,99,755	11,72,468
<b>11</b>	Printing of Forms & Registers	9,99,044	11,13,259
<b>12</b>	Entertainment	2,09,386	2,27,221



**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-2004**  
**PART - I - MAINTENANCE( NON-PLAN ) ACCOUNT**

**RECEIPTS**

(Figures in rupees)  
Previous Year      Current Year

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - I MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT**

		(Figures in rupees)	
		Previous year	Current Year
<b>PAYMENTS</b>			
<b>2</b>	<b>COMMON SERVICES AND GENERAL CHARGES -</b>		
13	Advertisement	3,68,182	12,35,461
14	Rent of NAA Campus	11,00,664	25,020
15	Legal Expenses	3,91,156	2,22,175
16	Rates and Taxes	740	740
17	Maintenance of Admn. Computer	81,919	62,477
18	Conservancy Charges	12,00,966	15,87,580
19	Other-contingencies	26,88,390	19,53,039
	Non-recurring	37,464	85,705
	Non-recurring (Books)	0	2,495
20	Purchase of Cleaning Material	3,99,790	3,79,831
		<b><u>9,23,74,992</u></b>	<b><u>8,50,10,463</u></b>
<b>3</b>	<b>ACADEMIC PROGRAMMES -</b>		
<b>A</b>	<b>SCHOOLS -</b>		
<b>I</b>	<b>SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES -</b>		
	I) Salaries	4,21,04,121	4,26,70,714
	ii) Other Charges	11,58,728	11,52,700
	iii) Non recurring	3,750	60,000
	iv) Non recurring(Books)	23,514	0
	v) Non recurring(Advance)	3,38,786	0
<b>II</b>	<b>SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES</b>		
	I) Salaries	2,62,82,355	2,70,92,454
	ii) Other Charges	9,13,279	13,48,717
	iii) Non recurring	1,23,906	0
	iv) Non recurring(Advance)	1,74,000	0
<b>III</b>	<b>SCHOOL OF LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE STUDIES</b>		
	I) Salaries	4,09,24,962	3,95,47,587
	ii) Other Charges	5,33,919	4,69,511
	iii) Non recurring	69,618	1,12,326
	iv) Non recurring (Advance)	79,660	0

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-2004**  
**PART - I - MAINTENANCE( NON-PLAN ) ACCOUNT**

**RECEIPTS**

**(Figures in rupees)**  
**Previous Year      Current Year**

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - I MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT**

PAYMENTS	(Figures in rupees)	
	Previous year	Current Year
<b>IV SCHOOL OF LIFE SCIENCES</b>		
I) Salaries	1,25,69,595	1,12,51,887
ii) Other Charges	27,64,739	25,00,819
iii) Non recurring	6,92,394	1,17,644
iv) Non recurring (Advance)	7,600	8,04,582
<b>V SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES</b>		
I) Salaries	1,04,34,731	95,38,412
ii) Other Charges	7,20,151	13,92,659
iii) Non recurring	2,44,912	4,18,601
iv) Non recurring (Advance)	3,66,918	5,28,763
<b>VI SCHOOL OF COMPUTER AND SYSTEMS SCIENCES</b>		
I) Salaries	70,10,764	71,99,866
ii) Other Charges	2,25,086	2,87,001
iii) Non recurring	1,96,813	1,80,782
iv) Non recurring (Advance)	2,35,420	5,39,560
<b>VII SCHOOL OF PHYSICAL SCIENCES</b>		
I) Salaries	60,79,456	57,57,942
ii) Other Charges	4,58,325	6,28,021
iii) Non recurring	1,93,810	1,58,193
iv) Non recurring (Advance)	41,844	0
<b>VIII SCHOOL OF ARTS &amp; AESTHETICS</b>		
I) Salaries	15,85,559	18,11,624
ii) Other Charges	1,04,239	2,63,230
iii) Non recurring	1,94,250	27,898
<b>IX COMPUTER CENTRE -</b>		
I) Other Charges	3,450	0
<b>X CENTRE FOR THE STUDY OF LAW AND GOVERNANCE -</b>		
I) Salaries	10,63,695	23,94,600
ii) Other Charges	38,946	81,411
iii) Non recurring	5,44,156	1,83,925
iv) Non recurring (Advance)	1,74,000	0

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-2004**  
**PART - I - MAINTENANCE( NON-PLAN ) ACCOUNT****RECEIPTS**

(Figures in rupees)  
Previous Year      Current Year

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART-I-MAINTENANCE(NON-PLAN)ACCOUNT**

	(Figures in rupees)	
	Previous year	Current Year
<b>PAYMENTS</b>		
<b>XI SPECIAL CENTRE FOR MOLECULAR MEDICINES -</b>		
i) Salaries	10,71,629	9,96,953
ii) Other Charges	11,96,179	8,42,630
iii) Non recurring	14,198	6,400
iv) Non recurring(Advance)	1,74,000	2,14,232
<b>XII SCHOOL OF INFORMATION AND TECHNOLOGY -</b>		
i) Salaries	1,15,017	1,90,958
ii) Other Charges	6,55,011	3,20,309
iii) Non recurring	3,19,070	0
<b>XIII CENTRE FOR SANSKRIT STUDIES -</b>		
i) Salaries	10,36,920	15,56,822
ii) Other Charges	81,887	1,80,540
iii) Non recurring	1,71,171	20,300
iv) Non recurring(Advance)	2,35,769	0
	<b><u>16,37,52,302</u></b>	<b><u>16,28,50,673</u></b>
<b>B CENTRALISED FACILITIES -</b>		
<b>I Setting up of University Services and Instrumentation Centren (USIC) -</b>		
i) Salaries	23,13,384	25,27,076
ii) Other Charges	51,863	83,470
iii) Non recurring(Advance)	10,000	0
iv) Non-recurring (Books)	0	1,000
<b>II ANIMAL HOUSE -</b>		
i) Salaries	10,44,542	11,12,409
ii) Other Charges	3,96,036	7,02,791
<b>III BOTANICAL GARDEN</b>		
i) Salaries	4,57,494	4,82,551
ii) Other Charges	36,580	52,880
<b>IV Communication &amp; Information Services -</b>		
i) Salaries	16,32,747	14,20,247
ii) Other Charges	25,579	1,57,267
iii) Non-recurring	0	6,40,514

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-2004**  
**PART - I - MAINTENANCE( NON-PLAN ) ACCOUNT****RECEIPTS**

(Figures in rupees)  
Previous Year      Current Year

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - I MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT**

		(Figures in rupees)	
		Previous year	Current Year
<b>PAYMENTS</b>			
V	Institute of Advance Studies -		
	Other Charges	0	4,44,656
		<u>59,68,225</u>	<u>76,24,861</u>
C	OTHER INDIVIDUAL SCHEME -		
	Development of Multi-disciplinary Teaching and Training in Bio-technology -		
	i) Salaries	39,13,565	43,69,902
	ii) Other Charges	3,37,049	3,53,793
	iii) Non recurring	1,33,683	15,844
	iv) Non recurring(Advance)	92,232	0
#	BIC - BIO-INFORMATICS		
	Salaries	10,13,547	11,02,858
III	Adult Continuing Education and Extension Unit -		
	Salaries	15,86,305	12,20,567
IV	SPECIAL ASSISTANT PROGRAMME -		
(a)	School of Social Sciences -		
	i) Centre for the Study of Social Systems		
	Salaries	7,27,879	7,89,342
	ii) Centre for the Study of Regional Devp.		
	Salaries	11,43,478	12,31,923
	iii) Zakir Hussain Centre for Educational Studies		
	Salaries	3,43,177	2,72,288
	iv) Centre for Historical Studies		
	Salaries	2,32,396	2,41,976



**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-2004**  
**PART - I - MAINTENANCE( NON-PLAN ) ACCOUNT**

**RECEIPTS**

(Figures in rupees)  
Previous Year      Current Year

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - I MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT**

		(Figures in rupees)	
		Previous year	Current Year
<b>PAYMENTS</b>			
<b>(b) School of Life Sciences</b>			
Salaries		2,35,205	6,03,066
		<b><u>97,58,516</u></b>	<b><u>1,02,01,559</u></b>
<b>D MISCELLANEOUS OTHER ACADEMIC</b>			
ACTIVITIES - (i) Recurring		88,99,604	1,00,21,597
(ii) Non-recurring		24,700	0
<b>TOTAL-3. ACADEMIC PROGRAMMES</b>		<b><u>18,84,03,347</u></b>	<b><u>19,06,98,590</u></b>
<b>4 EXAMINATIONS</b>		14,66,064	18,75,422
<b>5 LIBRARY -</b>			
Salaries		2,04,93,188	2,01,77,602
Books and Journals		1,44,22,360	1,43,62,513
Periodicals & Newspapers		1,48,135	88,270
Other Charges		3,28,630	4,04,292
Non-recurring		3,62,680	2,48,361
		<b><u>3,57,54,993</u></b>	<b><u>3,52,81,038</u></b>
<b>6 STUDENTS FACILITIES -</b>			
<b>I Dean Of Students -</b>			
a. Salaries		17,81,947	20,84,558
b. Other Charges		46,569	30,298
<b>II Physical Training, Sports Activities and Games</b>			
a. Salaries		11,59,932	12,41,934
b. Other Charges		4,85,770	5,66,692
c. Non-recurring (Advance)		47,810	0
d. Non-recurring		0	8944
<b>III Students Health Centre -</b>			
a. Salaries		34,50,195	38,34,718
b. Other Charges		18,38,209	26,12,194
<b>IV Other Facilities - University Buses</b>			
a. Salaries		95,753	58,563
b. Other Charges		1,48,599	4,81,408
c. Non-recurring		25,840	0
		<b><u>90,80,624</u></b>	<b><u>1,09,19,309</u></b>
<b>7 SCHOLARSHIPS</b>		<b>30,31,830</b>	<b>29,93,176</b>

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-2004**  
**PART - I - MAINTENANCE( NON-PLAN ) ACCOUNT****RECEIPTS**

(Figures in rupees)  
Previous Year      Current Year

## RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04

## PART - I MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT

		(Figures in rupees)	
		Previous year	Current Year
<b>PAYMENTS</b>			
<b>8</b>	<b>STUDENTS' HOSTEL</b>		
a.	Salaries	2,13,28,110	2,30,40,962
b.	Other Charges	14,42,404	21,66,137
c.	Non-recurring	69,664	0
d.	Non-recurring (Advance)	2,80,896	0
		<b><u>3,31,21,074</u></b>	<b><u>2,52,07,099</u></b>
<b>9</b>	<b>PUBLICATION -</b>		
a.	Salaries	5,71,008	6,05,940
b.	Other Charges	8,19,633	3,85,388
		<b><u>13,90,641</u></b>	<b><u>9,91,328</u></b>
<b>10</b>	<b>OTHER DEPARTMENTS -</b>		
<b>A</b>	<b>ENGINEERING DEPARTMENT -</b>		
i)	Salaries	2,23,39,813	2,18,40,560
ii)	Estate Maintenance	1,12,78,974	1,05,85,272
	Non-recurring (Advance)	11,62,288	0
	Non-recurring	0	29,220
iii)	Minor Works	1,92,788	2,55,065
iv)	Maintenance & Running of Water Pump	12,500	0
v)	Maintenance of Vehicles	1,12,857	1,31,657
vi)	Other Charges	1,36,178	41,693
vii)	Special repair of Buildings etc.	0	49,32,451
		<b><u>3,52,35,398</u></b>	<b><u>3,78,15,918</u></b>
<b>B</b>	<b>Sanitation Staff (Salaries)</b>	1,70,82,416	1,72,40,588
<b>C</b>	<b>Security Staff (Salaries)</b>	1,09,06,716	1,05,96,703
<b>D</b>	<b>Estate Office (Salaries)</b>	55,34,396	55,57,436
<b>E</b>	<b>Gomati Guest House -</b>		
a.	Salaries	3,94,710	4,17,259
b.	Other Charges	1,82,638	54,986
c.	Non-recurring	27,150	0
<b>F</b>	<b>Araçvali/Internation Guest House and Faculty Club -</b>		
a.	Recurring	8,22,009	7,13,433
b.	Non-recurring	2,99,816	0
		<b><u>7,04,85,249</u></b>	<b><u>7,23,96,323</u></b>

---

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-2004**  
**PART - I - MAINTENANCE( NON-PLAN ) ACCOUNT**

**RECEIPTS**

**(Figures in rupees)**  
**Previous Year      Current Year**

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - I MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT**

	(Figures in rupees)	
	Previous year	Current Year
<b>PAYMENTS</b>		
<b>11 MISCELLANEOUS -</b>		
A Membership & Contribution paid to various Education Bodies/Institutions	1,60,696	1,78,668
B Insurance Premium Laboratories	758	1,080
C Furniture for Administrative Offices and Faculties	37,90,977	46,98,942
Advance	5,84,100	0
D Furniture for Laboratories	0	0
E Equipment for Administrative Offices and Faculties	15,74,520	16,38,948
Advance	1,74,000	0
F Desert/Water Coolers & Air-conditioners	2,08,364	12,01,537
Advance	9,16,072	0
G Other items		
ii) Medical Attendance to Staff (including CGHS Contribution)	1,72,559	54,50,175
iii) Over Time Allowance	87,39,319	95,91,121
iii) Over Time Allowance	19,99,536	17,61,176
iv) Re-imbursement of tuition fees/ Children Education Allowance	63,955	55,980
v) Convocation Expenses & Academic Robes	0	0
vi) V.C.'s Discretionary Fund	1,00,000	1,00,000
vii) Festival Advance	6,79,500	7,00,650
viii) Dailywages Workers' Salaries	41,40,419	27,25,266
ix) Honorarium paid to Staff	3,83,689	3,22,831
x) Special Lectures and training to Staff	13,981	85,227
xi) Bonus	28,42,358	29,59,270
xii) Grants to Faculty Club	10,000	10,000
xiii) Maintenance of Horticulture	5,27,143	8,24,332
xiv) Gender Sensitisation Committee against Sexual Harassment (GSCASH)	21,374	41,095
Non-recurring (Advance)	0	10,000
xv) Private Security	88,50,534	98,16,218
	<b><u>3,69,53,864</u></b>	<b><u>4,21,72,516</u></b>

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - I MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT**

	Previous Year	(Figures in rupees) Current Year
<b>RECEIPTS</b>		
<b>VIII INTEREST EARNED ON -</b>		
i) Investment	8,16,806	10,72,260
ii) Saving Bank Account	17,05,762	18,03,934
	<b><u>25,22,568</u></b>	<b><u>28,76,194</u></b>
<b>IX RECOVERIES/RECEIPTS/REFUNDS -</b>		
Festival Advance	7,05,850	7,30,500
Corpus Fund Account	58,81,000	0
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>77,38,51,286</b>	<b>79,38,00,120</b>

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - I MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT**

	Previous year	(Figures in rupees) Current Year
<b>PAYMENTS</b>		
<b>12 PROVIDENT FUND AND PENSION -</b>		
i) Provident Fund Contribution	26,93,547	28,41,630
ii) Deposit Linked Insurance	0	5,09,871
iii) Pension	3,19,63,249	3,64,10,715
iv) Gratuity	1,50,67,083	1,32,50,102
v) Commuted Value of Pension	1,39,78,329	1,03,65,911
vi) Leave Encashment	91,20,356	61,61,873
	<u>7,28,22,564</u>	<u>6,95,40,102</u>
<b>13 Payment of arrears (Revision of pay on account of Fifth Pay Commission)</b>	1,88,61,045	1,41,07,198
<b>TOTAL</b>	<b>69,87,86,700</b>	<b>60,56,55,065</b>
<b>14 REMITTANCES -</b>		
Remittances of recoveries/receipts of previous year -		
Undisbursed Amount paid	11,076	0
<b>CLOSING BALANCE -</b>		
Imprest	1,00,800	1,05,775
Cash in Hand -	0	0
Cash in Bank -		
a. Grants from UGC	14,86,27,580	13,75,17,642
b. University Receipts	2,63,25,130	5,05,21,648
	<u>17,50,53,510</u>	<u>18,81,45,065</u>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>77,38,51,286</b>	<b>79,38,00,120</b>



**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - II DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

	(Figures in rupees)	
	Previous Year	Current Year
<b>RECEIPTS</b>		
<b>Opening Balance -</b>		
Imprest	9,000	5,000
Cash in Hand	0	1
Cash in Bank -	2,73,13,129	6,82,48,739
 <b>I GRANTS -</b>		
<b>A University Grants Commission</b>		
I) Recurring Grant	38,50,807	2,28,63,155
ii) Non-recurring Grant for		
a. Development of University Campus	6,93,00,000	6,70,00,000
b. Other Capital Grant	14,37,521	75,83,000
<b>B Interest earned on investment of Grants</b>	78,28,382	57,69,440
<b>C Other Organisations</b>		
I) Ministry of Science and Technology (Department of Bio-technology) -		
a. Recurring	41,32,000	36,29,000
b. Non-recurring	7,46,000	14,32,000
ii) Delhi State Aids Control Society (Govt. of NCT, Delhi)	1,36,111	0
III) Ministry of Tribal Affairs (Central Assistance for Boys & Girls Hostel for STs.	0	1,50,00,000
 <b>II MISCELLANEOUS RECEIPTS/ RECOVERIES/REFUNDS/ADJUSTMENTS RELATING TO -</b>		
I) Recurring -		
DSA/ZHCES	0	70,750
Recoupment of Salary(Faculty Staff)	0	12,21,729
ii) Non-recurring		
Equipment	2,42,585	0
Const. Of Bio-containment Facilities	31,657	0
 <b>III INTEREST EARNED ON -</b>		
(Saving Bank Account)	10,04,847	14,52,826

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - II DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

PAYMENTS	(Figures in rupees)	
	Previous Year	Current Year
<b>RECURRING</b>		
<b>1 ACADEMIC PROGRAMMES</b>		
<b>A SCHOOLS</b>		
<b>I School of International Studies -</b>		
a. Salaries (Teaching Staff)	0	40,597
b. Gulf Studies		
i) Other Charges	60,822	5,91,669
ii) Scholarships/Fellowships	1,10,335	3,16,806
c. Soviet Studies -		
i) Salaries (Research Associates)	3,59,041	4,77,978
ii) Other Charges -		
i) Recurring	87,252	1,60,430
ii) Non-recurring	34,575	0
iii) Scholarship/Fellowship	1,39,995	2,24,500
d. Central Asian Division (Other Charges)	0	1,82,686
<b>II Centre for the Study of Law and Governance -</b>		
Teaching Staff - Salaries	3,14,482	0
<b>III Centre for Womens' Studies -</b>		
Other Charges	2,60,728	4,04,896
<b>IV Centre for Sanskrit Studies -</b>		
Salaries	5,09,066	1,86,494
<b>V School of Social Sciences -</b>		
Teaching Staff - Salaries	3,18,839	0
<b>VI School of Information &amp; Technology - (Salaries)</b>	0	1,24,192
	<b><u>21,95,135</u></b>	<b><u>27,10,248</u></b>
<b>B MISCELLANEOUS OTHER ACADEMIC ACTIVITIES -</b>		
<b>I Academic Staff College</b>		
i) Salaries	18,19,269	18,33,082
ii) Other Charges	59,00,342	42,62,095
iii) Non-recurring	29,490	54,357
iv) Non-recurring (Furniture)	<b><u>1,76,941</u></b>	0

---

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-2004**  
**PART - II - DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

RECEIPTS	Previous Year	(Figures in rupees)
		Current Year

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - II DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

PAYMENTS	(Figures in rupees)	
	Previous Year	Current Year
<b>RECURRING</b>		
<b>B MISCELLANEOUS OTHER ACADEMIC ACTIVITIES -</b>		
<b>II Department of Special Assistance Programme (DSA) SSS -</b>		
a. Centre for Study of Social System Other Charges	2,48,835	2,94,902
b. Centre for Historical Studies - Other Charges	2,49,232	2,61,671
c. Zakir Hussain Centre for Educational Studies -		
i) Salaries	1,73,729	52,894
ii) Other Charges	3,69,320	2,93,543
d. Centre for Economic Studies and Planning - Other Charges	2,100	0
e. Centre for the Study of Regional Development - Other Charges	1,99,691	28,032
f. School of Life Sciences Other Charges	3,00,245	3,00,593
<b>III UGC Assistance at the level of DRS under SAP</b>		
a. School of Physical Sciences -		
i) Other Charges	1,66,656	2,01,993
ii) Non-recurring (Furniture)	0	49,840
iii) Upgradation/Augmentation & Renovation of Ialzer Lab. -		
Recurring	48,056	33,054
Non-recurring	2,36,034	4,20,367
Non-recurring(Advance)	31,845	0
b. School of Environmental Sciences -		
i) Salaries	1,01,685	78,716
ii) Other Charges	1,49,532	1,59,922
iii) Non-recurring	0	2,24,638
c. Centre for the Study of Regional Development	0	2,78,433
d. Centre of Linguistics & English	0	1,50,000
	<b><u>1,02,03,002</u></b>	<b><u>89,78,132</u></b>

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-2004**  
**PART - II - DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

**RECEIPTS**

**Previous Year**

**(Figures in rupees)**

**Current Year**

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - II DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

PAYMENTS	(Figures in rupees)	
	Previous Year	Current Year
<b>C OTHER INDIVIDUAL SCHEME -</b>		
<b>I Development of Multi-disciplinary Teaching &amp; Training in Bio-technology</b>		
a. Salaries	2,21,040	0
b. Other Charges	4,52,071	6,58,729
c. Non-recurring	2,83,474	1,24,448
d. Non-recurring(Advance)	1,43,500	65,250
e. Students/Research Associateship	2,31,490	2,51,028
<b>II BIC - BIO-INFORMATICS -</b>		
a. Other charges	7,08,933	8,16,653
b. Non-recurring	4,55,516	35,491
National facilities on Interactive Computer Graphic System for Molecular Modelling -		
a. Salaries	1,18,486	1,82,000
b. Other charges	0	6,160
c. Non-recurring	6,81,946	1,41,829
Mirror Site - BIC - IV		
a. Other Charges	54,992	4,000
b. Non-recurring	0	5,05,600
One year advance Diploma Course in Bio-informatics -		
Other Charges	3,23,829	2,23,781
Non-recurring	2,71,122	1,16,190
Non-recurring (Furniture)	0	154,079
<b>III COSIST PROGRAMME -</b>		
a. School of Physical Sciences		
i) Other Charges	9,670	9,124
ii) Non-recurring	8,10,917	2,81,126
b. School of Environmental Sciences -		
i) Other Charges	1,68,910	1,37,752
ii) Non-recurring	22,27,055	0
<b>IV INFLIBNET PROGRAMME(Library)</b>		
i) Salaries	4,000	0
ii) Other Charges	3,983	0
<b>V Counselling Centre for HIV/AIDS (Health Centre) -</b>		
Other Charges	1,32,174	75,442
<b>VI Establishment of Yoga Centre -</b>		
i) Salaries	1,80,000	1,65,000
ii) Other Charges	3,967	0
<b>VII UGC Assistance to JNU under the Scheme of TEPSE/HEPSN -</b>		
i) Other Charges	26,631	14,035
ii) Non-recurring	26,000	0

---

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-2004**  
**PART - II - DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

---

<b>RECEIPTS</b>	<b>Previous Year</b>	<b>(Figures in rupees)</b>
		<b>Current Year</b>

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - II DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

PAYMENTS	(Figures in rupees)	
	Previous Year	Current Year
<b>C. OTHER INDIVIDUAL SCHEME - Contd.</b>		
<b>VIII Remedial Coaching Courses for SC/STs -</b>		
I) Other Charges	12,762	6,248
ii) Non-recurring	2,52,010	0
<b>IX Extension of SC/ST Cell</b>	54,670	0
<b>X Potencial for Excellance(UGC)</b>	38,96,953	98,60,373
<b>XI Adult Education Programme</b>	0	4,545
	<b><u>1,17,56,101</u></b>	<b><u>1,38,38,883</u></b>
<b>3 Combined Entrance Exams for Bio-technology Courses -</b>		
Other Charges	19,18,581	14,10,595
<b>TOTAL - A - REVENUE ACCOUNT</b>	<b>2,60,72,819</b>	<b>2,69,37,858</b>
<b>B CAPITAL ACCOUNT -</b>		
<b>A CONSTRUCTION OF UNIVERSITY CAMPUS -</b>		
<b>I SCHOOL BUILDINGS -</b>		
I) Centre for Historical Studies (DSA Programme)	32,475	0
ii) School of Physical Sciences Building (DRS/SAP)	2,377	0
iii) COSIST - School of Physical Sciences	29,665	0
iv) Construction of Science Centre	5,00,000	0
v) Centre for the Study of Law and Goverance Advance	31,00,000	0
vi) Academic Staff College Advance	35,00,000	1,00,22,252
	0	30,77,748
<b>II RESIDENTIAL BUILDING -</b>		
I) Construction of Hostel for North Eastern Region Students Advance	30,00,000	1,77,31,464
	0	53,06,536
ii) Construction of Boys Hostel for STs Advance	70,00,000	33,75,082
	0	27,29,768
iii) Construction of Girls Hostel for STs Advance	4,97,170	90,73,171
	0	15,26,529
iv) Construction of Post Doctoral Research Scholar Hostel(Phase-II)	15,21,632	6,24,677
v) Construction of Transit House	0	17,27,142



**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-2004**  
**PART - II - DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

RECEIPTS	Previous Year	(Figures in rupees)
		Current Year

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - II DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

PAYMENTS	Previous Year	(Figures in rupees) Current Year
<b>A. CONSTRUCTION OF UNIVERSITY CAMPUS - contd.</b>		
<b>III MISCELLANEOUS BUILDINGS -</b>		
i) Sports Complex	21,680	0
ii) Extension of Health Centre Building	2,49,694	0
iii) Construction of Bio-containment facility (for keeping Experimental infected Animals)	13,488	0
<b>IV EXTERNAL SERVICES -</b>		
i) Providing Access to persons with disability (under UGC Scheme of HEPSN)	88,757	0
ii) Providing Aluminium Partition and RCC Platform with tiles in CIF rooms (SES-Cosist)	84,920	0
iii) Preservation of Botanical Garden	0	1,45,852
<b>TOTAL-A-CONSTRUCTION OF UNIVERSITY CAMPUS</b>	<b>1,96,41,858</b>	<b>5,53,40,521</b>
<b>B. OTHER CAPITAL EXPENDITURE -</b>		
<b>I EQUIPMENT -</b>		
<b>A SCHOOLS -</b>		
i) Centre for Sanskrit Studies	29,675	99,500
ii) School of Languages, Literature and Cultural Studies (Language Lab. Complex)	5,66,191	0
iii) School of Life Sciences Advance	2,676	94,479
iv) Special Centre for Molecular Medicine	0	1,26,100
v) Soviet Studies	1,596	1,23,712
vi) Womens' Studies Scheme	32,230	21,280
vii) Womens' Studies Scheme	9,348	1,95,770
viii) School of International Studies	0	46,900
ix) Centre for Bio-technology (Advance)	0	4,52,521
x) School of Physical Sciences	0	5,62,802
xi) School of Environmental Sciences Advances	0	1,39,988
	0	41,184
<b>B Administration</b>	49,807	0
Air-conditioning of Library Reading Room	0	5,621
<b>C Health Centre</b>	4,533	0
<b>D Potential for Excellence</b>	2,22,06,379	96,59,335

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-2004**  
**PART - II - DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

RECEIPTS	Previous Year	(Figures in rupees)
		Current Year

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - II DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

PAYMENTS	(Figures in rupees)	
	Previous Year	Current Year
<b>B OTHER CAPITAL EXPENDITURE -contd.</b>		
E Cosist Programme - School of Environmental Sciences	29,99,169	3,85,000
F Department of Special Assistance Programme (DSA) -		
i) Zakir Hussain Centre for Educational Studies	32,870	56,730
ii) Centre for Study of Social Systems	3,350	62,410
iii) Centre for the Study of Regional Development	31,100	0
iv) School of Life Sciences	11,07,080	1,80,124
G UGC Assistance at the level of DRS/SAP		
School of Environmental Sciences	5,71,308	1,72,587
Advance	1,12,896	0
H Upgradation/Augmentation of Computer Centre	9,67,703	0
I Bio-informatic Centre (BIC)	90,977	1,39,700
J UGC Infonet Scheme	0	4,83,300
<b>TOTAL - I EQUIPMENTS</b>	<b>2,88,18,888</b>	<b>1,30,49,043</b>
<b>2 BOOKS AND JOURNALS -</b>		
i) Central Library	18,91,734	27,08,081
ii) Potential for Excellence(UGC)	75,61,215	64,61,172
iii) Bio-technology Programme	1,34,102	1,49,443
iv) Gulf Studies	97,737	28,593
v) Soviet Studies	1,25,234	841
vi) Women's Studies Scheme	49,093	50,000
vii) DSA/DRS/SAP Programme -		
a. Centre for Study of Social System	2,56,466	1,95,644
b. Centre for Historical Studies	2,00,774	1,80,584
c. Zakir Hussain Centre for Educational Studies	99,141	1,09,806
d. School of Life Sciences	1,02,593	77,869

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - II DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

RECEIPTS	(Figures in rupees)	
	Previous Year	Current Year
<b>IV COMBIND ENTRANCE EXAM FOR BIO-TECHNOLOGY COURSES -</b>		
(Sale of Admission forms/ Entrance Examination fees etc.)	84,69,555	80,53,606
<b>V MISCELLANEOUS RECEIPTS -</b>		
BIO-INFORMATICS CENTRE (Short term training programme in Bio-informatics)	5,000	41,000
ACADEMIC STAFF COLLEGE (Registration fee towards participant cost)	3,15,500	2,88,500
<b>VI INVESTMENT ENCASHED</b>	<b>7,13,96,100</b>	<b>1,20,00,000</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>19,62,18,194</b>	<b>21,46,58,746</b>

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - II DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

PAYMENTS	(Figures in rupees)	
	Previous Year	Current Year
B. OTHER CAPITAL EXPENDITURE - contd.		
2 BOOKS AND JOURNALS - contd.		
e. School of Physical Sciences	31,949	26,994
f. Centre for Linguistics & English(SLLC) •	0	1,00,000
viii) COSIST - School of Physical Sciences	2,04,445	83,654
ix) Bio-informatic Centre (BIC)	20,776	83,211
x) BIC - One Year Diploma Course	65,364	1,07,003
xi) Remedial Coaching Courses SC/ST	70,681	15,524
	<b><u>1,09,11,304</u></b>	<b><u>1,03,78,419</u></b>
3 FURNITURE -		
Centre for Study of Social System	19,585	0
TOTAL-B- OTHER CAPITAL EXPENDITURE	<b>3,97,49,777</b>	<b>2,34,27,462</b>
TOTAL - SECTION ( A + B )	<b>8,54,64,454</b>	<b>10,57,05,641</b>
REFUND TO UGC - (On account of Unspent Balance)	0	1,00,000
INVESTMENT OF FUNDS	<b>4,25,00,000</b>	<b>4,45,00,000</b>
CLOSING BALANCE		
i) Imprest	5,000	5,000
ii) Cash in Bank	6,82,48,739	6,43,47,905
iii) Cash in Hand	1	0
GRAND TOTAL..	<b>19,62,18,194</b>	<b>21,46,58,746</b>

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - III- EARMARKED(SPECIAL) FUND ACCOUNT**

**RECEIPTS****(Figures in rupees)****Opening Balance -**

Earmarked Fund Account	11,24,78,278	
Genetic Engg. Unit Account	1,43,074	
Exim Bank Library Account	75,094	
Welfare State Systems	1,98,372	
SBI R & D Account	31,436	
Centre of Applied Human Genetics A/c	21,01,826	11,50,28,080

**I SPECIFIC PURPOSES**

A University Grants Commission	71,37,689	
B Government of India -		
i) Genetic Engg. Unit	4,687	
ii) Other Project	3,47,51,318	
C Foreign Bodies/Govts. -		
i) Swiss Agency for Development and Corporation	3,56,864	
ii) Centre Disease Control	12,08,543	
iii) International Foundation for Science	4,83,243	
iv) Ford Foundation	54,05,348	
v) UNDP - TIFAC	7,800	
vi) European Economic Commission	15,54,511	
vii) Indian Council for Research on International Economic Relation	8,48,712	
viii) Wellcome Trust	17,22,390	
ix) UNESCO	6,44,334	
x) Indo French (IFCPAR)	75,000	
xi) Centre for Ecology and Hydrology	3,57,182	
xii) CIAT/TBSE	29,42,845	
xiii) Korean Foundation	95,890	
xiv) Shastri Indo-Canadian Institute	5,93,000	
xv) International Food Policy Research Institute	4,60,000	
xvi) Italian Embassy	1,78,836	

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - III- EARMARKED(SPECIAL) FUND ACCOUNT**

**PAYMENTS****(Figures in rupees)****I SPECIFIC PURPOSES -**

<b>A. University Grants Commission</b>	57,81,596
<b>B. Government of India-</b>	
I) Other Projects	3,72,77,374
Advance	11,13,939
<b>C. Foreign Bodies/Govts. -</b>	
Ford Foundation	30,79,918
U.N.E.S.C.O.	6,04,104
European Economic Commission	6,37,647
Advance	8,900
Shastri Indo-Canadian Institute	1,17,711
Australian High Commission	4,500
Italian Embassy	1,94,760
Welcome Trust	15,78,842
French Embassy	3,94,608
Volks Wagon	2,59,772
Centre Disease Control	1,84,271
Child Labour Social Enclusion	33,340
International Food Policy Research Institute	45,878
Japan Foundation	1,25,318
International Foundation for Science	1,96,578
Thailand Embassy	1,14,970
Indo Sri Lanka Trade Agreement	1,03,051
U S D A	81,996
<b>C I A T / T B S E</b>	26,60,399



**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - III- EARMARKED(SPECIAL) FUND ACCOUNT**

RECEIPTS	(Figures in rupees)
<b>I SPECIFIC PURPOSES - contd.</b>	
D Other Bodies -	
i) Council of Scientific & Industrial Research	72,08,553
ii) Indian Council of Social Science Research	21,52,712
iii) Indian Council of Medical Research	50,63,978
iv) Inter University Consortium	1,24,000
v) National Physical Laboratory	1,00,000
vi) Indian Council of Historical Research	1,48,250
vii) Centre Pollution Control Board	12,519
viii) Indian Council of Agriculture Research	8,78,465
ix) Administrative over head Charges	27,85,064
x) Rehabilitation Council of India	90,000
xi) Osbar Research Foundation	10,64,880
xii) Bio-International Ltd.	1,84,000
xiii) H. P. (Pvt.) Ltd.	5,66,000
xiv) Indo Bio-active Pvt. Ltd.	1,00,000
xv) Indian Council of Cultural Relation	2,99,551
xvi) N A A C	2,70,000
xvii) Delhi Govt.	1,35,720
xviii) Seminar/Workshop	3,87,720
xix) Winrock Netcom	3,78,628
xx) TARI ( XV Genetics Congress )	59,254
xxi) National Agriculture Technology Project	9,23,120
xxii) Power Finance Corporation	1,17,150
<b>II FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS -</b>	
A. University Grants Commission	17,66,844
B. Government of India	83,66,277
C. State Government	8,54,142
D. Other Bodies -	
i) Council of Scientific & Industrial Research	2,22,73,249
ii) Indian Council for Social Science Research	34,04,275
iii) Indian Council of Historical Research	20,12,900
iv) Indian Council of Medical Research	17,28,196
v) Indian Council of Philosophical Research	1,91,700
vi) N C E R T	7,750
VII) Global Studies Programme	10,50,132
viii) K. Mahinder Singh Trust	12,000
ix) Rashtriya Sanskrit Sansthan	5,300
x) World Health Organisation (WHO)	58,008

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - III- EARMARKED(SPECIAL) FUND ACCOUNT**

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

**I SPECIFIC PURPOSES - contd.****C. Foreign Bodies/Govts. - contd.**

Korean Foundation	5,40,895
Indian Council of Research on Economic Relation	4,05,551
Swiss Agency for Development and Corporation	4,70,297
Centre of Ecology and Hydrology	2,67,181
U. N. D. P.	13,416
Canadian High Commission	1,44,339
Instead of Nuclear Weapons	6,000

**D. Other Bodies -**

i) Council of Scientific and Industrial Research Advance	49,62,926 2,26,163
ii) Indian Council of Social Science Research	14,28,968
iii) Indian Council of Cultural Relation	1,16,719
iv) Indian Council of Medical Research Advance	51,61,276 3,68,535
v) Indian Council of Historical Research	1,13,477
vi) Rehabilitation Council of India	82,160
vii) Payment out of Over Head Charges Advance	24,15,571 14,950
viii) Indian Council of Agriculture Research	9,500
ix) All India Council of Technical Education	15,15,111
ix(a) N A A C	2,00,000
x) Panacea Biotech. Consultancy Project	80,927
xi) Centre Pollution Control Board	85,579
xii) Power Finance Corporation	1,00,000
xiii) Tata Educational Trust	5,41,689
xiv) H. P. (Pvt.) Ltd. Advances	2,36,416 82,560
xv) Indo Bio-tech. Ltd.	77,132

---

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-2004**  
**PART - III - EARMARKED (SPECIAL) FUND ACCOUNT**

---

**RECEIPTS****(Figures in rupees)**  
**Current Year**

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - III- EARMARKED(SPECIAL) FUND ACCOUNT**

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

D. Other Bodies - contd.	
xvi) Inter University Consortium	1,20,785
xvii) National Agriculture Technology Project	11,07,399
xviii) TARI (XV Genetics Congres)	30,000
xix) Delhi Government	62,286
xx) Govt. of Pondicherry	1,02,791
xxi) Sh.Venkateshwara College	35,000
xxii) Society for Immvation and Development Centre	63,514
xxiii) Winrock Netcom.	3,51,477
xxiv) Workshop / Seminar	6,32,755
xxv) Rajasthan State Mines & Minerals Ltd.	25,681
xxvi) Dabur Research Foundation	4,46,076
xxvii) National Physical Laboratory Advance	4,000 68,935
<b>II. FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS -</b>	
A. University Grants Commission	22,17,575
B. Govt. of India	83,83,824
C. State Government	9,33,659
D. Other Bodies -	
i) Indian Council of Social Science Research	28,74,245
ii) Council of Scientific Industrial Research	1,85,49,863
iii) Indian Council of Historical Research	17,45,508
iv) Indian Council of Medical Reseearch	18,09,682
v) Jawahar Bhawan Trust	43,771
vi) Indian Council of Philosphical Research	1,86,000
vii) N C E R T	2,640
viii) Global Studies Programme	2,39,794
ix) K. Mahinder Singh Trust	12,000
x) Rastriya Sanskrit Sangthan	5,300

---

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-2004**  
**PART - III - EARMARKED (SPECIAL) FUND ACCOUNT**

---

**RECEIPTS****(Figures in rupees)**  
**Current Year**

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - III- EARMARKED(SPECIAL) FUND ACCOUNT**

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

**D. Other Bodies - contd.**

xi) G. Parthasarthy(SC/ST)	87,500
xii) World Health Organisation	58,008
xiii) Sunchan National University, Korea	5,94,924
xiv) Bio. Park Programme	26,900

**III PRIZES & ENDOWMENTS -**

i) Jawaharlal Nehru Professorship (Chair on Environmental Law)	74,920
ii) Ford Foundation	2,55,000
iii) Dr. Ambedkar Chair	7,18,486
iv) R.B.I. Chair	1,40,699
v) Other Endowment	• 3,79,286

**IV INVESTMENTS -**

i) D.S. Gardi (Centre for Sanskrit Studies)	6,00,000
ii) Tamil Chair	50,00,000
iii) Ford Foundation (CL&GR) - (Prof. Kuldeep Mathur)	7,48,324

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - III- EARMARKED(SPECIAL) FUND ACCOUNT**

<b>RECEIPTS</b>	<b>(Figures in rupees)</b>
<b>III PRIZES AND ENDOWMENTS -</b>	
i) Interest earned	30,44,771
ii) Endowments	63,48,324
<b>IV OTHER RECEIPTS</b>	7,05,219
<b>V Interest earned on Saving Bank Account (EMF Account)</b>	32,79,607
<b>VI. EXIM BANK LIBRARY ACCOUNT -</b>	
i) Grant	15,00,000
ii) Interest earned on Saving Bank A/c	2,569
<b>VII. WELFARE STATE SYSTEMS DEVELOPMENT AND CHALLENGES ACCOUNT -</b>	
(Interest earned on Saving Bank Account)	6,499
<b>VIII. INTEREST EARNED ON NIPPON FOUNDATION (FCRA) ACCOUNT</b>	4,41,841
<b>CENTRE OF APPLIED HUMAN GENETICS ACCOUNT -</b>	
i) Grant	11,84,000
ii) Interest earned	37,038
<b>IX. INVESTMENT ENCASHED</b>	1,00,000
 <b>GRAND TOTAL</b>	 <b>25,52,86,475</b>

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - III- EARMARKED(SPECIAL) FUND ACCOUNT**

**PAYMENTS**

(Figures in rupees)

<b>V. OTHER PAYMENTS</b>		<b>8,17,883</b>
<b>VI. EXIM BANK LIBRARY ACCOUNT -</b>		
Non-recurring (Books)		<b>4,513</b>
<b>VII. SBI R &amp; D ACCOUNT</b>		<b>10,000</b>
<b>NIPPON FOUNDATION (FCRA)</b>		
<b>ACCOUNT - (Fellowships)</b>		<b>1,07,000</b>
<b>VIII CENTRE OF APPLIED HUMAN</b>		
<b>GENITICS ACCOUNT -</b>		
a. Recurring	<b>11,32,521</b>	
b. Non-recurring -		
i) Books	<b>10,936</b>	
ii) Equipments	<b>5,52,662</b>	
iii) Furniture	<b>12,800</b>	<b>17,08,919</b>
<b>CLOSING BALANCE -</b>		
Earmarked Fund Account	<b>12,59,36,719</b>	
Genetic Engg. Unit Account	<b>1,47,761</b>	
Exim Bank Library Account	<b>15,73,150</b>	
SBI R & D Fund Account	<b>21,436</b>	
Welfare State Systems -		
Development & Challenges Account	<b>2,04,871</b>	
Centre of Applied Human Genitcs		
Account	<b>16,13,945</b>	
Nippon Foundation (FCRA) Account	<b>3,34,841</b>	<b>12,98,32,723</b>
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>25,52,86,475</b>



**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - IV - DEBT.,DEPOSIT ETC. ACCOUNT**

		(Figures in rupees)	
RECEIPTS		Previous Year	Current Year
Opening Balance -			
	Provident Fund	42,16,841	46,92,934
	Other Deposits	2,42,39,340	2,22,87,861
	House Building Fund	1,48,56,869	66,14,632
		<u>4,33,13,050</u>	<u>3,35,95,427</u>
I	DEBT		
II	DEPOSITS		
	Provident Fund -		
	Employees' Subscription	6,87,29,438	9,47,41,311
	University Contribution	29,53,812	33,37,642
	Interest adjusted to Subscribers' account during the year	5,36,32,111	5,00,62,564
	Investment encashed	11,28,79,713	12,08,08,259
	Interest earned on investment	4,36,18,342	4,76,80,253
		<u>39,18,13,416</u>	<u>31,64,30,029</u>
III	STUDENTS' FUND -		
	Students' Aid Fund	87,543	79,226
	Extra Curricular Activities Fees	2,30,496	2,32,512
	Students' Security Deposits	65,530	66,850
	Hostel Security Deposits	9,860	7,750
	Other Deposits (Library Deposits, Misc. Deposits etc.)	6,400	3,140
		<u>3,79,829</u>	<u>3,89,478</u>
IV	OTHER FUNDS -		
	VC's Discretionary Fund	1,61,850	1,33,450
V	OTHER DEPOSITS -		
	Earnest Money, Security Deposits	15,88,915	30,29,139
VI	RESERVE FUND -		
	Interest earned on Deposit Reserve Fund -	39,891	30,682
VII	OTHER RECEIPTS -		
	Refund of House Building Advance	66,03,807	93,08,566
	Interest earned on House Building Advance Fund	34,39,374	63,89,687
	Refund of Conveyance/Computer Advance	53,97,943	57,55,999
	Interest earned on Saving Bank Account	36,124	81,649
	Upgradation of Computer and Lab. Facilities (SES)	0	20,000
	Maintenance of Yamuna Hostel	0	88,784
	National Centre for Plant Genome Research	0	50,000
	Centre for the Study of Regional Dev.	0	4,75,712

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - IV - DEBT, DEPOSIT ETC. ACCOUNT**

PAYMENTS	Previous Year	(Figures in rupees) Current Year
<b>DEBT</b>		
<b>DEPOSITS</b>		
<b>Provident Fund -</b>		
Advances/Withdrawals/Final Payments	8,43,19,805	8,05,08,652
Final payment of University Contribution	31,95,280	25,17,341
Interest paid to the credit of the Subscribers' account	5,36,32,111	5,00,62,564
Investments	16,01,90,127	18,21,94,000
	<b><u>30,13,37,323</u></b>	<b><u>31,52,82,557</u></b>
<b>STUDENTS' FUND</b>		
Students' Aid Fund	2,01,232	2,04,141
Extra Curricular Activities Fees	1,12,805	1,54,516
Students' Security Deposits	40	40
Hostel Security Deposits	15,750	0
Other Deposits (Library Deposits, Misc. Deposits etc.)	2,000	1,500
	<b><u>3,31,827</u></b>	<b><u>3,60,197</u></b>
<b>IV OTHER FUNDS -</b>		
VC's Discretionary Fund	91,590	81,500
<b>V OTHER DEPOSITS -</b>		
Earnest Money, Security Deposits	9,96,516	17,90,853
<b>VI OTHER PAYMENTS -</b>		
House Building Fund Advance	1,82,85,219	86,61,735
Conveyance/Computer Advance	45,90,405	31,62,762
Payment of premium of LIC on account of Group Insurance of Staff Members	47,64,895	50,35,579
Payment of LIC Group Insurance Claim	33,24,323	16,61,194
Research Activities and Special Lectures	10,000	0
Hiring of Sports Facilities	12,113	24,670
Alumni Association Fund - ASC		
a. Recurring	5,92,790	0
b. Non-recurring(Equipment)	1,25,000	14,050
DNA Sequencing facility ( At SCMM )	2,880	2,000
Road/Footpath restoration (MTNL)	1,19,325	0
Short term Courses (Computer Centre)	25,804	0

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - IV - DEBT., DEPOSIT ETC. ACCOUNT**

RECEIPTS	(Figures in rupees)	
	Previous Year	Current Year
<b>VII OTHER RECEIPTS - contd.</b>		
Group Insurance Subscription	48,00,332	50,14,101
Amount received in respect of LIC Group Insurance Claim	36,31,609	18,15,944
Central Instruments Facilities (CIF - SLS)	11,000	0
Hiring of Sports Facilities	40,072	25,693
Alumni Association Fund - ASC	3,83,253	2,37,560
DNA Sequencing facility ( At SCMM )	26,400	0
Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (on account of Road restoration charges)	80,925	0
Interest earned on -		
i) Investment	7,99,685	8,37,073
ii) Saving Bank Account	6,26,982	5,26,993
	<b><u>2,58,77,306</u></b>	<b><u>3,06,27,761</u></b>
<b>VIII CORPUS FUND ACCOUNT -</b>		
Recognition fees/Affiliation charges (Recognised Institutions)	31,00,000	30,00,000
Other Sources	35,23,541	41,43,815
Matching Grant - Resource Mobilisation (UGC)	0	58,06,092
Interest Earned on Investment/Saving Bank Account	33,23,236	22,06,059
	<b><u>99,46,777</u></b>	<b><u>1,51,55,966</u></b>
<b>IX INVESTMENT ENCASHED -</b>		
i) Deposit Account	57,14,209	0
ii) Corpus Fund Account	2,63,00,837	1,75,000
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>41,51,36,080</b>	<b>39,95,66,932</b>

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - IV - DEBT., DEPOSIT ETC. ACCOUNT**

<b>PAYMENTS</b>		<b>(Figures in rupees)</b>	
		<b>Previous Year</b>	<b>Current Year</b>
<b>VI.</b>	<b>OTHER PAYMENTS - Contd.</b>		
	Upgradation of Computer and Lab. Facilities, (SES) -		
	a. Recurring	0	1,900
	b. Non-recurring	0	17,950
	Maintenance of Yamuna Hostel	0	26,284
	JNU - Ridge Environment Regeneration Scheme	0	9,517
		<b><u>3,18,62,764</u></b>	<b><u>1,86,17,641</u></b>
<b>VII</b>	<b>Utilization OF PROVIDENT FUND CONTRIBUTION (University share) -</b>		
	Refund of Unspent Balance	21,92,370	0
<b>VIII</b>	<b>CORPUS FUND ACCOUNT -</b>		
	a. Recurring	5,19,563	11,63,572
	b. Non-recurring	3,91,452	0
	c. Non-recurring(Advance)	46,258	0
	d. Refunded to Maintenance Account	58,81,000	0
		<b><u>68,38,273</u></b>	<b><u>11,63,572</u></b>
<b>IX</b>	<b>INVESTMENT OF FUNDS -</b>		
	i) Deposit Account	59,00,000	0
	ii) Corpus Fund Account	3,20,00,000	66,43,757
	<b>CLOSING BALANCE -</b>		
	Cash in Bank	3,35,95,427	5,56,26,855
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>41,51,36,080</b>	<b>39,95,66,932</b>

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04  
PART -V - FELLOWSHIP ACCOUNT

	(Figures in rupees)	
	Previous Year	Current Year
<b>RECEIPTS</b>		
<b>Opening Balance -</b>		
Cash in Bank	45,88,799	1,78,50,343
<b>I Grants -</b>		
University Grants Commission (JRF under 'At any one given time basis' Scheme	4,00,00,000	3,00,00,000
<b>II Interest earned on -</b>		
I) Saving Bank Account	1,74,230	2,58,959
II) Investment	13,92,592	11,56,795
<b>III Investment encashed</b>		
	3,03,53,063	4,10,00,000
<b>GRAND TOTAL</b>		
	7,65,08,684	9,02,66,097

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART -V - FELLOWSHIP ACCOUNT**

		Figures in rupees	
		( Previous Year)	(Current Year)
<b>PAYMENTS</b>			
I	<b>JRF under " At any one given time basis" Scheme -</b>		
	i) Fellowship	2,68,98,079	3,40,10,984
	ii) Contingencies	13,20,316	30,41,453
	iii) House Rent Allowance	4,39,946	8,88,874
		<b>2,86,58,341</b>	<b>3,79,41,311</b>
II	<b>Investment of fund</b>	3,00,00,000	4,60,00,000
	<b>CLOSING BALANCE -</b>		
	Cash in Bank	1,78,50,343	63,24,786
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>7,65,08,684</b>	<b>9,02,66,097</b>

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - I MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT**

Head of Account	(Figures in rupees)	
	Previous Year	EXPENDITURE Current Year
1 Administration	4,60,40,423	5,44,62,491
2 Common Services and General Charges	9,23,37,528	8,49,16,363
3 Academic Programmes	18,35,23,173	18,66,68,026
4 Examinations	14,66,064	18,75,422
5 Library	2,09,69,953	2,06,70,164
6 Students' Facilities	90,06,974	1,09,10,365
7 Scholarships	30,31,830	29,93,176
8 Students' Hostel	2,27,70,514	2,52,07,099
9 Publications	13,90,641	9,91,328
10 Other Departments	6,89,95,995	7,23,67,103
11 Miscellaneous	2,80,26,321	3,39,22,439
12 Provident Fund and Pension	7,28,22,564	6,95,40,102
13 Payment of Arrears (Revision of pay on account of Fifth Pay Commission)	1,88,61,045	1,41,07,198
14 Transferred to Statement of Assets and Liabilities - On Revenue Account (Excess Income over Expenditure)	5,54,61,984	1,30,61,705
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>62,47,05,009</b>	<b>59,16,92,981</b>

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - I MAINTENANCE (NON-PLAN) ACCOUNT**

Head of Account	(Figures in rupees)	
	Previous Year	Current Year
1 University Grants Commission ( On Revenue Account)	55,89,02,825	54,30,26,871
2 Fees from Students	1,15,37,413	1,07,00,172
3 Hostels	6,89,485	6,80,377
4 Income from Land and Buildings	1,02,11,956	1,00,64,024
5 Publications (Royalties)	1,68,231	1,56,599
6 Sale of Admission forms and Entrance Exams Fees	1,98,63,341	1,91,54,934
7 Interest earned	25,22,568	28,76,194
8 Miscellaneous Receipts/Revenue	2,08,09,190	50,33,810
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>62,47,06,009</b>	<b>69,18,92,981</b>



**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - II -DEVELOPMENT(PLAN) ACCOUNT**

Head of Account	(Figures in rupees)	
	Previous Year	EXPENDITURE Current Year
1 Academic Programmes -		
a. Schools	21,60,560	27,10,248
b. Miscellaneous Other Academic Activities	97,28,692	82,28,930
c. Other Individual Schemes	66,04,561	1,24,14,870
2 Combined Entrance Examination for Bio-technology Course	19,18,581	14,10,595
3 Transferred to Statement of Assets and Liabilities - On Revenue Account (Excess income over expenditure)	0	1,28,55,923
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2,04,12,394</b>	<b>3,76,20,566</b>

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2003-04**  
**PART - II DEVELOPMENT (PLAN) ACCOUNT**

Head of Account	(Figures in rupees)	
	Previous Year	INCOME Current Year
1 Grants - University Grants Commission ( On Revenue Account)	38,50,807	2,28,63,155
2 Other Organisations ( On Revenue Account)	42,68,111	36,29,000
3 Sale of Admission forms/Examination fees for Bio-technology Coursed/Bio-informatics Courses	84,69,555	80,53,606
4 Interest earned on - (Saving Bank Account)	10,04,847	14,52,826
5 Miscellaneous Receipts/Recoveries	3,20,500	16,21,979
6 Transferred to Statement of Assets and Liabilities -  On Revenue Account (Excess expenditure over Income)	24,98,574	0
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2,04,12,394</b>	<b>3,76,20,566</b>

## STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS ON 31.3.2004

As on 31.3.2003 Rs.	LIABILITIES	As on 31.3.2004 Rs.
1,31,69,39,935 *	Capitalised Value of Grants	1,44,12,95,209
4,15,61,586.	Grants utilised for payment of Advances	2,53,85,918
	Grants under utilisation -	
16,91,53,414	I) On Revenue Account	19,49,71,042
16,70,91,311	II) On Capital Account	18,29,34,553
	Gifts and Donations -	
24,86,377	I) Gifts and Donations	24,86,377
1,22,38,162	ii) Value of Books donated to the University	1,26,77,284
5,78,53,037	Endowments and Prizes (Corpus)	6,57,12,984
14,58,42,662	Balance of Earmarked (Special) Fund A/C	15,90,70,925
4,28,50,343	Balance of Fellowship Account	3,63,24,786
	Deposit Account balances (Other than Provident Fund Account, Depreciation Reserve Fund Account etc.)	3,09,37,973
11,45,099	Interest earned on Deposit Reserve Fund	11,75,781
8,07,26,179**	House Building Fund	8,71,15,866@
1,55,09,097	Conveyance Advance Fund	1,55,90,746
3,76,13,749	Corpus Fund	5,16,06,143
	<b>Provident Fund Account -</b>	
40,70,85,918	I) General Provident Fund	45,92,93,803
9,09,59,912	ii) Contributory Provident Fund	10,38,67,552
2,25,46,568	iii) Interest	2,01,64,256
21,003	Receipts/Recoveries Awaiting Adjustment	21,003
0	Group Insurance Scheme (Claim)	1,54,750

\* Includes a sum of Rs. 33.33 lakhs received from IIT, Rs.28.33 lakhs received from NCERT towards the cost of construction of Kendriya Vidyalaya Building and Rs. 9.66 lakhs received from Kendriya Vidyalaya Sangathan towards the cost of construction of 2 quarters for KVS/Furniture

\*\* includes Rs. 4,17,73,179/- on account of interest earned on House Building Advance Fund.

@Including Rs. 4,81,62,866/- on account of interest earned on House Building Advance Fund.

## STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS ON 31.3.2004

As on 31.3.2003 Rs.	ASSETS	As on 31.3.2004 Rs.
	<b>DEVELOPMENT OF UNIVERSITY CAMPUS -</b>	
	<b>Land -</b>	
2,44,26,996	i) At New Campus	2,44,26,996
26,676	ii) At Ferozeshah Road	26,676
	<b>Buildings -</b>	
28,88,83,465	i) At New Campus -	28,88,83,465
21,03,53,789	a. Completed	25,88,36,891
	b. Work in progress	
21,07,201	ii) At Ferozeshah Road	21,07,201
8,42,28,846	External Services	9,16,07,133
1,04,351	Tools and Plants	1,04,351
3,07,71,086	Furniture and Furnishing (excluding Library)	3,63,53,778
41,44,40,858	Equipments	45,12,45,696
10,50,980	Furnishing of Language Lab./CRS Installation of Japanese Lab.	10,50,980
	<b>Library -</b>	
25,32,48,273	i) Books and Journals	27,84,18,903
87,73,414	ii) Furniture	1,03,19,525
4,37,667	iii) Microfilms & Reprographic equipment	4,37,667
81,76,587	Telephones	81,82,487
46,34,287	University Vehicles	44,57,123
	<b>Advance of Capital nature paid out of -</b>	
93,40,835	i) Maintenance(Non-Plan) Account	21,48,137
2,43,22,757	ii) Development (Plan) Account	2,04,37,005
78,51,736	iii) Earmarked(Special) Fund Account	28,00,776
46,258	iv) Deposit Account	0
8,86,64,331	Investment of Endowments/EMF Account Balance	9,49,47,898
51,58,99,464	Provident Fund Account (Investment)	57,74,85,205
9,25,00,000	Investment out of Plan Account	12,50,00,000
4,64,921	Festival Advance	4,35,071
0	Group Insurance Scheme(Subscription)	21,478
1,34,31,360	Investment out of Deposits	1,34,31,360
1,85,00,000	Investment out of House Building Fund A/C	1,85,00,000
2,50,00,000	Investment out of Fellowship Account	3,00,00,000
3,21,75,000	Corpus Fund	3,86,43,757
	<b>Advances</b>	
5,56,11,547	i) House Building Advance	5,49,64,716
1,38,23,579	ii) Conveyance Advance	1,12,30,342

**STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS ON 31.3.2004****As on 31.3.2003**  
Rs.**LIABILITIES****As on 31.3.2004**  
Rs.**2,63,90,77,364****TOTAL****2,89,07,86,951**

## STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS ON 31.3.2004

As on 31.3.2003 Rs.	ASSETS	As on 31.3.2004 Rs.
	<b>CLOSING BALANCE -</b>	
1,05,800	Imprest	1,10,775
	Cash in Bank / Hand -	
	Maintenance (Non-plan) Account -	
2,63,25,130	i) University Receipts	5,05,21,648
14,86,27,580	ii) Grants from UGC	13,75,17,642
6,82,48,740	Development (Plan) Account	6,43,47,905
11,50,28,080	Earmarked (Special) Fund Account	12,98,32,723
	Deposit Account (Including Provident Fund, House Building Advance A/C, Students' Account, Conveyance Advance A/C and Corpus Fund Account)	5,56,26,855
3,35,95,427		
1,78,50,343	Fellowship Account	63,24,786
<b>2,63,90,77,364</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2,89,07,86,951</b>

(G. D. DHONDIYAL)  
ASSTT. FINANCE OFFICER

(A. K. MALIK)  
DEPUTY FINANCE OFFICER

(S. NANDKEOLYAR)  
FINANCE OFFICER

**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND  
NOTES ON ACCOUNTS OF THE UNIVERSITY.**

**I. Significant Accounting Policies -**

1. The accounts of the University are prepared on Historical Cost convention and Cash basis instead of accrual basis.
2. The fixed assets are shown at cost without any Depreciation.
3. The UGC does not approve the creation of any Depreciation Reserve Fund, and therefore, no Reserve Fund is created.
4. Investments are accounted for at cost.
5. The value of non-consumable stores written off is deducted from the relevant Assets.
6. No provision is made in the accounts for Retirement benefits viz. Gratuity, Leave Encashment and Pension which are accounted for as and when they are paid.
7. Fixed assets received by way of Gifts and Donations are accounted for in the books by making direct entry in the statement of Assets and Liabilities.
8. The University invests Provident Fund money in Government Securities, Bonds, Certificates issued by the Public Sector Banks, etc., as per the pattern of investment communicated by Govt. of India.

**II. Notes on Accounts -**

1. The University also invests money available out of the Maintenance Grant, not required for immediate use, in short term deposit accounts with the Nationalized Banks.
2. Previous year figures have been indicated wherever necessary to conform to the current year's presentation.

3. In terms of the Executive Council's Resolution the receipts from the recognized institutions are included in Corpus Fund.
  4. The gross value of fixed assets has been shown at their cost of acquisition, which includes freight, duties, taxes and installation charges, if any.
  5. Earmarked Fund Account includes figures pertaining to Project and Fellowship Accounts.
  6. Surplus of University, which includes gifts and donations, are exempt under Income Tax Act.
- .....



**Audit Certificate**

I have examined the Receipts and Payments Account and Income and Expenditure Account for the year ending 31 March 2004 and the statement of Assets and Liabilities as on 31 March 2004 of Jawaharlal Nehru University. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject the observations in the appended Audit Report, which *inter alia* contains the following major audit observations, majority of which have been persistent over the years:

- Contingent liability of Rs. 12.95 crore on account of unpaid property tax to MCD since 1992-93 had not been disclosed in Notes forming part of accounts (Para 2.1.1);
- Assets as well as liabilities were understated by Rs. 1.03 crore due to inclusion of minus balances representing amounts recoverable from the project sponsoring agencies under 189 projects (Para 2.1.2);
- Basic records like land and building register and assets register were not maintained properly. There were differences of Rs. 5.42 crore between the figures shown in the Balance Sheet and the basic records (Para 2.2.2);
- Unutilised/unspent grants of Rs. 16.80 lakh under closed projects lying unreconciled for 4 to 13 years (Para 5.4);
- Sponsoring agencywise projects accounts did not reflect details of sub-headwise expenditure of each project (Para 5.5).

I certify as a result of my audit, that in my opinion these accounts and the statement of Assets and Liabilities are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of Jawaharlal Nehru University according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation

Place : New Delhi  
Dated : 7.3.2005



**Director General of Audit  
Central Revenues**

## CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

New Delhi-110058, the 10th October 2005

No. 20-1/2005-S.R. (Assam) Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section (1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) maintained a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Assam and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby directs that the Central Register of Indian Medicine shall be published in the Gazette of India for general information.

Note:- Every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (Assam) from December 1999 to August 2004 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for rectification of the same in the next publication of the Register.

P. R. SHARMA  
Registrar

## CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

ASSAM (16.12.1999—14.8.2004)

8.2.004)

## PART - I - AYURVED

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDED BY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
85430	Abdul Barique Abdus Salam	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1991	0248 12/01/04	North Barpeta Road, PO & Distt. Barpeta.
85431	Abdul Basit Abdul Geni	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0320 01/03/04	VIII Hat Khola PO Kana Bazar PS Pathar Kandi, Distt. Karimganj.
85432	Abdul Baten Shafi Uddin Ahmed	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0269 09/06/03	GAC Galukbari, Kamrup.
85433	Abdur Rouf Ansar Uddin	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0075 20/07/00	VIII Aditpur, PO, Gunialguri, PS Bagbar, Distt. Barpeta.
85434	Abhijit Bhagabati Ratnavar Bhagabati	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0305 03/02/04	Fatasil Ambari PO & PS Fatasil Ambari, Distt. Kamrup.
85435	Abhijit Thakur Kamakhya Prasad Thakur	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0026 28/03/00	Narakasur Kahilipara PO. Narakasur, PS Dispur, Distt. Kamrup.
85436	Abu Bakkar Siddiqui Md. Noor Hussain	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0254 27/11/02	VIII Gharadanga, PO & PS Gauripur, Distt. Dhubri.
85437	Abul Bashir Azad Md. Rabiullah Sahab	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0185 06/12/01	Govt. Ayurvedic College, Jalukbari, Guwahati.
85438	Abul Fazal Nazir Mollah Alim Uddin Mollah	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0302 03/06/04	K.G.N. Ayurvedic Pharmacy. College Road, PS Lakhipur, Distt. Goalpara.
85439	Abul Fazal Sarkar Md. Samser Ali Sarkar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0202 05/02/02	VIII & PO North Ralpur, PS Gopakganj, Distt. Dhubri.
85490	Abul Kalam Azad Abdul Kaddus Ahmed	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0047 30/03/00	Govt. Ayurvedic College, Jalukbari, Distt. Kamrup.
85491	Adhir Roy LL Tilak Ch. Roy	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0321 01/03/04	VIII & PO Pokalegi PS Gopakganj, Distt. Dhubri.

85492	Ajit Chandra Deka Late Karma Ram Deka	BAMS Gauhati Univ., Guwahati. 1994	0158 26/07/01	VIII. & PO. Karara, PS Eathata Charail, Distt. Kamrup.
85493	Ajit Kumar Sarma Remesh Chandra Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati. 1995	0045 30/03/00	Gopbath Bordoloi Nagar, A.T. Otr. No.17, PS Jalukbari, Distt. Kamrup.
85494	Ajoy Baruah Animesh Baruah	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0315 03/02/04	Kograjhar College Road W/No.7, PO & PS Kokrajhar
85495	Ajoy Mukherjee Late Nani Gopal Mukherjee	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1986	0286 05/06/03	Haruna State Dispensary, Barpeta.
85496	Akshay Kalita Sunanda Kalita	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0303 03/02/04	VIII. & PO. Bamuniraidan PS Chandmari, Kamrup.
85497	Alakesh Majumdar Safish Cfi. Majumdar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0308 03/02/04	VIII. Namdonga PO Baillocha, Distt. Nalbari.
85498	Alpona Roy Nireswar Roy	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0243 26/11/02	Abheyapuri PO & PS Abhayapuri, Distt. Bongaigaon.
85499	Amarendra Goswami Late Rama Kanta Goswami	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1985	0228 25/09/02	VIII. Fatashil PO & PS Bharalumukh Distt. Kamrup.
85500	Anitabh Mazumdar Suddir R. Mazumdar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0028 01/03/00	VIII. Kamakhya gate PO. Bharalumukh PS. Jalukbari, Distt. Kamrup.
85501	Amiya Kr. Kalita Narendra Nath Kalita	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0019 16/12/99	GAC., Guwahati.
85502	Amulya Balishya Pravin Balishya	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0244 26/11/02	Mirza, PO Mirza PS Palashbari, Distt. Kamrup.
85503	Amzad Khan Abdul Gafur Khan	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0171 24/09/01	VIII. & PO Bhogdia PS & Distt. Barpeta.
85504	Anamul Hoque Abu Bakkar Siddique	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0099 10/10/00	Davanda, Sixmile, Panjabari Road, Guwahati, Distt. Kamrup.

85505	Ananta Kr. Bhattacharyya Late Siva Nath Bhattacharyya	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1987	0226 25/07/02	Sibsagar Civil Hospital, Jaisagar, PO & Distt. Sibsagar.
85506	Anil Kisku Bernabas Kisku	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0275 20/06/03	VIII. Dakhinson, PO & PS Dispur, Distt. Kamrup.
85507	Anil Kr. Singh Sri Ram Ratan Singh	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1992	0145 02/03/01	Nallepool Railway Colony, PO & PS Dibrugarh, Distt. Dibrugarh.
85508	Anil Kumar Sarma Uttam Ch. Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1984	0127 24/01/01	VIII. Bamundi, PO Bamundi, PS Suafkuchi, Distt. Kamrup.
85509	Animesh Kumar Sarma Narayan Chandra Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0116 29/12/00	VIII. Mailkuchi PO & PS Naibari, Distt. Naibari.
85510	Anis Iraqi Md. Abdul Khaliq	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0237 26/11/02	Minuthong Golapati, PS Imphal East, Distt. Imphal, Manipur.
85511	Anita Mura Late Devendra Mura	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0188 06/12/01	Arnbikagiri Nagar, Tribeni Path, Jonai (Zoo Road) Guwahati.
85512	Anizur Rahman Md. Abdul Hakim	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0253 27/11/02	VIII. & PO. Goraimari, Distt. Nagaon.
85513	Anjali Prasad Ram Janani Prasad	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2003	0342 19/06/04	AG Otr. No.117/11, Modinagar, Shillong PS Nongthunmal, Distt. East Khasi Hills Meghalaya.
85514	Anup Baishya Khagen Baishya	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0079 20/07/00	VIII. & PO. & PS Goreswar, Distt. Kamrup.
85515	Anuradha Roy Ajit Kr. Roy	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0252 27/11/02	Adabari Telecom Complex Otr. No. T-IV/5-6, Guwahati-12, Kamrup.
85516	Archana Bhuyan Tilswar Bhuyan	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0089 11/09/00	VIII. & PO. & PS Khelmeti, Distt. Lakhimpur.
85517	Arun Chandra Das Birendra Ch. Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1988	0138 09/02/01	Dihingmukh SHC PO Dihingmukh, Distt. Sibsagar.

85518	Ashok Talukder Late Kamalchya Charan Talukder	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0271 08/05/03	Krishna Nagar, Japargog, Guwahati.
85519	Ashwini Pt. Gupta Rameswar Pd. Gupta	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1992	0182 08/12/01	30 Bedded Rural Hospital, Bakella, Distt. Karbi Anglong.
85520	Ataur Rahman Late Rakam Ali	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0080 20/07/00	VIII. Tengabari, PO. Chapal Choak PS Mangaldoi, Distt. Darrang.
85521	Atower Rahman Late Sedek Ali	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1991	0054 24/04/00	Gazirlandi PHC, PO Radha, Machabhat, PS Maritachair, Distt. Dhubri.
85522	Atul Chandra Sarmah Late Shyamdev Sarmah	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1988	0082 12/07/00	VIII. Pub-Chesamush PO. Pacharia, PS Hajo, Distt. Kamrup.
85523	Ayub Khan Md. Sabder Khan	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1990	0173 02/11/01	South Salmar PHC, PO Tumai, Distt. Dhubri.
85524	Babul Kalita Sunanda Ram Kalita	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0051 08/04/00	Ramgeon SHC, PO & PS Panipon, Distt. North Lakhimpur.
85525	Behar Islam Lt. Saif Ali	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0326 28/03/04	VIII. Barageon, PO Pub Borka, PS Kamalpur, Distt. Kamrup.
85526	Belendra Nath Bezbaruah Surendra Nath Bezbaruah	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1991	0074 20/07/00	VIII. Abhaypur, PO Goruah, PS Hajo, Distt. Kamrup.
85527	Bendana Sarma Sarai Kr. Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0239 26/11/02	VIII. Bityapur, PO & PS & Distt. Nalbari.
85528	Bendita Sharmah Narendra Nath Sharmah	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1995	0036 30/03/00	New Market, PO. Rangla PS. Rangla, Distt. Kamrup.
85529	Bankim Chandra Nath Satish Chandra Nath	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0004 16/12/99	Charak Hostel, GAC., Jalukbari.
85530	Basirul Islam Eam Uddin	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0251 26/11/02	VIII. & PO Joruchar PS South Salmara, Distt. Dhubri.

85531	Bhaba Kanita Sarma Late Hari Kanita Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1984	0139 09/02/01	Abhaya Puri CHC PO Abhayaspuri Distt. Bhagalpeth.
85532	Bhagaban Choudhury Narayan Choudhury	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1992	0057 17/05/00	VIII. Hakekura PHC PO. Mahamayabhat, PS Golokganj, Distt. Dhubri.
85533	Bhaskar Jyoti Bharali Late Krishna Kanita Bharali	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0140 09/02/01	Sourpur PO & PS Sourpur, Distt. Kamrup.
85534	Bhaskarjit Saini Phanidhar Saini	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0310 03/02/04	Dr. JCB Hostel, Govt. Ayurvedic College.
85535	Bibhu Sankar Das Koshab Ch. Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0235 12/01/04	VIII. Medhatapur PO & PS Neerimal, Distt. Kamrup.
85536	Bijuli Das Late Rati Ram Kumar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1990	0070 11/09/00	MMC. Hospital, PO & PS Panbazar, Distt. Kamrup.
85537	Bimal Chandra Boro Bharat Chandra Boro	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0020 16/12/99	GAC., Guwahati.
85538	Biman Choudhury Bhupendra N. Choudhury	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0309 03/02/04	Amilbaghi Nagar PS Geetanagar, Distt. Kamrup.
85539	Binay Sen Chitendra Nath Sen	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0215 06/06/02	VIII. Shernagar PO Agomani, PS Golakganj, Distt. Dhubri.
85540	Binod Bharali Nagendra Bharali	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1992	0345 19/06/04	VIII. & PO. Sanupeta PS Sanupeta, Distt. Bongaigaon.
85541	Binod Kalita Dandi Ram Kalita	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0015 16/12/99	Hostel No. 1, GAC., Guwahati.
85542	Bipul Chandra Das Late Tambhu Ram Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1991	0121 10/01/01	VIII. & PO. Jorinigog, PS & Distt. Nalbari.
85543	Bipul Chandra Kalita Amulya Rafan Kalita	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0088 18/08/00	VIII. & PO & PS Chandmani, Distt. Kamrup.

85544	Bipul Kr. Nath Late Ramesh Chandra Nath	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1989	0065 14/06/00	Kamakhya Gate PO, Bimalumukh PS Jalukbari, Distt. Kamrup.
85545	Bipul Kr. Sarma Kaliprasad Deva Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0037 30/03/00	VIII. Bamfor, PO. Topetali, P.S. Ksheti, Distt. Kamrup.
85546	Birendra Nath Choudhury Bibhuti Pd. Choudhury	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0033 30/03/00	GAC. Guwahati, PO Jalukbari, PS. Jalukbari, Distt. Kamrup.
85547	Bishnu Prasad Sarma Late Kall Prasad Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1985	0230 21/11/02	VIII. & PO. Chenikuthi PS Chandimari, Distt. Kamrup.
85548	Biswajit Das Ghaneshyam Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0114 29/12/00	VIII. Geruah PO & PS Hajo, Distt. Kamrup.
85549	Biswajit Das Ghaneshyam Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0209 04/04/02	VIII. & PO. Kademant PS Gabhari Pathar, Distt. Dibrugarh.
85550	Burhan Uddin Choudhury Md. Khalilur Rahman Choudhury	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0245 26/11/02	VIII. Dakhin Nosbi PO Ambari, PS Murazhar, Distt. Nagaon.
85551	Chakreswar Haloi Phatik Haloi	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1995	0166 12/09/01	VIII. Nalbari Town Ward No.2, PO & Distt. Nalbari.
85552	Chakreswar Sarma Late Lankeswar Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0131 06/02/01	Dibrugarh State Dispensary, PO & PS Dibrugarh, Distt. Dibrugarh.
85553	Champak Medhi Dedhi Ram Medhi	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0113 08/12/00	VIII. Sauraguri, PO Kachabari, PS Tarnulpur, Distt. Nalbari.
85554	Champak Kr. Dutta Late H.N. Dutta	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0132 09/02/01	Govt. Ayurvedic College, Hospital, Jalukbari, Distt. Kamrup.
85555	Chandana Modhi Sarbajanda Modhi	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0135 09/02/01	R.G. Baruah Road, Zoo Road, Tiniali, Guwahati, Kamrup.
85556	Chandrama Choudhury Lt. Dharani Dhar Choudhury	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0280 12/01/04	VIII. & PO. Barnunigaon, PS Boko, Distt. Kamrup.



8/55/57	Chandranil Das Gupta R. Das Gupta	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0190 06/12/01	Kamakhya Mansla Kamakhya Nager Aasbari Thakali, Distt. Kamrup.
8/55/58	Debaljit Bhattacharyya Parash Ch. Bhattacharyya	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0042 30/03/00	VIII. Sunderbari, PO & PS. Jalukbari, Distt. Kamrup.
8/55/59	Debaljyoti Goswami Jagannath Goswami	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1991	0048 30/03/00	Bokakhati PHC PO & PS Bokakhati, Distt. Golaghat.
8/55/60	Deepak Kumar Harendra Kumar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0156 24/05/01	VIII. Sunderbari, PO & PS Jalukbari, Distt. Kamrup.
8/55/61	Dharmananda Sarma Pranananda Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0013 16/12/99	Hostel No. 1, GAC., Guwahati.
8/55/62	Dhira Das Gopal Ch. Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0317 18/02/04	VIII. Kamachal PO Silpukhuri, PS Chandmani.
8/55/63	Dhiraj Das Denish Ch. Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2003	0332 19/06/04	VIII. Bongara PO Bongara, PS Palasbari, Kamrup.
8/55/64	Dhiren Deka Pharidhar Deka	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0039 30/03/00	C/o Ratul Deka Sumitra Shopping Complex, PO & PS. Mangaldol, Distt. Darrang.
8/55/65	Dhirendra Nath Deka Debendra Nath Deka	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1987	0429 24/01/01	Govt. Ayurvedic College, Jalukbari, Guwahati.
8/55/66	Dibyajyoti Bordoloi Lakshmi Prasad Bordoloi	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0063 12/07/00	Govt. Ayurvedic College, Jalukbari, Distt. Kamrup.
8/55/67	Dilip Gogoi Adi Ram Gogoi	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0211 04/04/02	Tengraimukh PHC Majuli, Distt. Jorhat.
8/55/68	Dilip Kr. Deka Dhani Ram Deka	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1993	0218 20/07/02	VIII. Diplang PO Lahkarpura, PS Kayan, Distt. Kamrup.
8/55/69	Dilip Kr. Goswami Lt. Yajna Nath Goswami	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1989	0323 01/03/04	VIII. Govt. Ayurvedic College, PS Jalukbari, Kamrup.

85570	Dilip Kr. Nath Jogendra Chandra Nath	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1992	0031 30/03/00	VIII. & PO. Khenapara, PS. Dispur, Distt. Kamrup.
85571	Dilip Kr. Sarma Late Hari Kanta Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0137 09/02/01	Serbhog CHC PO & PS Serbhog, Distt. Barpeta.
85572	Dimbeswar Patowary Kanak Patowary	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0289 12/01/04	VIII. & PO. & PS Belsor, Distt. Nalbari.
85573	Dipak Ch. Das Haren Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0117 29/12/00	VIII. Kalbari, PO Bhawanipur, PO & Distt. Barpeta.
85574	Dipak Chandra Kalita Bhaba Kanta Kalita	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1991	0043 10/10/00	Dholai PHC Silchar, Cachar.
85575	Dipak Kumar Das Rabi Ram Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1992	0143 19/09/01	Harnagar PHC PO & PS Joypur, Distt. Cachar.
85576	Dipak Kumar Das Ganesh Ch. Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1995	0285 10/12/03	PO & VIII. Kulhati, PS Hajo, Kamrup.
85577	Dipak Kumar Goswami Kumud Chandra Goswami	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1995	0207 15/02/02	VIII. & PO Mashalpur PS Barbari, Distt. Nalbari.
85578	Dipak Sarma Bongshi Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1993	0142 09/02/01	Buregohein Then PHC PO Deexgaon, Distt. Nagaon.
85579	Dipali Das Sri Umesh Ch. Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1993	0148 / /	VIII. Udaypur PO. Milanpur, PS. Nalbari, Distt. Nalbari.
85580	Dipali Kalita Bijay Ram Kalita	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1991	0100 10/10/00	Anil Nagar, Rajgarh Link Rd. PO Uluberi, PS Golanagar, Distt. Kamrup.
85581	Dipali Nath Late Murindra Kr. Nath	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1985	0149 22/05/01	Marigaon C.H. PO. & PS Marigaon, Distt. Marigaon.
85582	Dipankar Thakuria Mani Ram Thakuria	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1995	0341 19/06/04	VIII. Batabari, PS Lalgaon, Distt. Darrang.
85583	Ditiment Borthakur M.C. Borthakur	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0248 26/11/02	VIII. Latakata Santinagar, PO & PS Basistha, Distt. Kamrup.

85584	Elasar Rahman Syed Saifuddin Ahmed	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0050 06/04/00	Life Line Medicos, ASTC Bus PO & PS Rangla, Kamrup.
85585	Elina Talukdar Nikitya Renjan Talukdar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0272 09/06/03	VIII. Kamalanagar, PO & PS Chawngte, Distt. Lavingtal, Mizoram.
85586	Eliza Easmin Md. Mahibur Rahman	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0018 16/12/99	Girls Hostel, GAC., Guwahati.
85587	Firoz Uddin Ahmed Md. Abu Bakkar Sheikh	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0007 16/12/99	VIII. Pub Kanari, PO. Golakganj, Distt. Dhubri.
85588	Firoz Uddin Ahmed Md. Abu Bakkar Sheikh	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0220 20/07/02	VIII. Pub-Kanuri PO & PS Golakganj, Distt. Dhubri.
85589	Gauri Sankar Ramchilary Bishnu Pd. Ramchilary	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0247 26/11/02	VIII. & PO Subenkhata PS Borbarim Distt. Nalbari.
85590	Gautam Haloi Chakradhar Haloi	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0098 10/10/00	VIII. & PO. Kakaya PS Belsor, Distt. Nalbari.
85591	Gautam Kr. Das Late Bipin Chandra Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0161 26/07/01	PO & Vill Kulhati PS Hajo, Distt. Kamrup.
85592	Gautam Kr. Sarma Late Surendra Nath Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1989	0134 09/02/01	Rampur PHC, PO Rampur, PS Palashbari, Distt. Kamrup.
85593	Gautam Pratim Dutta Bhoreswar Dutta	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1995	0283 15/10/03	C/o Mr. Bhadreswar Dutta, Dibrugarh University Campus, Dibrugarh.
85594	Gautam Saikia Achyut Ch. Saikia	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1987	0040 30/03/00	Digboi C.H. PO. Digboi PO. Distt. Tinsukia.
85595	Gautam Sharma Sri Rajani Kanta Sharma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0151 22/05/01	VIII. Hemnagar, PO Tezpur, PS Tezpur, Distt. Sonitpur.
85596	Girish Ch. Dutta Late Keshab Ch. Dutta	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0174 02/11/01	VIII. Maguri, PO. Soneswar, PS Kamalpur, Distt. Kamrup.
85597	Gita Rani Thakuria Remani Kanta Thakuria	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0111 08/12/00	VIII. Ramdla PO Majorkuri, PS Hajo, Distt. Kamrup.

85598	Golap Hussain Late Nabibar Rahman	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1991	0055 17/05/00	Algaipur PHC PO & PS Algaipur, Hailekandi.
85599	Gorindra Baruah Chandi Ram Baruah	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0136 09/02/01	VIII. Aligaon PO, Hin ulaa, PS Karnapur, Distt. Kamrup.
85600	Himantha Saikia Uma Kanta Saikia	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0284 10/12/03	VIII. Nilachalpur, PO Maligaon, PS Jalukbari, Distt. Kamrup.
85601	Hafijur Rahman Rajab Ali	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2003	0338 19/06/04	VIII. Rampur, PS Mukalmua, Distt. Nalbari.
85602	Hari Prasad Sarma Lakshmi Narayan Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0322 01/03/04	VIII. & PO. Bharalumukh, Distt. Kamrup.
85603	Hem Chandra Kachari Sukur Kachari	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0092 16/09/00	Rupnagar, Bhangaagarh, Dispur, Guwahati.
85604	Hemanta Das Debendra Nath Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0032 04/02/00	VIII. & PO. Akaya PS, Patacharukuchi, Distt. Barpeta.
85605	Hemanta Kr. Choudhury Nagendra Nath-Choudhury	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1991	0072 29/06/00	VIII. Bhomdabati, PO Bezera, PS Bahata Charali, Distt. Kamrup.
85606	Hemen Kalita Late Ghana Kanta Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0103 07/11/00	VIII. Birubari, PO Gopinath Nagar, PS Paltan Bazar, Distt. Kamrup.
85607	Hemen Kr. Sarma Chandra Kanta Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0214 06/06/02	VIII. Deharkuchi, PO Sanekuchi, PS Ghograpahar, Distt. Nalbari.
85608	Henguli Medhi Pratap Chandra Medhi	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0257 29/11/02	VIII. & PO. Nathkuchi PS Tihu, Distt. Nalbari.
85609	Hirendra Nath Sarma Late Sonapati Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1990	0152 22/05/01	Bedarpur S.H.C. PO. Badarpur, Distt. Karimganj.
85610	Homen Kumar Das Aswini Kumar Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0170 24/09/01	VIII. & PO & PS Azara, Distt. Kamrup.

85611	Homendra Kr. Nath Lata Manindra Kr. Nath	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0076 20/07/00	VIII. Dakshin Chuburi, PO & PS Sipejhar, Distt. Darrang.
85612	Hriday Pathak Chandra Kant Pathak	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0157 04/06/01	VIII. Maharani PO, Baghmara PS Pastacharkuchi, Distt. Barpeta.
85613	Hrithazuo Buhril Vanlalimoy Buhril	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2003	0343 19/06/04	Priyadharshini Girls Hostel, Jalukbari, Guwahati.
85614	Hrishi Bandana Konwar Lalit Ch. Konwar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0294 12/01/04	C/o Mr. Lalit Ch. Konwar, BVFOL Namrup Personal Deptt. PS. Namrup.
85615	Indrajit Goswami Umesh Ch. Goswami	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0058 17/05/00	PO Parbatpur, Dibrugarh.
85616	Indu Bhulsan Sarma Karuna Kanta Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0314 03/02/04	Govt. Ayurvedic College, PO. & PS. Jalukbari, Distt. Kamrup.
85617	Inya Lingu Tai Lingu	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0216 06/06/02	VIII. Bargaon PO Bihadia PS Baihata Charali, Distt. Kamrup.
85618	Iqbal Hussain Abdul Awal	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1995	0090 11/05/00	VIII. Kuntor PO & PS Likabelli, Distt. West Siang Arunachal Pradesh.
85619	Jagadish Sarma Krishna Mohan Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1990	0328 10/05/04	VIII. & PO. Khalsavita PS Lakhimpur, Distt. Goalpara.
85620	Jahanara Khakam Azizur Rahman	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0012 16/12/99	VIII. & PO. & PS Naharkatia, Distt. Dibrugarh.
85621	Jahidul Islam Abul Hussain	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1989	0204 05/02/02	PO. Badarpur, Distt. Karimganj.
85622	Jakaria Mahiuddin Pear Hussain	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0219 20/07/02	Lala PHC, PO Lala, Distt. Hailakandi.
85623	Jamal Ahmed Choudhury Riazuddin Ahmed	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1991	0084 18/08/00	VIII. & PO. & PS Rangla, Distt. Kamrup.
				VIII. Hatgaon PO & PS Dispur, Distt. Kamrup.

85624	Jay Prakash Sarma Mahendra Nath Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0327 29/03/04	VIII. Mahanta PO Kanlha, PS Kamalpur, Distt. Kamrup.
85625	Jayanta Kr. Kalita Surendra Kalita	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0081 20/07/00	VIII. Dakshin Chubunt PO & PS Sipajhar, Distt. Darrang.
85626	Jayanta Kr. Khatanlar Hemanta Kr. Khatanlar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1995	0078 20/07/00	VIII. & PO Gobindapur PS Patacharkuchi, Distt. Barpeta.
85627	Jayanta Kr. Sarma Mahendra Nath Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0035 30/03/00	VIII. Nazbarigog, PO. Kanlha, PS. Rangla, Distt. Kamrup.
85628	Jayanta Sarmah Jadev Sarmah	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0241 28/11/02	VIII. & PO. Dulapathar PS Bihpuria, Distt. Lakhimpur.
85629	Jayashree Sarkar Upendra Nath Sarkar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0238 28/11/02	Flood Control & Irrigation Vivek Vihar, PO. Itanagar, Distt. Padumpara.
85630	Jennifer D. Parte Lt. Surendra Nath Deka	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0107 08/12/00	VIII. Lakharupara, PO & PS Sipejhar, Distt. Darrang.
85631	Jibo Dutta Nabin Chandra Dutta	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0091 11/09/00	VIII. Dhenudhartha PO Panigaon, PS North Lakhimpur, Distt. Lakhimpur.
85632	Jitendra Malekar Late Suriya Malekar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1990	0097 10/10/00	Bih Puria PHC, Lakhimpur.
85633	Jiwli Baro Mani Ram Baro	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0106 08/12/00	VIII. Totolapera PO Bhergaon, PS Panori, Distt. Darrang.
85634	Jogesh Baruah Saubhagya Baruah	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1995	0177 06/12/01	VIII. Bhotpara PO Palash Pathar, PS Dhekiajuli, Distt. Sonitpur.
85635	Juri Sarma Tarani Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2003	0330 19/06/04	VIII. Maidan, PO. Beitola, PS Dispur, Distt. Kamrup.
85636	Jyotsna Das Bhubaneswar Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1990	0101 10/10/00	VIII. & PO. Lankeswar PS Jalukbari Distt. Kamrup.

85637	Kaipana Baruah Late Gunadhar Bruah	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0124 24/01/01	VIII. Nizarapur PO & PS Jalukbari Distt. Kamrup.
85638	Kaipana Sarma Manohar Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0208 15/02/02	VIII. & PO. Path-sala PS Path-sala, Distt. Barpeta.
85639	Kamal Chandra Borah Jagamanath Borah	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0080 12/07/00	VIP. PO & PS Azara, Distt. Kamrup.
85640	Kamal Chandra Gandhila Late Seutok Kr. Gandhila	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1990	0144 19/03/01	VIII. Souraguri, PO & PS Tamulpur, Distt. Nalbari.
85641	Kamal Kalita Harmohan Kalita	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0163 07/08/01	VIII. Kairara PO Soudha, PS Nalbari, Distt. Nalbari.
85642	Kamal Krishna Nath Prasanna Kr. Nath	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0312 03/02/04	VIII. & PO. Rangla, Distt. Kamrup.
85643	Kamal Kumar Barman Gajendra Barman	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0027 30/03/00	VIII. Belsor, PO Belsor, PS. Belsor, Distt. Nalbari.
85644	Kameswar Das Chana Ram Saloi	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0109 08/12/00	VIII. Chochamukh PO Kufhati, PS Haje, Distt. Kamrup.
85645	Kanak Kalita Dhireswar Kalita	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2003	0340 19/06/04	VIII. Chochamukh PS Hajo, Distt. Kamrup.
85646	Kanika Goswami Dharanidhar Goswami	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1992	0125 24/01/01	VIII. Sarihachakia PO & PS Patacharkuchi, Distt. Barpeta.
85647	Karab Ali Md. Kadhim Ali	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0115 29/12/00	VIII. Santipur PO & PS Nalbari, Distt. Nalbari.
85648	Kausheyha Khakhlary Monoranjan Khakhlary	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0082 20/07/00	VIII. & PO. & PS Mukalmua, Distt. Nalbari.
85649	Khagen Basumatary Mani Ram Basumatary	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0196 05/02/02	VIII. & PO. Deuluchi PS Rangia Distt. Kamrup.
85650	Khandakar Golap Hussain Md. Shamsill Hoque	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1992	0147 30/03/01	Giripganj PHC PO. Nayagaon, Distt. Karimganj.

85651	Khoruo Mary Vilasalia Belho	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0273 20/06/03	Mission Compound T. Khel, PO & PS Kohima, Distt. Kohima.
85652	Kumaresh Sarma Nalini Kt. Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0279 20/06/03	VIII. Khudra Bhaluk PO, Bhaluk, PS Patancharkuchi, Distt. Barpeta
85653	Kumud Sarma Late Kall Prasad Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0162 26/07/01	VIII. & PO Genua PO Hajo, Distt. Kamrup.
85654	Laba Dev Goswami Dina Nath Goswami	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1987	0155 24/05/01	Nazira S.H.C. PO & PS Nazira, Distt. Sibsagar.
85655	Lakhya Jyoti Sarmah Late Hereswar Sarmah	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0087 18/08/00	VIII. & PO. Bhoketi Kanda PS Kalaitgeon, Darrang.
85656	Lakhya Kumar Handique Kanthi Ram Handique	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1989	0096 16/09/00	Dhemaji Civil Hospital PO & PS Dhemaji, Distt. Dhemajil.
85657	Latifur Zaman Md. Anzad Ali	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0128 24/01/01	Barana Road, PO & PS Nalbari, Distt. Nalbari.
85658	Liladhar Brahma Late Arjun Ch. Brahma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1984	0267 05/06/03	Bhakatpara State Dispensary PO Bhakatpara, Darrang.
85659	Lukumoni Dutta Kusheswar Dutta	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0256 29/11/02	VIII. Analapatty PO & PS Dhakuakhana, Distt. Lakhimpur.
85660	Luffor Rahman Ebadullah Sarkar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0236 26/11/02	B.N. College Road, PO Bidyapara, PS & Distt. Dhuturi.
85661	Mitalee Brahma Upendra Nath Brahma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0227 25/07/02	East Gosala, Maligaon Rty Qtr. No.82/B, Guwahati.
85662	Madhu Prasad S.G. Prasad	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0126 24/01/01	Forest Gate, Narenji PO & PS Noonmati, Distt. Kamrup.
85663	Madhusudan Kalita Mahendra Kalita	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0199 05/02/02	VIII. & PO. Dwarukuchi, PS Rangla, Distt. Kamrup.
85664	Mahesh Ch. Das Rameswar Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1987	0064 14/06/00	Govt. Ayurvedic College, Jalukbari, PS. Jalukbari, Distt. Kamrup.



85665	Malabika Taid P.N. Taid	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0108 08/12/00	VIII. & PO. North Lakhimpur PS North Lakhimpur, Distt. Lakhimpur.
85666	Malay Kr. Roy Late Jadbhar Roy Pradhan	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0231 21/11/02	VIII. Nalla PO Dimakuri, PS Golagani, Distt. Dhubri.
85667	Malay Ratan Dev Mukul Ratan Dev	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1991	0104 25/01/01	VIII. Birubari Bazar PO Gopinath Nager PS Paltan Bazar, Distt. Kamrup.
85668	Manita Mishra Purohit Bhanwar Lal Purohit	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0021 20/12/99	Tanum Nagar, PO. Dispur, PS Dispur, Distt. Kamrup.
85669	Maneshiyoti Sarma Late Madan Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0192 06/12/01	Govt. Ayurvedic College, Jalukbari.
85670	Mani Ram Kalita Karkatu Kalita	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1989	0025 28/03/00	Jhanji, PO. Jhanji, PS. Gaurisagar, Distt. Sibsagar.
85671	Manindra Dhar Sarma Mahi Dhar Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1988	0346 27/08/04	VIII. Bongaigaon PS Bongaigaon, Distt. Bongaigaon.
85672	Manir Uddin Dewan Abdul Aziz Dewan	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0201 05/02/02	Govt. Ayurvedic College, Guwahati.
85673	Manoj Kathar Joy Nath Kathar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0278 20/06/03	VIII. Bagbari, PO Hahara, PO Khetri, Distt. Kamrup.
85674	Mantu Borah Late Kiran Ch. Borah	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0168 24/09/01	VIII. Santipur PO Santipur, PS Barana, Distt. Nalbari.
85675	Mantu Des Maheswar Des	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0119 29/12/00	VIII. Kajipara PO & PS Nalbari, Distt. Nalbari.
85676	Mayanglambam Bijayalakshmi Devi M. Biren Singh	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0223 20/07/02	Kaiching Khulen PO & PS Kaiching, Distt. Thoubal, Manipur.
85677	Md. Abdul Sattar Md. Ataur Rahman	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0041 30/03/00	Karimganj Road, PO & PS, Badarpur, Distt. Karimganj.
85678	Md. Abul Hussain Md. Abul Kabir Khan	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1992	0242 26/11/02	Chapar 30 Bedded Rural Hospital, PO Chapar, Distt. Dhubri.

85679	Md. Ashad Ullah Lata Hasmet Ali	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0197 05/02/02	Govt. Ayurvedic College, Guwahati.
85680	Md. Habibur Rahman Khan Md. Abdul Abad Khan	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0206 05/02/02	VIII. & PO Saharigaon PS Mokrabati, Distt. Morigaon.
85681	Md. Moslem Uddin Abdus Sobhan	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1992	0146 02/03/01	Kailiganj PHC PO. Kailiganj Bazar, Distt. Karimj.
85682	Md. Nurul Islam Md. Tafazul Ali	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0246 26/11/02	VIII. Markez Road, PO & PS Hojai, Distt. Nagaon.
85683	Meenakshi Kalkoti D/N. Kalkoti	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0110 08/12/00	VIII. & PO. Bongshar PS Suakuchi, Distt. Kamrup.
85684	Mehdi Hasan Saleh Uddin Ahmed	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0260 27/01/03	College Road PO. Bloyepara, PS. & Distt. Dhubri.
85685	Mir Md. Zinna Talukdar Md. Moazzam Hussain Talukdar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0280 04/09/03	VIII. Matibag PO & PS Gauripur, Distt. Dhubri.
85686	Mokibul Alem John Abdul Wahab	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0233 21/11/02	VIII. Dekergaon, PO Kakripara PS Mankacher, Distt. Dhubri.
85687	Monirul Islam Sarkar Md. Mohosin Ali Sarkar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0008 16/12/99	Hostel No.1, GAC. Guwahati.
85688	Mottur Rahman Moin Uddin	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1995	0318 26/02/04	VIII. Pabjuri PO Burungapara Bazar, PS Murayar, Distt. Nagaon.
85689	Moushumi Sharma Bhabesh Chandra Sharma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0258 29/11/02	VIII. Amalapatty Char Ali PO & PS Dibrugarh, Distt. Dibrugarh.
85690	Mridul Bora Narayan Ch. Bora	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0316 18/02/04	VIII. & PO. Bongalchuck PS N. Lakhimpur, Distt. North Lakhimpur.
85691	Mridul Borthakur Jadav Borthakur	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1985	0169 24/09/01	VIII. & PO. Barua Bamungaon, PS Dorgeon, Distt. Golaghat.

85692	Mridul Deori Late Buda Ram Deori	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0083 16/09/00	Dhenaji Ayurvedic Clinic PO & PS Dhemaj, Distt. Dhemaj.
85693	Mridul Ranjan Dev Mukul Ranjan Dev	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0102 10/10/00	VIII. Bhubari, PO. Gopinath Nagar, PS Paltan Bazar, Distt. Kamrup.
85694	Mridusmita Sut Deba Ram Sut	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0313 03/02/04	Priyadarshini Girls Hostel, GAC Ghy.
85695	Minati Basuya Narendra Nath Basuya	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0240 26/11/02	VIII. Submaharia Para PO Barala Khat PS Khoirabari, Distt. Darrang.
85696	Minati Kanti Adhikary Shibendra Nath Adhikary	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0232 21/11/02	VIII. South Tokrochara PO & PS Golekgani, Distt. Dhubri.
85697	Mukda Dhar Sarma Mahidhar Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1985	0253 10/04/03	Bhaluid Sub Centre, PO Bhaluid, PS Patacharkuchi, Distt. Barpeta.
85698	Mukul Candra Sarma Uma Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1992	0030 30/03/00	Goreswar PHC PO, Goreswar, PS, Goreswar, Distt. Kamrup.
85699	Mukul Chakravarty Samir Chakravarty	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2003	0339 19/06/04	VIII. Lanka PO & PS Lanka, Distt. Nowgong.
85700	Mukul Sarma Girindra Nath Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0234 21/11/02	VIII. & PO, Patacharkuchi, PS Patacharkuchi, Distt. Barpeta.
85701	Mumtaz Ali Abdul Malik	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0118 29/12/00	VIII. Jyoti Cinema Hall Road, Lumding PO & PS Lumding Distt. Nagaon.
85702	Munnes Das Kamata Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0292 12/01/04	VIII. & PO Azara PS Azara, Guwahati, Distt. Kamrup.
85703	Naba Kr. Hazarika Late Loknath Hazarika	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1993	0221 20/07/02	VIII. Gabhara PO Duni, PS Sipejhar, Distt. Darrang.
85704	Naba Kumar Nath Jyotiraj Nath	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0002 16/12/99	Niz-Sarabari, PO. Doodhani Ghat, PS-Khairabari, Distt. Darrang.
85705	Nabajyoti Talukdar Kandarpa Kr. Talukdar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0077 20/07/00	VIII. & PO, Dihrenpara PO Fatisil Ambari, Distt. Kamrup.

85706	Nabin Chandra Malakar Late Mahendra Malakar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1987	0154 24/05/01	VIII. Satdala PO & PS Hajo, Distt. Kamrup.
85707	Nang Rumli Chowlu Chew Prasanna Chowlu	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2003	0334 19/06/04	Charak Ausadhalaya Mithen Gate, PO Itanagar, PS Itanagar, Distt. Papumpara.
85708	Narayan Modhil Prabin Modhil	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0153 22/05/01	Govt. Ayurvedic College PO & PS Jalukbari, Distt. Kamrup.
85709	Naser Ali Akand Serajul Haque Akand	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1990	0325 26/03/04	VIII. Naya para PO & PS Bongaigaon, Distt. Bongaigaon.
85710	Nazla Mehrezabeen Habibur Rahman	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0235 26/11/02	G.S. Road, PO & PS Dispur, Distt. Kamrup.
85711	Nazir Hussain Khan Md. Ahmed Hussain Khan	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0285 24/04/03	VIII. Haripur, PO Baharihat, PS Tarabari, Distt. Barpeta.
85712	Nazma Ahmed Md. Eazuddin Ahmed	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0053 06/04/00	VIII. & PO. Japargog, PS Dispur, Distt. Kamrup.
85713	Nazmul Haque Mondal Abdul Hamid Mondal	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0307 03/02/04	Pragati Nagar Ward No. 14, PO Khailpur, Distt. Dhubri.
85714	Neelakshi Dev Choudhury Mohi Nath Dev Choudhury	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0029 30/03/00	Subi Prakashri, Lacchitnagar, PO. Ulubari, PS Ulubari, Distt. Kamrup.
85715	Nibol Kr. Gogoi Late Teseswar Gogoi	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1990	0085 18/08/00	VIII. Hatigaon PO & PS Dispur, Distt. Kamrup.
85716	Nilanjana Uzir Dwipendra Nath Uzir	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0176 06/12/01	VIII. Bamunpara Darnodar Nagar, PO Lakhra, PS Basistha, Distt. Kamrup.
85717	Niral Kr. Das Kant Ram Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0311 03/02/04	VIII. & PO. Bengshar PS Shelkuchi, Distt. Kamrup.
85718	Nirmali Das Aswini Pd Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0222 20/07/02	Birkuchi Narengi, Guwahati, Kamrup.
85719	Niten Barman Maheswar Barman	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0022 23/12/99	VIII. Ponaikaumia PO. Borajal, PS Ghograpar, Distt. Nalbari.

85720	Nivedita Devi Late Nityananda Nath	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0175 08/12/01	Girls Hostel, GAC, Jalukbari.
85721	Nirpon Das Debon Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0194 08/12/01	E.G. Nursing Home Pvt. Ltd. Narengi Tinai, Guwahati.
85722	Nurul Islam Late Haji Bahar Uddin	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0183 08/12/01	VIII. Boinnpara PO Fuler Char PS South Salmara, Distt. Dhubri.
85723	Nurul Islam Md. Monsur Ali	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2003	0337 19/06/04	Dr. JCB. Boy's Hostel No.1, PS. Jalukbari, Distt. Kamrup.
85724	Om Gautam Medhi Khagen Medhi	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0213 04/04/02	VIII. & PO. & PS Barama, Distt. Nalbari.
85725	Orwel Kramisa Johnsing Kramisa	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0224 20/07/02	VIII. Upp. Rongkuroi PO. Satgeon, PS Balihalangso, Distt. Karbi Anglong.
85726	Osman Gauri Abdur Rahman	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1990	0264 10/04/03	Civil Hospital, Dhubri.
85727	Pabitra Ram Des Banti Ram Des	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0185 12/09/01	VIII. Naharbari, PO Majrowmari, PS Dhekiajuli, Distt. Sonitpur.
85728	Paakeza Parveen Md. Jamir Uddin Ahmed	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0001 16/12/99	Girls Hostel, GAC. Guwahati, Distt. Kamrup.
85729	Pallavi Borah Dwijendra N. Borah	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0300 12/01/04	Cl. D.N. Borah GSI., TCO (a) Lakhinagar, Ganeshguri, PS Dikpur, Distt. Kamrup.
85730	Pamshang Paul T. Mangkhep	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0277 20/06/03	VIII. Khangkhul Khullen, PO & PS Ukhrul, Distt. Ukhrul, Manipur.
85731	Pankaj Chandra Baishya Bhebin Chenddre Baishya	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1990	0210 04/04/02	VIII. & PO. & PS Kholrabari, Distt. Darrang.
85732	Pankaj Kr. Barman Bapu Ram Barman	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0083 20/07/00	VIII. & PO. & PS Mukalmua, Distt. Nalbari.
85733	Pankaj Kumar Kalita Late Harpati Kalita	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1995	0205 05/02/02	Rangia Ward No.5, PQ & PS Rangia, Distt. Kamrup.

85734	Pintu Choudhuri Krishna Pada Choudhuri	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0009 18/12/99	Govt. Ayurvedic College, Ghy. Distt. Kamrup.
85735	Prabeer Choudhury Nagen Choudhury	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0212 04/04/02	VIII. Kokrajhar College Rd. PO & PS Kokrajhar, Distt. Kokrajhar.
85736	Pradip Chandra Konwar Kumud Ch. Konwar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1992	0086 18/08/00	VIII. Ahuchandgaon, PO & PS North Lakhimpur, Distt. Lakhimpur.
85737	Pradip Jyoti Sarma Debendra Nath Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0329 10/05/04	VIII. Baragson, PO Devkota Nagar, Distt. Kamrup.
85738	Pradip Kr. Goswami Late Purna Chandra Goswami	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1989	0052 06/04/00	Lecturer, Deptt. of Sanskrit, Samhita & Siddhanta, GAC, Jalukbari.
85739	Pradip Kr. Sarma Mahendra Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1983	0034 30/03/00	Garonagar (Shankar Dev Nagar) PO. Rangla, PS Ranija, Distt. Kamrup.
85740	Pranab Baruah Niladhar Baruah	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0324 26/03/04	VIII. Jyoti Nagar PO & PS Rangla, Distt. Kamrup.
85741	Pranab Sarma Naranath Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1993	0159 26/07/01	VIII. & PO. Baisor, PS Baisor, Distt. Nalbari.
85742	Pranabiyoti Das Birendra Chandra Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0016 16/12/99	VIII. & PO. Golanagar Guwahati, Distt. Kamrup.
85743	Premjata Devi Tankeswar Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2003	0335 19/06/04	Govt. Ayurvedic College, PS Jalukbari, Kamrup.
85744	Puspa Rani Kheria Aroon Kr. Kheria	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0333 19/06/04	VIII. Begnakhawa PO & PS Golaghat, Distt. Golaghat.
85745	Rabati Kumar Basumatary Mirigondra Basumatary	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0167 12/09/01	VIII. & PO> Daranggiri PS Rangjuli, Distt. Goalpara.
85746	Raben Kakati Late Biplin Kakati	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1992	0203 05/02/02	Khawang PHC PO & PS Khawang, Distt. Dibrugarh.

85747	Radha Jakharia N.C. Jakharia	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0286 22/01/04	Dr. (Mrs) D. Jakharia, PO & PS Azara, VIII. Dewripara, Distt. Kamrup.
85748	Rahul Debnath Ratan Chandra Debnath	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0123 24/01/01	Satation Road PO Batadraba, PO Dhing, Distt. Nagaon.
85749	Rainee Devi Someswar Nath	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0283 12/01/04	C/o Kalyan Nath Flat No.302, Meghnallal Apartment, Latasik, Uzanbazar.
85750	Rajiv Kumar Sharma Jibeshwar Sharam	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0193 08/12/01	Govt. Ayurvedic College, Jalukbari.
85751	Raju Kumar Das Tulsi Ram Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0006 16/12/99	Hostel No.1, GAC, Guwahati.
85752	Ramani Malakar Late Laba Kr. Malakar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1992	0073 12/07/00	Sanekuchi St. Dip. PO. Sanekuchi, Distt. Nalbari.
85753	Ramen Deka Keshab Ch. Deka	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0250 26/11/02	Kshudrasankara PO. Gopatthan, PS & Distt. Nalbari.
85754	Ramen Saikia Mina Ram Saikia	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0049 30/03/00	VIII. & PO. Baihata PS Kamalpur, Distt. Kamrup.
85755	Ramez Uddin Late Muslim Uddin	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0120 22/12/00	VIII. Anandapur PO Majgaon, PS & Distt. Barpeta.
85756	Ranjit Kr. Das Mahendra Nath Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0186 06/12/01	Govt. Ayurvedic College, Jalukbari, Guwahati.
85757	Ranju Baruah Haricharan Baruah	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1995	0225 25/07/02	VIII. & PO. Kachubari, PS Tamulpur, Distt. Nalbari.
85758	Ranu Chetri Mottlal Chetri	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0249 26/11/02	VIII. Tetelia PO Gandhinagar, PS Khetri, Kamrup.
85759	Ratan Kr. Das Kamaleswar Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1995	0217 20/07/02	VIII. Patarpara PO. Darangiri, PS Ranjuli, Distt. Goalpara.
85760	Ratna Borah Tarak Borah	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0038 28/03/00	G.A.C. Guwahati, Jalukbari Distt. Kamrup.

85761	Ratul Saloi Late Lankeswar Saloi	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1993	0229 25/08/02	Balipara PHC PO Ballipara, Distt. Sonitpur.
85762	Ravshanara Ahmed Rahiz Uddin Ahmed	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0187 06/12/01	Gandhi Nagar, PO & PS & Distt. Barpeta.
85763	Rupanjali Bharali Tankeswar Bharali	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0291 12/01/04	T. Bharali Geological Survey of India Ganeshguri, Distt. Kamrup.
85764	Rukia Khanam Late Moutozir Ali	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0011 16/12/99	VIII. & PO. Lamajuar Distt. Karimganj.
85765	Rumil Das Mahest: Chandra Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0014 16/12/99	VIII. & PO. Berambol, Distt. Kamrup.
85766	Rumuli Bora Arun Ch. Bora	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0276 19/06/03	VIII. Khanamukh PO Dharapur PS Azara, Distt. Kamrup.
85767	Rupam Kr. Pathek Dalim Chandra Pathak	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0071 17/06/00	VIII. & PO. & PS Dergaon, Distt. Golaghat.
85768	Ruprekha Dutta Kasheswar Dutta	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0180 06/12/01	VIII. & PO. Makhoma PS North Lakhimpur, Distt. Lakhimpur.
85769	Sabin Kalita Bhuban Kalita	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1992	0024 28/03/00	Marabazar PHC PO. Marabazar, Distt. Sibsagar.
85770	Sadikur Rahman Md. Habibur Rahman	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0189 06/12/01	VIII. Adhakhudra PO & PS Juria, Distt. Nagaon.
85771	Safituddin Ahmed Md. Kutubuddin Ahmed	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0274 20/06/03	VIII. & PO. Baikuchi, PS Mukalmua, Distt. Nalbari.
85772	Sahabuddin Ahmed Nazibu Ahmed	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0023 28/01/00	VIII. Bihdia PO. Soniali, PS Hajo, Distt. Kamrup.
85773	Saidul Islam Md. Amir Ali	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0068 12/07/00	VIII. & PO. Loharkatha PS Mukalmua, Distt. Nalbari.
85774	Saiful Haque Hafiz Uddin Ahmed.	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0017 16/12/99	VIII. Shernagar, PO. Agomani, Distt. Dhubri.



85775	Salim Khanam Ahmed Geeshuddin Ahmed	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0288 12/01/04	VIII. Anguri College, Tiniali, PO & PS Anguri, Distt. Sibsagar.
85776	Samsul Hoque Abdul Barek	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0178 08/12/01	VIII. Balarany, PO Chenimari, PS Tarabari, Distt. Barpeta.
85777	Sandip Nath Late Dilal Ch. Nath	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0061 12/07/00	VIII. & PO. Mohandevpur, PS Katigorah, Distt. Cachar.
85778	Sangeeta Giri Ram Bhagawan Giri	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1991	0281 26/09/03	Fiat No.102, Ma Durga Apt Jagananda Chevok, Nandanwan, Nagpur.
85779	Sanjay Kumar Patgiri Late Bhogiram Patgiri	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0172 02/11/01	VIII. & PO. Barnakhata PS Pathsala, Distt. Barpeta.
85780	Sanjib Kr Das Nripendra Chandra Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0261 27/01/03	VIII. Satkhepari PO Barpak, PS Mayang, Distt. Morigaon.
85781	Sanjib Kumar Sarma Ram Chandra Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1998	0010 16/12/99	Hostel No.1, Govt. Ayurvedic College, Guwahati.
85782	Sanjay Jyoti Das Parash Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1996	0198 05/02/02	VIII. & PO> Bongshar, PS Soalkuchi, Distt. Kamrup.
85783	Satish Talukdar Late Kalkara Talukdar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1987	0069 11/09/00	Govt. Ayurvedic College, Jalukbari, PS Jalukbari, Kamrup.
85784	Shalini Bansal Harswarup Bansal	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0059 12/07/00	MRD Road, PO & PS Chandmari, Distt. Kamrup.
85785	Shamsul Alam Ahmed Abdul Gofur	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0112 08/12/00	VIII. Chanpur, PO Baikuri, PS Beghbar, Distt. Barpeta.
85786	Shantanu Kumar Sanyal Tushar Kanti Sanyal	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0160 26/07/01	VIII. Bordduba Tup. PO. Bhurageon, PS Laharighat, Distt. Morigaon.
85787	Sharada Alam Md. Nizamuddin	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0270 09/06/03	VIII. Sunderbari, PO & PS Jalukbari, Distt. Kamrup.
85788	Shashi Sonowal Lt. Tleswar Sonowal	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1991	0105 08/12/00	VIII. Nowboicha PHC PO Nowboicha, PS North Lakhimpur, Distt. Lakhimpur.

85789	Sheikh Chand Mohammad Asger Ali Ahmed	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0200 05/02/02	VIII. Damdama Pathar PO Rampur PS Mulsamua, Distt. Nalbari.
85790	Shewali Farbin Abdus Sattar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0184 06/12/01	Govt. Ayurvedic College, Jalukbari.
85791	Shiren Nesha Md. Abdul Khaliq	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2003	0336 19/06/04	Priyadarsani Girls Hostel No.2, GAC, Guwahati.
85792	Shyemanta Kr. Kalita Sri Pratul Kalita	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0094 16/09/00	VIII. Batakuchi PO Jamtola, PS Rangia, Distt. Kamrup.
85793	Siddhartha Talukdar Baikuntha Ram Talukdar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0122 24/01/01	VIII. Malikuchi PO Bidyapur, PS & Distt. Nalbari.
85794	Sofior Rahman Abdul Kuddus Sikdar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1985	0044 30/03/00	VIII. Chalaserso PO. Chalaserso. PS South Salmara, Distt. Dhubri.
85795	Solim Sultan Md. Sultan Humayan	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2003	0347 14/08/04	Santipur Nalbari Twon Ward No.7, VIII. & PO & PS Nalbari.
85796	Sontashima Nath Late Binesh Ch. Nath	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0181 06/12/01	VIII. Udalbakra PO Lalgaresh, PS Dispur, Distt. Kamrup.
85797	Sudhir Kumar Bhattacharya Sushil Chandra Bhattacharya	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1985	0130 06/02/01	Dibrugarh State Dispensary, PO & PS Dibrugarh, Distt. Dibrugarh.
85798	Sujit Jyoti Sandilya Dimbeswar Barthakur	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2003	0344 19/06/04	VIII. & PO. Barangabari PS Gohpur, Distt. Sonitpur.
85799	Sukumar Das Sri Girin Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0150 22/05/01	VIII. & PO. Nahira PS Palasbari, Distt. Kamrup.
85800	Suman Biswas Sunil Chandra Biswas	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0067 12/07/00	Sridurga Sarani PO. Meherpur. PS. Silchar, Distt. Cachar.
85801	Suresh Swarglary Gajen Swarglary	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1999	0304 03/02/04	VIII. & PO. Nathkuchi PS Tihu, Distt. Nalbari.

85802	Swarnali Das Ganapati Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0191 06/12/01	VIII. Bishnupur PO Bhella, PS & Distt. Barpeta.
85803	Swarnali Sarma Narayan Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2003	0331 19/06/04	VIII. Lakhimi Nagar PO, Gopal Bazar, PS & Distt. Nalbari.
85804	Syeda Sabiana Sultana Syed Taheruddin Ahmed	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0259 29/11/02	VIII. Santipur, PO & PS Nalbari, Distt. Nalbari.
85805	Syeda Semin Islam Syed Fakhmi Islam	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1995	0056 17/05/00	M.B. Road, Tangla PO & PS Tangla, Distt. Darrang.
85806	Tafiquddin Ahmed Syed Zameeruddin Ahmed	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0133 09/02/01	VIII. Sibbaral PO Shengsari PS Karnalpur, Distt. Kamrup.
85807	Tarif Hussain Waz Uddin Ahmed	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1997	0066 12/07/00	VIII. Pandimpara, PO. Jatradia, PS. Tarabari, Distt. Barpeta.
85808	Talakha Jansen Tali AL	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0195 06/12/01	Govt. Ayurvedic College, Jalukbari.
85809	Tikendrajit Sarma Lalit Chandra Sarma	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1994	0046 30/03/00	Kharghuli PS Lakasil, Distt. Kamrup.
85810	Tushar Kanti Mandal Ram Narayan Mandal	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1995	0282 26/09/03	C/o Ashok Kr. Mandal Rty Or. No. 58/03, BBC Colony, PO Pandu, PS Jalukbari, Guwahati.
85811	Tutumeni Saikia K.N. Saikia	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2000	0179 06/12/01	VIII. & PO. & PS Dhalgaon, Distt. Bongaigaon.
85812	Umesh Kr. Singha Late Maya Kr. Singha	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1993	0164 07/08/01	Sapatgram S.H.C., Distt. Dhubri.
85813	Upen Rajbongshi Jogen Das	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2001	0255 29/11/02	VIII. Krishnanagar, PO. Japarigog, PS Dispur, Kamrup.
85814	Utpal Jyoti Mazumdar Dhirendra Kr. Mazumdar	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 1995	0319 01/03/04	VIII. Hengrabari, PO & PS Dispur, Distt. Kamrup.
85815	Vartika Dubey Hrishikesh Dubey	BAMS Gauhati Univ., Guwahati, 2002	0306 03/02/04	R & D Deptt. Oil India Duliajan, Distt. Dibrugarh.

9/816 Vashistha Murali Monohar Kasar  
Suraj Narayan Singh

BAMS  
Gauhati Univ., Guwahati,  
1999

COUS  
16/06/00

VIII. Udayagiri PO Narangl, PS  
Noonmati, Distt. Kamrup

Registrar  
Central Council of Indian Medicine  
New Delhi

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005